



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102024-257716
CG-DL-E-05102024-257716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3904]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946

No. 3904]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASVINA 8, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

का.आ. 4262(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार, उससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है; और इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा;

इस प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे लिखित रूप में, केंद्र सरकार के विचारार्थ, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को, या मंत्रालय के ई-मेल पते esz-mef@nic.in पर प्रेषित कर सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य को कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफईई 57 एफडब्ल्यूएल 2019, दिनांक 16 मई, 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया था और यह कर्नाटक राज्य के गडग जिले के गडग, मुंदरगी, शिरहट्टी और लक्ष्मेश्वर तालुकों में स्थित है और 244.15 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यह क्षेत्र मुख्य रूप से झाड़ीदार जंगल और शुष्क घास के मैदानों से आच्छादित है;

और चूंकि, कप्पाथागुड्डा आरक्षित वन वनस्पतियों और जीवों का अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें 500 किस्म के दुर्लभ औषधीय पौधे, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, ग्रे वुल्फ, चार सींग वाला मृग, काला हिरण और बार हेडेड गीज़ सहित विभिन्न जीव शामिल हैं। उक्त भू-परिदृश्य को 'उत्तर कर्नाटक के पश्चिमी घाट' के रूप में जाना जाता है ;

और चूंकि, आरक्षित वन वे क्षेत्र हैं जहाँ प्राकृतिक पर्यावरण की जैविक दबाव से प्रभावित या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है और इसलिए उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण ये वन "पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र" के रूप में परिभाषित किए जाने के योग्य हैं। क्षेत्र के विविध वनस्पति और जीव-जंतु बताते हैं कि ये वन पारिस्थितिकी रूप से "समृद्ध", "मूल्यवान", "अद्वितीय" हैं और नष्ट होने पर अपूरणीय हैं। कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य डेक्कन ट्रेप और शिस्ट गोल्ड डिपोजिट्स के अध्ययन के लिए एक भूवैज्ञानिक भंडार है;

और चूंकि, कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य ताजे पानी का मगरमच्छ (*क्रोकोडाइलस*), काला हिरण (*एंटीलोप सर्विकारप*), सियार (*कैनिसॉरस*), छोटी नाक वाला फ्रूट बैट (*सिनोप्टेरस स्फिक्स*), ग्रे लंगूर (*सेमनोपिथेकस डुसुमिएरी*), दलदली मगरमच्छ (*क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस*), और बोनेट मैकाक (*मकाका रेडिएटा*) जैसे कई महत्वपूर्ण जीव प्रजातियों का आश्रय स्थल है। कप्पाथागुड्डा के जंगलों में कई औषधीय महत्व वाली पौधों की प्रजातियाँ हैं, उदाहरण के लिए, *एबेलमोसस फिकुलनस*, *अकेशिया चंद्रा*, *एकैलिफा मालाबारिका*, *एनीसोमेल्लस इंडिका*, *एटिलोसिया एल्बिकेंस*, *कैसिया एब्सस*, *यूपेटोरियम ओडारेटम*, *फिक्स बेंगालेंसिस* और *जैथियम स्ट्रुमैरियम*। यह वन्यजीव अभयारण्य विविध पक्षी प्रजातियों को भी आश्रय उपलब्ध कराता है, जैसे इंडियन पी फाउल

(पैवोक्रिस्टेट्स), स्पॉट-बिल्ड डक (अनास पोइसीलोरिंचा), लिटिल एग्रेट (एग्रेटागारज़ेटा), ग्रेटर फ्लेमिंगो (फोनीकोप्टेरस रोज़स), और सफेद पीठ वाला गिद्ध (जिप्स अफ्रिकैन्स);

और चूँकि, जैविक गतिविधियों और जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण, समृद्ध प्राकृतिक वन के क्षरण और वन्यजीवों के नष्ट होने का खतरा है। इसलिए, इस अनमोल और अपूरणीय अद्वितीय परिदृश्य को संरक्षित करने की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से इस क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित करके कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र और सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है;

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जो इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम के रूप में संदर्भित है) की धारा 3 की उपधारा (3) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इसके द्वारा भूकर सर्वेक्षण संख्या को न्यूनतम इकाई के रूप में रखते हुए, कर्नाटक राज्य में कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य की 1 किमी सीमा से 4.30 किमी की सीमा तक के क्षेत्र को, कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र (जिसे इसके पश्चात पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, यथा :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं - (1) कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास का पारिस्थितिकी संवेदी जोन इसकी सीमा से 1 किमी से 4.30 किमी तक फैला हुआ है, जिसमें 322.695 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। इसमें 298.890 वर्ग किलोमीटर राजस्व गांव क्षेत्र और 23.804 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र शामिल हैं। कुल 62 गाँव ईएसजेड के दायरे में आते हैं। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की विनिर्दिष्ट सीमा नीचे दी गई है:

दिशा	विस्तार किमी में (न्यूनतम-अधिकतम)
उत्तर	1.00 से 3.25 (बफर वन क्षेत्र का जारी रहना)
उत्तर-पूर्व	1.00 से 1.00
पूर्व	1.00 से 1.00
दक्षिण-पूर्व	1.00 से 1.00
दक्षिण	1.00 से 1.00
दक्षिण पश्चिम	1.00 से 1.22 (बफर वन क्षेत्र का जारी रहना)
पश्चिम	1.00 से 4.30 (बफर वन क्षेत्र का जारी रहना)
उत्तर-पश्चिम	1.00 से 1.96 (बफर वन क्षेत्र का जारी रहना)

- (2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **अनुलग्नक I** के रूप में संलग्न है।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न हैं।
- (4) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **अनुलग्नक III** के रूप में संलग्न है।
- (5) संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा को दर्शाता है, अन्य विभिन्न मानचित्रों के साथ **अनुलग्नक IVक से अनुलग्नक IVच** के रूप में संलग्न है।
- (6) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की सूची उनके भू-निर्देशांक सहित **अनुलग्नक-V** के रूप में संलग्न है।
- (7) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों की विस्तृत स्थिति **अनुलग्नक-VI** के रूप में दी गई है।
- (8) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों और बफर वनों का सर्वेक्षण संख्यावार ब्यौरा **अनुलग्नक VII** के रूप में संलग्न है।
- (9) इस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले विभिन्न वनस्पतियों और जीवों की सूची **अनुलग्नक-VIII** के रूप में संलग्न है।

2. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जिस पर राज्य में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदित प्राप्त करना होगा।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।
- (3) इस आंचलिक महायोजना को निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा जिससे कि इसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण सम्बंधी विषयों को शामिल किया जा सके:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीवन;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) राज्य राजमार्ग;
- (ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

- (x) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 - (xi) नगरपालिका;
 - (xii) पंचायती राज; और
 - (xiii) लोक निर्माण विभाग ।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक कारगर और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) इस आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य सन्दर्भों के लिए प्रावधान किये जायेंगे जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) इस आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएगा।
- (7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी के पैरा 4 में यथासूचीबद्ध है, विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चयन एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) यह आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज का काम करेगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय** - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, यथा:-

- (1) **भू-उपयोग** - (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए अभिज्ञात उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या इसके संपरिवर्तन की अनुमति नहीं होगी:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन को निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्र सरकार या संघ शासित राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी:-

- i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
- ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- iv. कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
- v. पैरा 4 में दी गई प्रचारित गतिविधियाँ और संबंधित विनियमित गतिविधियाँ;

परंतु यह भी कि संघ शासित राज्य सरकार अनुमोदन के बिना एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, संघ शासित राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

वनीकरण और पर्यावास पुनर्बहाली क्रियालापों के साथ अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत और झरनें** - इस आंचलिक महायोजना में आने वाले सभी प्राकृतिक झरनें/नदियां/जुड़ाव स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और संघ शासित राज्य द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

भूजल निकालने की अनुमति केवल भूमि के मालिक/कब्जाधारी की वास्तव में की जाने वाली कृषि और घरेलू खपत के लिए दी जाएगी। किसी भी वाणिज्यिक/कृषि या पशुधन पालन से होने वाले जल स्रोत के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

ख. पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, केंद्र शासित प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

ग. पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी। पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

घ. पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया निर्माण को अनुमति नहीं दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि, इस संरक्षित क्षेत्र की सीमा रेखा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, किसी नये होटलों और रिजॉर्ट के निर्माण की कोई भी अनुमति पर्यटन महायोजना के अनुसार तथा पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निर्धारित और अतिचिन्हित क्षेत्रों में ही दी जाएगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2018, द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) जब तक इस आंचलिक महायोजना को तैयार एवं अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई भी अनुमति सम्बन्धित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा ही दी जाएगी जो कि निगरानी समिति की स्थल विशिष्ट वास्तविक जाँच और उसकी रिपोर्ट पर आधारित होगी और तब तक ऐसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

- (4) **प्राकृतिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण** - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसमें संशोधन के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 351 (अ), तारीख 15 मई, 1981, के द्वारा प्रकाशित वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), तथा पर्यावरण अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 58 (अ), तारीख 27 फरवरी, 1975, के द्वारा प्रकाशित जल प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा :-
- क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और समय समय पर संशोधन नियमों के आधार पर किया जाएगा . अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचाने गए स्थल पर पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जा सकता है।
- ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के निपटान और पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन की अनुमति दी जा सकेगी।

- (10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा :-
- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन कि अनुमति दी जा सकेगी ।
- (11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (13) **ई-अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (14) **सड़क-यातायात** - सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।
- (15) **वाहन जनित प्रदूषण** - वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) औद्योगिक इकाइयां -

- क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

17. पहाड़ी ढलानों का संरक्षण - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा :-

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव पर्यावरण के वन और वन्यजीव के पर्यावरण मंत्रालय के (संरक्षण) के अधिनियम, 1986 के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों, जिसमें तटीय विनियमन जोन एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में शामिल है, अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, यथा :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और भ्रन्जक इकाइयां, तेल ड्रिलिंग और ड्रेजिंग।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और भ्रन्जक इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित होगा; (ख) खनन प्रचालन, वर्ष 1995 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 202 में टी.एन. गोदावर्मन तिरुमलपाद बनाम यूओआई के मामले में दिनांक 04 अगस्त, 2006; वर्ष 2012 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई

		के मामले में दिनांक 3 जून 2022 के आदेश आई.ए. 2003 की संख्या 1000 और उसी क्रम में आई.ए.2022 की संख्या 131377 के आदेश की तिथि 28 अप्रैल 2023,माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्रियान्वित किया जाएगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या उसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्था फरवरी 2016, के द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुमति समय समय पर यथा संभव बदलाव के साथ होगी और इसमें गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बड़वा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्स्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भस्मीकरण सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस अपशिष्ट के अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण सुविधा की स्थापना निषिद्ध है।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या मौजूदा आरा मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
8.	ईट भट्टों की स्थापना।	सभी नई और मौजूदा ईट भट्ठा इकाइयां प्रतिबंधित हैं।
9.	फर्में और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध। स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन अनुमति होगी ।

10.	नये लकड़ी आधारित उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए लकड़ी उद्योग की अनुमति नहीं होगी: पुराने नियमों और विधियों के अनुसार उद्योग संचालित कर सकते हैं और अनुज्ञापत्र का नविनिकरण पुरानी आरा मशीन के समाप्ति तिथि पर नहीं किया जाएगा।
11.	किसी भी विमान, गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, पैरासेलिंग, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने जैसी पर्यटन से संबंधित गतिविधियाँ करना।	प्रतिषिद्ध। चूंकि, वन और वन्यजीव विभाग गैर वाणिज्यिक प्रयोग व जागरूकता फैलाने और लेख के लिए ड्रोन का प्रयोग कर सकता है।
12.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	प्रतिषिद्ध।
13.	जलावन लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
14.	किसी भी खतरनाक पदार्थ का उपयोग या उत्पादन।	प्रतिषिद्ध।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
15.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
16.	निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण को अनुमति नहीं दिया जाएगा:

		<p>परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जा सकेगी:</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
17.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	<p>फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को गैर-खतरनाक, लघु-स्तरीय और सेवा उद्योग, कृषि, फूलों की खेती, बागवानी या स्वदेशी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले कृषि-आधारित उद्योग कहा जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति के साथ अनुमति दी जाएगी।</p>
18.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जंगल या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई नहीं की जाएगी।</p> <p>(ख) पेड़ों की कटाई को संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।</p> <p>(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्य योजना नियमों का पालन किया जाएगा।</p>
19.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित। पावर ट्रांसमिशन लाइनों और केबलों, दूरसंचार टावरों और केबलों के निर्माण/संवर्द्धन और नवीकरण की अनुमति दी जाएगी। नई अंडरग्राउंड केबलिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
21.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढाँचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमन के उपाय करना।

22.	मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा। मौजूदा सड़कों का सुदृढ़ीकरण उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (अनिवार्य रूप से राज्य वन विभाग और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को शामिल करना) और मार्गदर्शन दस्तावेज़ "रेखीय प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण-अनुकूल उपाय" के अनुसार शमन उपायों के साथ किया जाएगा। वन्यजीवन पर बुनियादी ढांचा।" पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित।
23.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
26.	सतही एवं भूजल का व्यावसायिक निष्कर्षण।	(क) सतही जल और भूजल के निष्कर्षण की अनुमति केवल वास्तविक कृषि उपयोग और भूमि के कब्जेदार/मालिक की घरेलू खपत के लिए दी जाएगी। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही जल और भूजल के निष्कर्षण के लिए, निकाली जा सकने वाली मात्रा सहित, संबंधित नियामक प्राधिकारी से पूर्व अनुमति और अनुमोदित आंचलिक महायोजना के अनुसार आवश्यक होगी। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर किसी भी स्थान पर सतही जल या भूजल की बिक्री प्रतिबंधित है।
27.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित और गतिविधि की नियामक प्राधिकरण द्वारा कठोरता से निगरानी की जानी चाहिए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुआँ को ढकने के उपाय किये जायेंगे।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

29.	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	वाणिज्यिक पशुधन एवं कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय किसानों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन की उचित सावधानियों के साथ लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
31.	दुकानदारों द्वारा पॉलिथीन/प्लास्टिक थैलियों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित, जहां कैरी बैग की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए और गैर-बुने हुए प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होनी चाहिए।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाएँ।	सक्रिय रूप से प्रचारित किया जाएगा। हालाँकि, इनमें से कुछ गतिविधियों के अत्यधिक विस्तार को आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर ऊर्जा, सीएनजी, एलपीजी इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनों/पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. **निगरानी समिति.**- केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य ईएसजेड निगरानी समिति के नाम से एक समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: -

- | | |
|--|----------------|
| 1. क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगावी मंडल | अध्यक्ष, पदेन; |
| 2. उपायुक्त, गडग | सदस्य, पदेन; |
| 3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, गडग | सदस्य, पदेन; |

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 4. | वन्यजीव या पर्यावरण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाएगा। | सदस्य; |
| 5. | जैव विविधता संरक्षण या पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे कर्नाटक सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाएगा। | सदस्य; |
| 6. | जिला पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का एक प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| 7. | जिला लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| 8. | कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| 9. | उप वन संरक्षक, गडग वन मंडल (सामाजिक वन), गडग | सदस्य, पदेन; |
| 10. | उप वन संरक्षक, गडग वन मंडल (प्रादेशिक) | सदस्य सचिव, पदेन |

6. **निगरानी समिति के कार्य** - निगरानी समिति इस अधिसूचना के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करेगी :

- (1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में शामिल गतिविधियों और जो पारिस्थितिक संवेदनशील जोन में आती हैं, की जांच करेगी, सिवाय इसके पैरा 4 के अंतर्गत तालिका में यथानिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों के, और उक्त अधिसूचना के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए, जैसा भी मामला हो, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को संदर्भित कर सकती है।
- (2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल न की गई गतिविधियां और पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में आने वाली गतिविधियां, इसके पैराग्राफ 4 के तहत तालिका में यथानिर्दिष्ट निषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएगी और संबंधित नियामक प्राधिकरणों को भेजी जाएगी।
- (3) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

- (4) निगरानी समिति मामले-दर-मामला आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए विभाग से प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों से प्रतिनिधि या हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।
- (5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष 30 जून तक मुख्य वन्यजीव वार्डन को अनुलग्नक IX में निर्दिष्ट प्रोफार्मा में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केन्द्रीय सरकार, निगरानी समिति को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह उचित समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय-** केन्द्र सरकार और राज्य सरकार इस अधिसूचना के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हो, निर्दिष्ट कर सकती है।

8. **सर्वोच्च न्यायालय आदि के आदेश-** इस अधिसूचना के प्रावधान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेशों, यदि कोई हों, तो उनके के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/06/2024-ईएसजेड]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

अनुलग्नक-1

**कप्पाथागुंडा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र का सीमा
विवरण**

गदग तालुक : गदग जिले के गदग तालुक में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) में केवल उत्तर में अदावी सोमपुरा और पापनाशी गांवों में वन्यजीव अभयारण्य से सटे वन सर्वेक्षण संख्याएं शामिल हैं, इसके बाद उत्तर पश्चिम में बेलाधाडी और नभपुरा (नभपुरा) गांवों के हिस्से और पश्चिम में शिरुंजा गांव के हिस्से, पश्चिम में कबूलयातकट्टी गांव के पूरे हिस्से, उसके बाद दक्षिण में सोरतुरु और हंगनकट्टे गांवों के हिस्से और दक्षिण पश्चिम में इनामवेंकटपुर शामिल हैं।

लक्ष्मेश्वर तालुक : गडग जिले के लक्ष्मेश्वर तालुका में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में अक्कीगुंडा गांव के कुछ हिस्से, उसके बाद पूर्व और दक्षिण-पूर्व में शेटीकेरी, कुंदराल्ली और नादिघट्टी गांव तथा दक्षिण में केवल अदारल्ली और सोगीवाल गांवों के वन सर्वेक्षण नंबर शामिल हैं।

शिरहट्टी तालुक: गडग जिले के शिरहट्टी तालुक में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में परसापुरा गांव के कुछ हिस्से, दक्षिण-पूर्व में छब्बी गांव के पूरे हिस्से, उत्तर में वरवी गांव के कुछ हिस्से और पूर्व में मज्जुर, कुसलापुर और कडाकोल गांव के पूरे हिस्से शामिल हैं। पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में कडाकोल के उत्तर-पश्चिम में जल्लीगेरी गांव के पूरे हिस्से और दक्षिण और दक्षिण पूर्व में तेगिगनाभवनुर, नवेभवनुर, भवनुर, हदगली, बन्नीकोप्पा, केरेहल्ली गांवों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में छब्बी के दक्षिण में देवीहाल गांव के कुछ हिस्से, पूर्व और दक्षिण पूर्व में रानतुर, मचेनाहल्ली और सुगनहल्ली गांव के कुछ हिस्से और पश्चिम में मागदी गांव के कुछ हिस्से शामिल हैं।

मुंडारागी तालुक: गडग जिले के मुंडारागी तालुक में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में शिंगतारायणकेरी गांव के कुछ हिस्से शामिल हैं, इसके बाद पूर्व में कदमपुरा और डोनी, दक्षिण में डिंडूर गांवों के पूरे हिस्से शामिल हैं। पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में डोनी के पूर्व में दंबल और मेवुंडी गांव के कुछ हिस्से शामिल हैं, इसके बाद दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में हिरेवाडदती, हारोगेरी, मुस्तिकोप्पा, कालकेरी, विरुपापुरा, बिडनाल, कोरलाहल्ली, गंगापुरा, शिरानाहल्ली और शिंगतालूर गांव के कुछ हिस्से शामिल हैं। पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र में हिरेवाडदती के दक्षिण-पश्चिम में चिक्कवाडदती गांव के पूरे हिस्से, इसके बाद दक्षिण-पूर्व में केलूर गांव और गुंडाबुदिहल, मुरादी, बागेवाड़ी, जलावदागी, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में हम्मिगी गांवों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में जलावाडगी के पश्चिम में मल्लिकार्जुनपुरा और दक्षिण में मुंडावड गांव के कुछ हिस्से शामिल हैं।

हुविनहादगली तालुक (विजयनगर जिला): विजयनगर जिले के हुविनहादगली तालुक में पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में कप्पाटागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के दक्षिण में नवली और थिमलापुर गांवों के कुछ हिस्से शामिल हैं।

तुंगभद्रा नदी: पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में गडग जिले के मुंडारागी तालुक के शिंगातालुर और हम्मिगी गांवों तथा विजयनगर जिले के हुविनहादगली तालुक के नवली और थिमलापुर गांवों से होकर बहने वाली तुंगभद्रा नदी भी शामिल है।

अनुलग्नक- II

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	15.309764	75.623329
2	15.314861	75.644965
3	15.330233	75.667823
4	15.334207	75.722098
5	15.311236	75.717176
6	15.301483	75.706092
7	15.291999	75.728044
8	15.301266	75.756234
9	15.272423	75.762262
10	15.234545	75.765818
11	15.224410	75.782715
12	15.212669	75.771034
13	15.188503	75.790993
14	15.169309	75.811245
15	15.156449	75.824608
16	15.144658	75.814095
17	15.138228	75.814866
18	15.124502	75.847585
19	15.107410	75.862778
20	15.089001	75.863637
21	15.068453	75.881679
22	15.038676	75.884492
23	15.026872	75.868580
24	15.040946	75.856536
25	15.058847	75.834437
26	15.063055	75.812898
27	15.061132	75.782071
28	15.067665	75.763202

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
29	15.082821	75.776766
30	15.089070	75.775225
31	15.091290	75.747955
32	15.099400	75.729617
33	15.119218	75.717424
34	15.130365	75.700450
35	15.130922	75.691565
36	15.116333	75.672946
37	15.140854	75.674017
38	15.139518	75.662619
39	15.114559	75.640961
40	15.124183	75.632222
41	15.133339	75.615506
42	15.146958	75.611076
43	15.163349	75.597596
44	15.153048	75.573532
45	15.145444	75.555366
46	15.163789	75.555864
47	15.168970	75.547728
48	15.176380	75.516838
49	15.194924	75.526612
50	15.211703	75.540033
51	15.218378	75.559041
52	15.201857	75.573699
53	15.183554	75.591196
54	15.202052	75.610392

55	15.222751	75.623969
56	15.223815	75.650057
57	15.234967	75.660954
58	15.251900	75.661584
59	15.256600	75.639541
60	15.274283	75.641091

61	15.282830	75.638359
62	15.290170	75.623685
63	15.256096	75.792956
64	15.243845	75.808620
65	15.229997	75.803709
66	15.240922	75.787575

अनुलग्नक- III

कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के प्रमुख स्थानों का अक्षांश-देशांतर
ब्लॉक I जीपीएस रीडिंग

ब्लॉक I जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
1	75.629849	15.303308
2	75.657723	15.306806
3	75.664323	15.291123
4	75.652775	15.324246
5	75.714669	15.328753
6	75.719368	15.320551
7	75.703669	15.322921
8	75.707621	15.311934
9	75.691862	15.303298
10	75.679983	15.294763
11	75.700598	15.286297
12	75.684588	15.283064
13	75.681653	15.290175
14	75.688986	15.272825
15	75.700866	15.28381
16	75.718496	15.278375
17	75.72015	15.285591
18	75.734529	15.279694
19	75.739668	15.287872
20	75.750883	15.293867
21	75.75201	15.269507
22	75.754729	15.235773
23	75.729623	15.249515
24	75.739525	15.2274
25	75.756433	15.233414
26	75.77104	15.200074
27	75.806849	15.158153
28	75.805861	15.135948
29	75.801993	15.117743
30	75.819281	15.130269
31	75.853442	15.114093

ब्लॉक I जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
32	75.842067	15.08053
33	75.864589	15.079533
34	75.871034	15.055005
35	75.874988	15.042416
36	75.875137	15.039561
37	75.872823	15.036106
38	75.864799	15.036794
39	75.863635	15.046788
40	75.84976	15.054542
41	75.838179	15.07069
42	75.82139	15.066749
43	75.807198	15.081963
44	75.807442	15.071281
45	75.79047	15.071793
46	75.785801	15.069766
47	75.778587	15.07064
48	75.77086	15.073151
49	75.783187	15.07341
50	75.789058	15.082099
51	75.791329	15.089769
52	75.797682	15.085276
53	75.809951	15.096853
54	75.803828	15.115626
55	75.7851	15.112085
56	75.795712	15.124308
57	75.778846	15.123286
58	75.765044	15.134371
59	75.779198	15.140091
60	75.778422	15.154545
61	75.772497	15.156807
62	75.746484	15.147599

ब्लॉक । जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
63	75.755782	15.171698
64	75.733195	15.17768
65	75.726067	15.183345
66	75.717394	15.187716
67	75.704911	15.200098
68	75.698632	15.190491
69	75.695586	15.218498
70	75.686341	15.20265
71	75.678591	15.210293
72	75.683806	15.228037

ब्लॉक । जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
73	75.665229	15.209456
74	75.673771	15.233291
75	75.666492	15.260873
76	75.656483	15.273448
77	75.670085	15.283774
78	75.651364	15.260925
79	75.649393	15.270187
80	75.64783	15.283508
81	75.640914	15.292858

ब्लॉक ॥ जीपीएस रीडिंग

ब्लॉक ॥ जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
1	75.641174	15.234961
2	75.638006	15.218585
3	75.662626	15.199845
4	75.70271	15.170238
5	75.713177	15.158339
6	75.729084	15.144792
7	75.740871	15.125545
8	75.751242	15.122365
9	75.760247	15.117063
10	75.752882	15.107739
11	75.767077	15.099371
12	75.756447	15.094986
13	75.747838	15.102537
14	75.73381	15.118238

ब्लॉक ॥ जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
15	75.70934	15.133077
16	75.695185	15.140584
17	75.705053	15.155492
18	75.691288	15.160334
19	75.686216	15.149296
20	75.686475	15.168822
21	75.671988	15.168698
22	75.647716	15.177165
23	75.644237	15.191409
24	75.635189	15.188109
25	75.640108	15.198365
26	75.617069	15.208507
27	75.627641	15.210328

ब्लॉक III जीपीएस रीडिंग

ब्लॉक III जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
1	75.604449	15.189561
2	75.613593	15.193562
3	75.630306	15.193982
4	75.621284	15.182673
5	75.624602	15.1619
6	75.635899	15.144935
7	75.642159	15.147377
8	75.636907	15.16857
9	75.645605	15.171347
10	75.652032	15.163707

ब्लॉक III जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
11	75.650448	15.15868
12	75.664565	15.156115
13	75.663391	15.148527
14	75.653784	15.134621
15	75.645463	15.122596
16	75.633536	15.133632
17	75.629329	15.142994
18	75.619202	15.142552
19	75.619856	15.156245
20	75.614386	15.171777


ब्लॉक IV जीपीएस रीडिंग

ब्लॉक IV जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
1	75.525802	15.179002
2	75.527057	15.184842
3	75.538128	15.184688
4	75.540113	15.191407
5	75.53626	15.199293
6	75.549315	15.211016
7	75.557574	15.209451
8	75.567744	15.19348
9	75.56585	15.179971
10	75.574844	15.180657

ब्लॉक IV जीपीएस रीडिंग		
क्र. सं.	देशांतर	अक्षांश
11	75.578388	15.193938
12	75.584347	15.17458
13	75.58714	15.16673
14	75.578092	15.160928
15	75.569368	15.17248
16	75.565738	15.158506
17	75.556173	15.173371
18	75.559337	15.180972
19	75.548329	15.185101
20	75.547471	15.180178


अनुलग्नक-IV क

गडग जिले में कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य का स्थान दर्शाने वाला मानचित्र




अनुलग्नक- IV ख

कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य का ब्लॉक मानचित्र




अनुलग्नक- IV ग

वन बफर क्षेत्र और कप्पाथागुड्डा डब्ल्यूएलएस के प्रमुख बिंदुओं के साथ पारिस्थितिकी संवेदी
जोन को दर्शाने वाला गांव का मानचित्र




अनुलग्नक- IV घ

कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं दर्शाने वाला
गूगल अर्थ मानचित्र




अनुलग्नक-IV ड

कप्पाथगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का टोपोशीट मानचित्र



अनुलग्नक-IV च

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गांवों की अवस्थिति के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का एल्यूएलसी मानचित्र



अनुलग्नक- V

कप्पाथगुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	जिला	तालुक	गांवों का नाम	अक्षांश	देशांतर
1	गडग	गडग	अदावी सोमपुरा	15°21'10.66"उ	75°39'22.07"पू
2	गडग	शिरहट्टी	अधरहल्ली	15°07'55.47"उ	75°34'48.73"पू
3	गडग	शिरहट्टी	अक्किगुंधा	15°10'55.86"उ	75°30'58.94"पू
4	गडग	मुंडारागी	अटारीकट्टी	15°16'30.53"उ	75°38'54.17"पू
5	गडग	मुंडारागी	बागेवाड़ी	15°16'30.53"उ	75°38'54.17"पू
6	गडग	शिरहट्टी	बन्नीकोप्पा	15°06'04.24"उ	75°43'25.04"पू
7	गडग	गडग	बेलाधाडी	15°20'37.72"उ	75°37'50.50"पू
8	गडग	शिरहट्टी	भवनुरा	15°07'31.08"उ	75°42'15.64"पू
9	गडग	मुंडारागी	बिदनाला	15°07'22.56"उ	75°51'20.75"पू
10	गडग	शिरहट्टी	छब्बी	15°09'06.44"उ	75°35'55.98"पू
11	गडग	मुंडारागी	चिक्कवदत्ती	15°09'42.89"उ	75°45'58.82"पू
12	गडग	मुंडारागी	डम्बाला	15°18'05.40"उ	75°45'20.73"पू
13	गडग	शिरहट्टी	देविहाला	15°06'24.92"उ	75°36'17.15"पू
14	गडग	मुंडारागी	ढिंदूरा	15°17'54.59"उ	75°39'52.75"पू
15	गडग	मुंडारागी	डोनी	15°19'20.95"उ	75°43'43.19"पू
16	गडग	मुंडारागी	गंगापुरा	15°05'54.68"उ	75°51'58.16"पू
17	गडग	मुंडारागी	गुड्डाधा बूधिहाला	15°09'39.64"उ	75°44'21.20"पू
18	गडग	शिरहट्टी	हडगली	15°06'33.51"उ	75°42'58.88"पू
19	गडग	मुंडारागी	हम्मागी	15°03'33.08"उ	75°48'58.71"पू
20	गडग	गडग	हंगनाकट्टे	15°13'22.16"उ	75°37'12.87"पू

क्र. सं.	जिला	तालुक	गांवों का नाम	अक्षांश	देशांतर
21	गडग	मुंडारागी	हारोगेरी	15°10'49.99"उ	75°47'59.89"पू
22	गडग	मुंडारागी	हिरेवद्दती	15°14'17.86"उ	75°47'18.31"पू
23	गडग	गडग	इनामवैकटपुरा	15°16'35.82"उ	75°38'21.38"पू
24	गडग	शिरहट्टी	जल्लिगेरी	15°13'07.82"उ	75°39'21.38"पू
25	गडग	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	15°05'11.99"उ	75°46'39.71"पू
26	गडग	मुंडारागी	के. धामपुरा	15°21'12.45"उ	75°42'03.17"पू
27	गडग	गडग	कबालयकट्टी	15°17'14.12"उ	75°37'37.38"पू
28	गडग	शिरहट्टी	कड़ाकोला	15°11'54.76"उ	75°41'12.81"पू
29	गडग	मुंडारागी	कालाकेरी	15°09'03.88"उ	75°49'24.50"पू
30	गडग	मुंडारागी	केलूर	15°09'04.60"उ	75°45'51.49"पू
31	गडग	शिरहट्टी	केरहल्ली	15°04'22.94"उ	75°45'33.54"पू
32	गडग	मुंडारागी	कोर्लाहल्ली	15°06'49.42"उ	75°51'48.02"पू
33	गडग	शिरहट्टी	कुन्द्राली	15°08'46.93"उ	75°33'13.68"पू
34	गडग	शिरहट्टी	कुसलपुरा	15°10'09.18"उ	75°40'24.56"पू
35	गडग	शिरहट्टी	माचेनहल्ली	15°06'59.69"उ	75°40'20.24"पू
36	गडग	शिरहट्टी	मगदी	15°12'05.95"उ	75°31'38.18"पू
37	गडग	शिरहट्टी	मज्जुरा	15°10'34.69"उ	75°38'40.98"पू
38	गडग	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	15°05'12.27"उ	75°45'09.71"पू
39	गडग	मुंडारागी	मेवुंडी	15°15'01.93"उ	75°48'21.26"पू
40	गडग	मुंडारागी	मुंडावाड़ा	15°03'30.60"उ	75°47'41.25"पू
41	गडग	मुंडारागी	मुरादी	15°07'42.36"उ	75°45'54.30"पू
42	गडग	मुंडारागी	मुष्टिकोप्पा	15°09'55.39"उ	75°49'12.90"पू

क्र. सं.	जिला	तालुक	गांवों का नाम	अक्षांश	देशांतर
43	गडग	गडग	नबापुरा	15°18'50.17"उ	75°36'58.82"पू
44	गडग	शिरहट्टी	नदीघट्टी	15°08'02.27"उ	75°34'48.63"पू
45	विजयनगर	हुविनाहादगली	नवली	15°01'47.89"उ	75°52'46.62"पू
46	गडग	शिरहट्टी	नवेबावनुरा	15°08'12.17"उ	75°40'40.60"पू
47	गडग	गडग	पापनासी	15°21'19.98"उ	75°40'37.03"पू
48	गडग	शिरहट्टी	परसापुर	15°13'07.81"उ	75°32'40.68"पू
49	गडग	शिरहट्टी	रणतुरा	15°06'67.67"उ	75°38'47.92"पू
50	गडग	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	15°05'00.07"उ	75°52'24.117"पू
51	गडग	शिरहट्टी	शेट्टीगेरी	15°10'00.74"उ	75°32'18.63"पू
52	गडग	मुंडारागी	शिंगतालुरा	15°03'45.66"उ	75°52'57.47"पू
53	गडग	मुंडारागी	शिंगत्रायणकेरी	15°20'48.21"उ	75°41'17.26"पू
54	गडग	शिरहट्टी	शिरहट्टी	15°12'06.84"उ	75°34'25.26"पू
55	गडग	गडग	शिरुंजा	15°08'03.76"उ	75°37'04.92"पू
56	गडग	शिरहट्टी	सोगीवाला	15°07'20.92"उ	75°35'31.41"पू
57	गडग	गडग	सोरातुर	15°15'22.26"उ	75°37'57.97"पू
58	गडग	शिरहट्टी	सुगनहल्ली	15°06'54.81"उ	75°41'11.42"पू
59	गडग	शिरहट्टी	थेगिगनभवनुरु	15°08'27.69"उ	75°41'28.46"पू
60	विजयनगर	हुविनाहादगली	थिम्मलापुरा	15°01'44.24"उ	75°51'36.59"पू
61	गडग	शिरहट्टी	वरवी	15°12'07.66"उ	75°36'37.80"पू
62	गडग	मुंडारागी	विरुपापुरा	15°08'15.42"उ	75°49'28.90"पू

अनुलग्नक- VI

कप्पाथागुडा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गांवों की विस्तृत स्थिति

क्र. स.	गांव	अनुभाग	श्रेणी	तालुक	होबली	जीपी का नाम	विधानसभा	टिप्पणी
1	अदावी सोमपुरा	गडग	गडग	गडग	बेटागेरी	हटलागेरी	नरगुंड	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
2	अधरहल्ली	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	लक्ष्मेश्वर	अद्राल्ली	शिरहट्टी	सिर्फ वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
3	अक्किगुंधा	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	लक्ष्मेश्वर	गोजानूर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
4	अटारीकट्टी	डोनी	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	शिवाजीनगर	रोन	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
5	बागेवाड़ी	बागेवाड़ी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	शिरहट्टी	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
6	बन्नीकोप्पा	बन्नीको प्पा	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	बन्नीकोप्पा	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
7	बेलाधाडी	सोरातुर	गडग	गडग	गडग	बेलाडाडी	गडग	सिर्फ वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।

क्र. स.	गांव	अनुभाग	श्रेणी	तालुक	होबली	जीपी का नाम	विधानसभा	टिप्पणी
8	भवनुरा	बन्नीको प्पा	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	माचेनहल्ली	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
9	बिदनाला	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	बिदनाला	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
10	छब्बी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	छब्बी	शिरहट्टी	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
11	चिक्कवदत्ती	हिरेवदत्ती	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	मुरुडी	रोन	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
12	डम्बाला	डोनी	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	डम्बल	डम्बल	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है।
13	देविहाला	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	रणतुर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है।
14	ढिंदूरा	डोनी	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	शिवाजीनगर	डम्बल	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
15	डोनी	डोनी	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	डोनी	डम्बल	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।

क्र. स.	गांव	अनुभाग	श्रेणी	तालुक	होबली	जीपी का नाम	विधानसभा	टिप्पणी
16	गंगापुरा	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	सिंगतालूर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
17	गुडदाबुधिहाला	बागेवाड़ी	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	मुरुडी	शिरहट्टी	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
18	हडगली	बन्नीकोप्पा	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	बन्नीकप्पा	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
19	हम्मागी	बागेवाड़ी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	हम्मागी	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
20	हंगनाकट्टे	सोरातुर	गडग	गडग	गडग	सोरातुर	गडग	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
21	हारोगेरी	हिरेवदती	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	हारोगेरी	डम्बल	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
22	हीरेवदती	हिरेवदती	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	हिरेवदती	डम्बल	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
23	इनाम वैकटपुरा	सोरातुर	गडग	गडग	गडग	यलिशिरूर	गडग	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।

क्र. स.	गांव	अनुभाग	श्रेणी	तालुक	होबली	जीपी का नाम	विधानसभा	टिप्पणी
24	जल्लिगेरी	कड़ाकोला	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	कडकोल	शिरहट्टी	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
25	ज्यालावाडागी	बागेवाड़ी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	शिरहट्टी	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
26	के. धामपुरा	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	के. धामपुरा	डम्बल	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
27	कबालयक ट्टी	सोरातुर	गडग	गडग	गडग	बेलाडाडी	गडग	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
28	कड़ाकोला	Kadakola	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	कडकोल	शिरहट्टी	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
29	कालाकेरी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	कालाकेरी	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
30	केलूर	Bagewadi	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	हारोगेरी	डम्बल	सम्पूर्ण गाँव के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
31	केरहल्ली	Banniko ppa	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	तारिकोप्पा	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण

क्र. स.	गांव	अनुभाग	श्रेणी	तालुक	होबली	जीपी का नाम	विधानसभा	टिप्पणी
								संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
32	कोर्लाहल्ली	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	कोर्लाहल्ली	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
33	कुन्द्राली	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	Laxmeswar	बत्तूर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
34	कुसलपुरा	कड़ाकोला	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	मज्जूर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
35	माचेनहल्ली	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	माचेनहल्ली	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
36	मगदी	लक्ष्मेश्वर	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	मगदी	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
37	मज्जुरा	कड़ाकोला	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	मज्जुरा	शिरहट्टी	सम्पूर्ण गाँव और वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
38	मल्लिकार्जुन पुरा	बागेवाड़ी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।

क्र. स.	गांव	अनुभाग	श्रेणी	तालुक	होबली	जीपी का नाम	विधानसभा	टिप्पणी
39	मेवुंडी	डोनी	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	मेवुंडी	डम्बल	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
40	मुंडावाड़ा	बगेवाड़ी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	बिदारल्ली	शिरहट्टी	गाँव के भाग और वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
41	मुरादी	Bagewadi	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	मुरादी	डम्बल	सम्पूर्ण गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
42	मुष्टिकोप्पा	हिरेवदती	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	कालकेरी	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
43	नबापुरा	सौरातुर	गडग	गडग	गडग	बेलाडाडी	गडग	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
44	नदीघट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	लक्ष्मेश्वर	अद्राल्ली	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
45	नवली	हुविनाहाद गली	हुविनाहाद गली	हुविनाहाद गली	हुविनाहादगली	नवली	हुविनाहादगली	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
46	नवेबावनुरा	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	माचेनहल्ली	शिरहट्टी	सम्पूर्ण गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।

क्र. स.	गांव	अनुभाग	श्रेणी	तालुक	होबली	जीपी का नाम	विधानसभा	टिप्पणी
47	पापनासी	गडग	गडग	गडग	बेटागेरी	अदाविसोमा पुर	नरगंड	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
48	परसापुर	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	मगदी	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
49	रणथुरा	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	रणथुरा	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
50	शीरानाहल्ली	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	सिंगतलूर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
51	शेट्टीगेरी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	लक्ष्मेश्वर	बत्तूर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
52	शिंगतालुरा	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	सिंगतलूर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है।
53	शिंगत्रायणकेरी	डोनी	मुंडारागी	मुंडारागी	डम्बल	शिवाजीनगर	डम्बल	गाँव के भाग और वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
54	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शहर	शिरहट्टी	गाँव के भाग के सर्वेक्षण संख्या

क्र. स.	गांव	अनुभाग	श्रेणी	तालुक	होबली	जीपी का नाम	विधानसभा	टिप्पणी
								और सूची संलग्न है ।
55	शिरुंजा	साँटुर	गडग	गडग	गडग	यलिशिरूर	गडग	गाँव के भाग और वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
56	सोगीवाला	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	लक्ष्मेश्वर	अद्राल्ली	शिरहट्टी	सिर्फ वन के सर्वेक्षण संख्या (बफर) और सूची संलग्न है ।
57	सोरातुर	सोरातुर	गडग	गडग	गडग	सोरातुर	गडग	गाँव के भाग और वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
58	सुगनहल्ली	बन्नीकोप्पा	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	बन्नीकोप्पा	शिरहट्टी	गाँव के भाग और वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है ।
59	थेगिगनभवनुरु	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	माचेनहल्ली	शिरहट्टी	सम्पूर्ण वन और गाँव की सर्वेक्षण संख्या और सूची संलग्न है ।
60	थिम्मलापुरा	हूविनाहाद गली	हूविनाहाद गली	हूविनाहाद गली	हूविनाहादगली	इनाली	हूविनाहादगली	गाँव के भाग और की सर्वेक्षण संख्या की सूची संलग्न है ।
61	वरवी	कड़ाकोला	शिरहट्टी	शिरहट्टी	शिरहट्टी	छब्बी	शिरहट्टी	गाँव के भाग और वन सर्वेक्षण संख्या(बफर) और सूची संलग्न है।
62	विरुपापुरा	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	मुंडारागी	कालाकेरी	शिरहट्टी	गाँव के भाग और वन सर्वेक्षण संख्या (बफर) और सूची संलग्न है ।

सारांश		
क्रमांक संख्या	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गावों की स्थिति	संख्या
1	सम्पूर्ण गाँव	14
2	गांवों का भाग	25
3	सिर्फ वन सर्वेक्षण (बफर)	3
4	गाँव का भाग और बफर वन	20
	कुल	62

अनुलग्नक- VII

कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले गाँवों की सर्वेक्षण संख्या

गाँवों की संख्या	क्र.स.	तालुका का नाम	होबली नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	1	गाड़क	बेटागेरी	एडविसोमापुर	107	4.844501
					योग	4.844501
2	2	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	6	4.226135
	3	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	7	2.950617
	4	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	4	1.835005
	5	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	3	1.20617
	6	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	120	4.187509
	7	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	119	0.065493
	8	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	10	2.689441
	9	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	11	4.866736
	10	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	12	6.713838
	11	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	22	8.990865
	12	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.07314
	13	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	21	13.927456
	14	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	12	0.262586
	15	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	23	9.8402
	16	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	26	14.721276
	17	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	27	12.063875
	18	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	सड़क	1.468017
	19	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.33529

	20	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	21	0.67618
	21	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.39622
	22	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	12	0.204471
	23	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	28	9.630632
	24	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	31	11.944717
	25	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	19	13.47854
	26	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	5	1.671049
	27	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	21	0.319071
	28	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	24	8.170907
	29	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	25	11.057013
	30	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	20	4.787595
	31	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	44994	4.937068
	32	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	44966	2.713587
	33	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	44935	2.117874
	34	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	13	6.376881
	35	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	8	5.42219
	36	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	20	2.220495
	37	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.620313
	38	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	18	6.524116
	39	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	17	3.570372
	40	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	29	1.252447
	41	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	2	6.688088
	42	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	30	11.156402

	43	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	16	8.900037
	44	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	15	0.178089
	45	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.128248
	46	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	15	1.579273
	47	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	14	0.4167
	48	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	110	3.148852
	49	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.229041
	50	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	14	1.441137
	51	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.205528
	52	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	44994	0.347751
	53	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	1	7.096872
	54	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.136716
	55	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	66	6.510068
	56	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	44966	0.024713
	57	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.077064
	58	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	6.866035
	59	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	68	5.562694
	60	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	67	1.759202
	61	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	64	4.09236
	62	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	65	3.346
	63	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	108	0.692284
	64	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	समाधान	5.392379
	65	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	107	0.564407
	66	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	106	2.082996
	67	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	105	8.998365
	68	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	69	10.928671

	69	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	61	5.712822
	70	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	83	5.215259
	71	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	सड़क	2.151028
	72	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	62	3.378614
	73	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	63	0.857598
	74	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	सड़क	0.618348
	75	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	84	3.165726
	76	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	82	3.657521
	77	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	81	4.282803
	78	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	60/1	3.601191
	79	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	59	5.490204
	80	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	45	10.232112
	81	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	43	9.512468
	82	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	46	6.530343
	83	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	70	0.742601
	84	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	36	6.260889
	85	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	85	1.590531
	86	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	79	8.48176
	87	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	80	2.542659
	88	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	60/2	2.696245
	89	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	77	6.445033
	90	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	42	10.031195
	91	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	71	0.658769

	92	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	57	0.902784
	93	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	72	1.892598
	94	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	56	1.494085
	95	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	47	12.028135
	96	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	58	4.124681
	97	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	55	2.680204
	98	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	76	3.088743
	99	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	73	4.737617
	100	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	44	8.377726
	101	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	52/1	7.34948
	102	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	54/1	2.837078
	103	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	37	2.595321
	104	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	53	3.09216
	105	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.850502
	106	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	47	1.49662
	107	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	41	5.129839
	108	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	38	7.185378
	109	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	74	3.369508
	110	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	48	2.654772
	111	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	1.349199
	112	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	48	8.886902
	113	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	40	4.908369
	114	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	39	5.123872
	115	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	धारा	0.196273
	116	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	40	0.040512
	117	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	अक्कीगुंडा	49	0.227209
				योग	487.540645	

3	118	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	सड़क	1.61765
	119	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	27	2.609465
	120	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	28	4.82291
	121	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	32/ए	36.642838
	122	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	29	3.996264
	123	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	26	0.354584
	124	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	26	5.401608
	125	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	20	10.268755
	126	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	14	4.652669
	127	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	25	1.000149
	128	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	25	5.958192
	129	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	30	7.067231
	130	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	32/बी	4.05996
	131	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	17	1.323033
	132	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	21	5.664229
	133	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	23	1.208395
	134	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	23	6.713273
	135	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	24	6.104368
	136	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	2	3.908045
	137	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	धारा	1.824709
	138	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	5	3.093656
	139	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	6	2.862444
	140	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	8	2.881807
	141	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	9	3.153777

	142	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	13	4.775413
	143	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	1	2.197089
	144	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	31	6.60626
	145	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	22	6.701822
	146	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	22	0.056602
	147	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	21	0.623561
	148	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	56	1.649726
	149	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	सड़क	0.981729
	150	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	40	10.48319
	151	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	42	8.922909
	152	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	43	3.903112
	153	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	सड़क	0.751894
	154	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	7	4.095979
	155	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	54	1.284746
	156	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	10	5.480995
	157	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	12	4.932943
	158	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	53	5.756355
	159	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	नया समाधान	4.658795
	160	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	नया समाधान	0.032379
	161	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	सड़क	0.10875
	162	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	सड़क	2.057076
	163	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	39	4.628104
	164	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	53	0.21059
	165	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	11	7.403723
	166	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	52	0.921498

	167	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	52	6.723104
	168	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	41	7.674063
	169	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	38	6.4263
	170	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	35	11.12879
	171	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	37	6.535655
	172	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	50	6.045333
	173	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	51	2.705651
	174	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	51	3.819817
	175	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	49	9.584433
	176	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	36	6.739824
	177	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	34	10.672608
	178	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	50	2.061727
	179	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	46	12.007221
	180	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	47	0.193965
	181	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	48	2.552368
	182	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	47	4.522448
	183	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	48	1.700386
	184	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	33	10.702428
	185	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	27	1.777934
	186	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	सड़क	0.200193
	187	मुंदरगी	दंबला	अट्टिकाति	सड़क	0.586037
				योग	330.775536	
4	188	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	76	12.047725
	189	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	21	13.684597

	190	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	11.070477
	191	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	20	11.258365
	192	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	27	9.881356
	193	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	18	15.048367
	194	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	28	10.016874
	195	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	15	14.4216
	196	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	26	12.823879
	197	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	4.36202
	198	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	14	5.484597
	199	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	17	11.883635
	200	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	13	7.396472
	201	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	12	7.327929
	202	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	0.00006
	203	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	77	0.002981
	204	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	6.238906
	205	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	195	6.027246
	206	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	16	12.441629
	207	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	11	6.9088
	208	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	सड़क	2.880844
	209	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	29	13.244581
	210	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	79	9.519168
	211	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	196	7.394292
	212	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	10	6.419825
	213	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	194	9.59691
	214	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	0.899594
	215	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	9	11.164712

	216	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	193	11.401407
	217	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	79	0.399087
	218	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	32	9.355768
	219	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	197/1	4.556362
	220	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	30	9.791209
	221	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	191	11.628496
	222	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	197/2	2.293565
	223	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	8	5.466998
	224	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	82	11.573529
	225	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	33	13.214439
	226	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	198	7.92283
	227	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	79	0.30081
	228	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	7	5.05911
	229	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	31	11.449953
	230	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	सड़क	0.737378
	231	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	धारा	0.222171
	232	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	6	3.294358
	233	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	82	0.268125
	234	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	5	2.281705
	235	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	199	13.613068
	236	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	190	6.167895
	237	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	4	5.513247
	238	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	37	11.204212

	239	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	0.000205
	240	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	81	0.000381
	241	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	36	3.888
	242	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	3	9.078756
	243	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	सड़क	0.383919
	244	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	83	0.480046
	245	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	85	5.125732
	246	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	0.221648
	247	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	38	10.797107
	248	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	02-फरवरी	6.021134
	249	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	01-फरवरी	4.988061
	250	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	189	7.208672
	251	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	85	0.695727
	252	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	35	5.063327
	253	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	54	9.295258
	254	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	84	0.685247
	255	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	0.596516
	256	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	151	7.568054
	257	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	39	11.501951
	258	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	90	1.563147
	259	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	34	12.425648
	260	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	सड़क	3.297725
	261	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	51	11.67981
	262	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	1	6.914486
	263	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	91	9.871182
	264	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	सड़क	0.02981

	265	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	धारा	0.346743
	266	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	84	0.626049
	267	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	सड़क	0.258634
	268	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	85	1.63014
	269	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	40	10.798904
	270	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	88	0.15812
	271	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	सड़क	0.281095
	272	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	सड़क	0.194489
	273	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	धारा	2.341918
	274	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	87	1.045963
	275	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	180	5.242695
	276	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	87	10.872263
	277	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	41	7.666982
	278	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	47	5.699788
	279	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	धारा	0.552904
	280	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	50	10.540053
	281	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	188	12.655738
	282	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	48	3.824435
	283	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	187	13.089963
	284	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	46	5.967483
	285	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	42	4.743072
	286	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	समाधान	10.88316
	287	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	45	5.254388

288	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	43	10.508964
289	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	44	6.494933
290	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	125	0.984324
291	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	49	1.790652
292	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	126	0.997929
293	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	93	7.641054
294	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	131	0.759432
295	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	सड़क	3.874347
296	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	132	0.338549
297	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	135	0.286514
298	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	124	8.291461
299	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	136	0.505358
300	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	186	14.261054
301	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	127	5.241503
302	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	146	1.179003
303	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	143	0.558028
304	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	130	5.261979
305	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	133	5.431082
306	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	134	5.986508
307	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	137/1	4.823148
308	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	94	6.649087
309	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	142	6.027912
310	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	5.801979
311	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	144	0.22312
312	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	147	8.039858
313	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	185	6.072972

	314	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	145	10.434918
	315	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	141	6.010093
	316	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	सड़क	0.660953
	317	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	123	14.849097
	318	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	148	2.840205
	319	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	149	1.205422
	320	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	140	3.426821
	321	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	175	13.654597
	322	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	128	6.716349
	323	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	184	6.365321
	324	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	173	6.751812
	325	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	129	6.693906
	326	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	150	0.273395
	327	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	137/2	1.02855
	328	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	139	3.278928
	329	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	174	0.257378
	330	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	सड़क	1.895696
	331	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	138	7.359663
	332	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	172	7.440582
	333	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	171	13.638665
	334	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	152	6.42885
	335	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	176	0.271416
	336	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	179	7.978525

	337	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	178	6.759724
	338	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	182	7.116766
	339	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	177	6.775834
	340	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	153	8.930877
	341	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	0.000113
	342	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	122	7.36559
	343	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	154	4.733274
	344	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	121	5.299391
	345	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	107	11.986369
	346	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	119	7.894489
	347	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	120	6.477062
	348	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	155	4.205532
	349	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	170	11.82045
	350	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	169	7.993293
	351	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	163	15.28425
	352	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	118	6.13061
	353	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	155	1.818245
	354	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	सडक	0.987722
	355	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	164	5.220141
	356	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	117	6.743593
	357	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	धारा	0.791043
	358	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	181	1.315413
	359	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	165	4.327496
	360	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	166	13.554066
	361	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	105	1.002263
	362	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाडी	116	10.884783

	363	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	115	5.569855
	364	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	धारा	3.652063
	365	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	167	12.852745
	366	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	113	12.492931
	367	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	156	8.784796
	368	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	168	0.055378
	369	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	114	3.956946
	370	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	107	0.484375
	371	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	सड़क	0.087911
	372	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	162	13.152965
	373	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	112	13.346995
	374	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	157	8.14608
	375	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	111	4.796902
	376	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	108	9.670414
	377	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	109	11.53033
	378	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	110	11.616393
	379	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	158	9.49951
	380	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	160	4.956032
	381	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	161	6.188667
	382	मुंदरगी	मुंडारागी	बागेवाड़ी	159	13.75042
					योग	1198.72168
5	383	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	धारा	0.741775
	384	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	276	1.652148
	385	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	278	1.629221

	386	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	279	2.449759
	387	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	277	0.428477
	388	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	बस्ती	2.209864
	389	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	101	5.897186
	390	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	100	2.502487
	391	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	सड़क	0.77947
	392	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	106	3.148168
	393	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	102ए	0.000313
	394	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	107	4.161841
	395	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	सड़क	1.56865
	396	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	108	6.695598
	397	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	109	3.177929
	398	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	111	3.438345
	399	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	110	2.961075
	400	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	112	8.81108
	401	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	113	7.942392
	402	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	114	2.904061
	403	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	116	9.976767
	404	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	118	11.017034
	405	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	117	9.656407
	406	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	115	4.424704
	407	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	130	0.051882
	408	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	129	0.165199
	409	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	128	0.386404
	410	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	127	0.716265
	411	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	126	1.394676

	412	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	123	2.614978
	413	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	122	2.680493
	414	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	121	1.593151
	415	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	119	1.052947
	416	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	120	4.98044
	417	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	25	8.692963
	418	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	23	8.901343
	419	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	26	6.588687
	420	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	20	8.831302
	421	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	19	6.802206
	422	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	22	7.393256
	423	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	18	7.730858
	424	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	21	9.85501
	425	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	11	11.105415
	426	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	14	12.806518
	427	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	12	8.752518
	428	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	सड़क	2.876787
	429	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	17	12.233126
	430	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	28	12.684989
	431	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	13	5.588918
	432	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	10	9.626869
	433	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	16	5.334934
	434	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	29	3.687572

	435	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	9	7.804992
	436	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	15	8.236296
	437	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	6	6.365865
	438	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	35	8.105298
	439	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	36	13.374059
	440	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	30	10.069821
	441	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	39	6.691315
	442	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	31	2.258449
	443	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	5	11.476826
	444	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	40	9.077073
	445	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	4	7.268014
	446	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	8	8.949115
	447	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	32	7.324305
	448	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	7	7.266467
	449	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	45	6.151557
	450	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	34	7.719026
	451	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	33	9.430612
	452	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	सड़क	1.560196
	453	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	44	5.357254
	454	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	97	5.261615
	455	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	43	2.762257
	456	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	46	9.45975
	457	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	96	1.002955
	458	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	95	3.83138
	459	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	90	4.545844
	460	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	41	3.598893

	461	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	89	3.960147
	462	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	86	5.434098
	463	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	52	9.124317
	464	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	47	4.832264
	465	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	69	12.342723
	466	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	83	2.982771
	467	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	42	8.563347
	468	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	3	4.39355
	469	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	84	0.555316
	470	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	धारा	19.976178
	471	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	51	7.347267
	472	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	53	1.650627
	473	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	74	6.76174
	474	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	48	4.643229
	475	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	98	3.899159
	476	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	2	0.839174
	477	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	82	1.392397
	478	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	70	3.680388
	479	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	280	0.801103
	480	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	54	5.667887
	481	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	1	2.451987
	482	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	68	3.958121
	483	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	73	1.792599
	484	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	93	0.322099

	485	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	सड़क	5.559203
	486	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	75	2.319883
	487	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	72	9.673495
	488	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	81	1.658985
	489	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	77	1.352522
	490	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	80	1.488175
	491	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	71	0.622597
	492	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	66	6.355684
	493	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	87	2.983821
	494	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	67	7.678317
	495	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	76	1.878035
	496	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	88	3.560284
	497	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	55	4.956648
	498	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	91	0.60824
	499	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	92	0.577409
	500	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	94	0.663137
	501	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	50	2.69868
	502	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	49	0.899432
	503	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	99	0.960068
	504	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	56	9.453683
	505	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	79	2.400879
	506	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	78	11.382965
	507	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	65	10.011256
	508	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	57	5.029862
	509	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	64	9.110639
	510	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	61	3.59065

	511	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	59	11.640839
	512	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	63	3.54333
	513	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	62	2.461916
	514	शिराहट्टी	शिराहट्टी	बन्नीकोप्पा	60	3.115821
					योग	683.862634
	515	गडग	गडगा	बेलाडाडी	लापता	0.030082
	516	गडग	गडगा	बेलाडाडी	लापता	0.05797
	517	गडग	गडगा	बेलाडाडी	लापता	13.564554
					योग	13.652606
	518	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	142	5.40502
	519	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	124	5.434368
	520	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	49	3.156846
	521	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	154	3.788986
	522	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	123	5.735323
	523	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	153	0.056064
	524	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	122	5.687209
	525	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	141	2.403467
	526	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	121	8.556923
	527	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	147	3.927374
	528	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	125	10.353174
	529	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	126	10.879582
	530	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	120	8.947223
	531	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	148	5.871692

	532	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	51	5.776287
	533	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	127	8.334499
	534	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	50	8.496469
	535	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	140	7.147092
	536	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	152	7.238702
	537	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	128	10.744436
	538	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	139	8.595414
	539	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	137	6.793415
	540	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	54	1.078099
	541	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	136	11.426771
	542	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	55	2.638667
	543	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	129	8.558382
	544	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	23	0.498167
	545	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	22	0.190946
	546	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	21	0.001064
	547	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	29	0.65633
	548	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	150	6.832468
	549	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	24	1.818961
	550	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	132	10.363571
	551	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	149	7.657715
	552	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	25	2.154628
	553	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	131	6.377168
	554	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	62	2.667455
	555	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	130	6.976902
	556	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	151	7.378031
	557	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	61	4.116107

	558	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	60	9.119464
	559	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	59	8.033617
	560	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	58	7.300417
	561	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	138	7.546931
	562	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	57	2.5099
	563	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	135	6.429146
	564	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	56	1.248456
	565	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	81	4.517006
	566	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	82	8.623561
	567	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	83	8.576729
	568	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	16	0.017877
	569	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	8	0.250585
	570	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	133	7.398827
	571	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	134	5.27897
	572	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	78	8.699165
	573	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	15	0.407694
	574	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	11	3.905834
	575	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	12	1.835213
	576	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	13	1.258724
	577	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	14	0.506157
	578	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	80	4.906337
	579	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	84	7.737263
	580	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	77	3.575044
	581	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	10	2.431105

	582	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	9	7.090578
	583	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	92	9.994221
	584	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	62	5.846557
	585	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	75	2.794924
	586	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	64	0.426119
	587	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	74	1.103172
	588	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	65	7.21796
	589	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	74	0.662541
	590	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	91	2.874726
	591	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	90	7.867476
	592	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	73	9.978985
	593	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	76	0.931379
	594	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	79	5.367822
	595	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	95	3.993901
	596	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	72	5.383618
	597	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	71	6.469081
	598	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	66	6.215148
	599	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	69	10.504204
	600	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	93	5.145132
	601	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	67	7.567065
	602	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	68	6.683971
	603	मुंदरगी	मुंडारागी	बीड़ानाला	धारा	1.731831
					योग	479.990642
7	604	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	38	6.2239
	605	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	33	3.756679
	606	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	46	7.568292

	607	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	39	10.687631
	608	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	45	12.633554
	609	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	32	9.906389
	610	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	41	7.330006
	611	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	धारा	5.41839
	612	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	25	8.309636
	613	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	31	8.890165
	614	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	47	7.866668
	615	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	24	5.293316
	616	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	49	5.882581
	617	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	27	8.343246
	618	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	30	11.267957
	619	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	23	8.533276
	620	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	48	9.236649
	621	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	धारा	0.835852
	622	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	25	5.899942
	623	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	धारा	0.262364
	624	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	50	10.49734
	625	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	धारा	0.966149
	626	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	24	0.097244
	627	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	26	14.427511
	628	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	23	4.666873
	629	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	28	9.087384
	630	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	51	5.850932

	631	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	52	9.072558
	632	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	22	9.453887
	633	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	धारा	2.646691
	634	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	21	8.502017
	635	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	53	5.606844
	636	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	29	6.471297
	637	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	54	10.536292
	638	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	20	3.291278
	639	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	19	2.802625
	640	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	18	5.084014
	641	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	16	1.969833
	642	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	15	1.671216
	643	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	7	0.824966
	644	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	14	2.640198
	645	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	55	0.473586
	646	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	56	0.188349
	647	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	13	4.567445
	648	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	12-जनवरी	1.981731
	649	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	12-फरवरी	0.613346
	650	शिराहट्टी	शिराहट्टी	भवनुरा	11	0.243523
					योग	268.381622
8	651	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	214	4.57371
	652	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	215	0.296301
	653	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	213	5.25764
	654	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	211	13.60474
	655	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	212	5.672737
	656	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	153	5.274473

	657	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	400	0.153047
	658	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	399	0.179031
	659	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	सड़क	4.870185
	660	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	151	0.357692
	661	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	152	5.281242
	662	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	209	8.824046
	663	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	154	9.748545
	664	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	155	12.652679
	665	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	156	8.133637
	666	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	158	11.799978
	667	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	157	7.177781
	668	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	159	7.304959
	669	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	179	8.322135
	670	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	160	7.308439
	671	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	139	2.332346
	672	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	197	8.47509
	673	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	198	8.669582
	674	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	176	3.144179
	675	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	199	10.606603
	676	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	178	2.810092
	677	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	161	5.297718
	678	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	177	5.05925
	679	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	175	5.053714

	680	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	174/4	0.898574
	681	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	174/2	1.063924
	682	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	174/1	0.69606
	683	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	173/1	0.731176
	684	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	173/2	0.415297
	685	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	173/3	0.733414
	686	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	173/4	1.007392
	687	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	172	0.515912
	688	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	180	10.90673
	689	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	162	2.209407
	690	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	174/3	0.95009
	691	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	163	4.428267
	692	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	181	5.869064
	693	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	196	8.872247
	694	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	182	4.849221
	695	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	171	0.16028
	696	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	192	11.156034
	697	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	195	7.933023
	698	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	164	10.824816
	699	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	138	1.600328
	700	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	165	0.132906
	701	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	193	8.809396
	702	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	194	9.071197
	703	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	183	1.324574
	704	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	191	5.863227
	705	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	134	1.098714

	706	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	189	1.761815
	707	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	398	2.086732
	708	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	188	0.034614
	709	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	133	8.270939
	710	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	132	5.420303
	711	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	131	3.021464
	712	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	130	0.288819
	713	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	116	6.24349
	714	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	117	1.640894
	715	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	118	0.008713
	716	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	20	0.004601
	717	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	सड़क	0.630828
	718	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	13	6.625613
	719	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	10	10.108096
	720	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	बस्ती	9.272392
	721	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	सड़क	1.896381
	722	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	1	1.044635
	723	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	2	4.976526
	724	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	4	9.449422
	725	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	9	13.860352
	726	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	148	5.194204
	727	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	147	5.354301
	728	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	5	3.092971

729	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	6	7.528399
730	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	149	7.364201
731	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	11	8.140158
732	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	8	10.150613
733	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	150	1.21785
734	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	151/बी	3.107408
735	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	7	9.438329
736	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	145	3.458408
737	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	33	11.265166
738	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	3	1.130718
739	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	146	10.092809
740	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	144	10.041738
741	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	34	10.183933
742	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	143	7.373865
743	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	35	12.032405
744	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	41	10.011067
745	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	142	11.272701
746	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	40	11.300006
747	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	140	6.332047
748	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	36	10.566482
749	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	39	11.997868
750	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	47	12.269834
751	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	141	5.223001
752	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	137	5.714234
753	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	37	6.502559
754	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	136	10.693113

	755	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	48	6.921925
	756	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	49	9.807077
	757	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	135	3.429907
	758	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	113	5.286172
	759	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	112	9.951617
	760	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	50	7.451319
	761	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	51	11.776394
	762	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	52	8.798111
	763	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	114	8.696247
	764	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	111	8.770896
	765	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	110	7.650095
	766	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	115	7.536943
	767	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	61	11.070763
	768	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	64	7.758215
	769	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	65	7.167819
	770	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	58	4.43364
	771	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	109	6.64092
	772	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	108	8.177303
	773	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	63	6.033816
	774	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	59	8.082693
	775	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	66	6.226512
	776	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	60	8.043902
	777	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	106	6.703452

778	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	62	8.22417
779	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	107	2.585745
780	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	71	7.744939
781	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	67	8.222305
782	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	70	7.825523
783	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	105	3.734822
784	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	69	8.007699
785	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	78	7.918797
786	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	68	8.034916
787	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	79	8.165037
788	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	97	7.909919
789	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	80	8.09927
790	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	98	1.497316
791	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	81	7.836496
792	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	96	8.116452
793	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	82	17.11257
794	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	95	4.083221
795	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	84	19.031588
796	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	83	22.144162
797	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	85	3.58198
798	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	315	5.516903
799	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	319	9.085126
800	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	316	4.662554
801	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	321	11.365866
802	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	317	4.909383
803	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	322	6.737141

	804	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	318	5.350265
	805	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	336	6.311606
	806	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	320	10.450823
	807	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	सड़क	0.75698
	808	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	307	3.190184
	809	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	306	13.491787
	810	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	323	6.489005
	811	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	305	2.744617
	812	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	335	8.517307
	813	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	325	9.222016
	814	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	304	1.846035
	815	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	381	17.999777
	816	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	324	10.071738
	817	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	300	1.64858
	818	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	334	8.453682
	819	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	299/1	4.878407
	820	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	326	6.607266
	821	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	333	8.582503
	822	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	298	2.170474
	823	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	327	8.720038
	824	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	297	1.416568
	825	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	299/2	2.865488
	826	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	382	2.157867
	827	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	380	6.688611

	828	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	379	9.950254
	829	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	383	1.71061
	830	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	378	8.228133
	831	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	384	6.405637
	832	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	385	8.41396
	833	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	371	8.380495
	834	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	372	5.088054
	835	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	377	9.738682
	836	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	386	5.189882
	837	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	387	8.160069
	838	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	370	8.452516
	839	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	293	3.999707
	840	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	373	10.106506
	841	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	374	7.479287
	842	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	376	8.362173
	843	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	सड़क	1.790702
	844	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	294	0.12537
	845	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	388	2.303188
	846	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	368	4.498529
	847	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	291	2.601498
	848	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	369	3.257314
	849	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	292	1.065873
	850	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	390	5.020445
	851	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	389/1	5.411693
	852	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	366/1	1.041145
	853	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	367	0.973625

	854	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	375	7.891618
	855	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	366/2	1.016773
	856	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	391	2.967548
	857	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	365	5.44308
	858	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	366/3	4.076491
	859	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	389/2	4.896942
	860	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	392	2.744013
	861	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	363/4	0.729926
	862	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	346	0.002367
	863	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	363/3	0.490629
	864	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	363/2	3.358783
	865	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	362	2.594669
	866	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	364	3.976594
	867	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	363/1	3.469901
	868	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	394	1.051002
	869	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	358	8.456487
	870	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	278	8.923701
	871	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	395/2	0.801249
	872	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	395/1	2.234507
	873	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	396/1	2.119264
	874	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	396/2	1.262902
	875	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	396/3	1.147477
	876	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	397	2.106625

	877	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	218	1.253769
	878	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	361	12.870084
	879	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	359	10.821789
	880	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	217	1.342037
	881	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	360	12.32865
	882	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	216	1.372318
	883	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	401	1.06696
	884	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	1	0.150005
	885	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	2	0.157454
	886	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	3	0.119289
	887	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	XX	272.027173
	888	शिराहट्टी	शिराहट्टी	छब्बी	XX	137.529729
					योग	1794.818272
9	889	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	124	8.076529
	890	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	123	3.443137
	891	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	122	6.958443
	892	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	125	7.486215
	893	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	166	8.188159
	894	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	165	4.681073
	895	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	सड़क	1.883309
	896	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	121	4.256755
	897	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	120	9.106743
	898	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	171	2.581458
	899	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	164	7.86629
	900	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	173	9.439342
	901	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	172	11.426475

	902	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	12	8.837749
	903	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	174	5.386467
	904	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	119	4.681479
	905	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	13	8.083384
	906	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	118	9.868509
	907	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	117	6.174574
	908	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	115	3.044129
	909	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	114	5.67596
	910	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	113	3.849633
	911	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	14	7.190136
	912	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	11	11.086207
	913	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	9	11.155368
	914	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	15	7.881137
	915	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	16	5.767565
	916	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	18	10.696111
	917	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	3	5.776339
	918	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	1	8.454881
	919	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	2	5.057839
	920	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	सड़क	1.415124
	921	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	100	5.940482
	922	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	4	5.367267
	923	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	116	2.858564
	924	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	176	0.285935
	925	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	17	6.224868

926	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	22	6.680795
927	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	19	7.222843
928	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	10	1.555444
929	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	99	6.762945
930	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	5/ए /1	4.921996
931	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	6	5.402918
932	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	101	5.644858
933	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	21	8.77658
934	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	20	7.855293
935	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	8	10.851076
936	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	175_टँक	1.955289
937	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	7	8.359286
938	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	8	0.269623
939	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	97	2.824609
940	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	24	8.738278
941	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	98	5.271382
942	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	बस्ती	4.268874
943	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	3/ए/1	0.118343
944	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	5/ ए /2	0.084416
945	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	5/ ए	0.154083
946	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	सड़क	1.291808
947	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	72	7.559568
948	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	सड़क	0.659116
949	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	66	2.190194
950	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	67	8.513083
951	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	96	8.408886

	952	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	69	5.152097
	953	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	68	1.824092
	954	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	73	9.414928
	955	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	70	9.210019
	956	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	51	6.573155
	957	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	62	11.280449
	958	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	XX	0.494349
	959	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	61	4.124505
	960	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	93	1.007985
	961	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	50	2.444438
	962	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	52	8.651506
	963	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	60	5.344865
	964	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	94	5.544717
	965	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	46	0.000374
	966	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	धारा	1.66046
	967	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	53	5.977013
	968	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	29	11.155511
	969	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	49	7.210906
	970	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	सड़क	1.306242
	971	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	59	7.333483
	972	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	92	1.305883
	973	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	91	1.849664
	974	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	33	7.647161

	975	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	90	2.014152
	976	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	48	6.497863
	977	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	88	1.662097
	978	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	54	11.879023
	979	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	89	3.191348
	980	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	43	12.386603
	981	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	44	7.099136
	982	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	55	9.968908
	983	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	35	6.333339
	984	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	87	2.293358
	985	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	86	2.728566
	986	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	34	6.893445
	987	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	42	6.281548
	988	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	32	7.793432
	989	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	63	5.019236
	990	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	84	2.519126
	991	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	85	3.367285
	992	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	65	2.323083
	993	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	83	5.049977
	994	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	41	7.687366
	995	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	82	4.923675
	996	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	56	8.344843
	997	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	58	7.750354
	998	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	40	12.072657
	999	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	79	8.673042
	1000	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	64	4.556563

	1001	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	39	7.354143
	1002	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	36	9.213194
	1003	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	57	10.229131
	1004	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	31	9.994396
	1005	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	30	10.843134
	1006	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	74	4.067924
	1007	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	71	4.41631
	1008	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	78	4.977459
	1009	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	77	4.794553
	1010	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	38	5.248195
	1011	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	76	5.076961
	1012	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	37	9.445658
	1013	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	धारा	2.879759
	1014	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	75	3.702727
	1015	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	107	9.839965
	1016	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	108	7.326831
	1017	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	106	5.333379
	1018	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	105	7.667849
	1019	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	109	4.815308
	1020	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	110	4.395031
	1021	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	111	4.306006
	1022	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	112	4.130171
	1023	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	104	8.578361
	1024	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	103	8.687473

	1025	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	102	2.682294
	1026	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	95	6.023345
	1027	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	81	0.495399
	1028	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	80	0.673039
	1029	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	धारा	5.315297
	1030	मुंदरगी	दंबला	चिक्कवद्दती	धारा	0.36437
					योग	811.19671
10	1031	मुंदरगी	दंबला	दंबला	धारा	1.331684
	1032	मुंदरगी	दंबला	दंबला	सड़क	2.528716
	1033	मुंदरगी	दंबला	दंबला	384	2.542335
	1034	मुंदरगी	दंबला	दंबला	385	4.312795
	1035	मुंदरगी	दंबला	दंबला	389	6.084249
	1036	मुंदरगी	दंबला	दंबला	404	6.599909
	1037	मुंदरगी	दंबला	दंबला	405	9.059921
	1038	मुंदरगी	दंबला	दंबला	407	9.340021
	1039	मुंदरगी	दंबला	दंबला	408	9.194637
	1040	मुंदरगी	दंबला	दंबला	409	2.567311
	1041	मुंदरगी	दंबला	दंबला	151	0.279942
	1042	मुंदरगी	दंबला	दंबला	152	3.277127
	1043	मुंदरगी	दंबला	दंबला	153	2.057083
	1044	मुंदरगी	दंबला	दंबला	156	2.14987
	1045	मुंदरगी	दंबला	दंबला	157	1.24836
	1046	मुंदरगी	दंबला	दंबला	धारा	0.691009
	1047	मुंदरगी	दंबला	दंबला	162	0.277381
	1048	मुंदरगी	दंबला	दंबला	390	11.734553
	1049	मुंदरगी	दंबला	दंबला	397	0.887795

	1050	मुंदरगी	दंबला	दंबला	394	6.395003
	1051	मुंदरगी	दंबला	दंबला	396	7.054712
	1052	मुंदरगी	दंबला	दंबला	395	7.077598
	1053	मुंदरगी	दंबला	दंबला	386	2.39854
	1054	मुंदरगी	दंबला	दंबला	393	7.787663
	1055	मुंदरगी	दंबला	दंबला	386	5.293565
	1056	मुंदरगी	दंबला	दंबला	380	9.810308
	1057	मुंदरगी	दंबला	दंबला	धारा	4.061724
	1058	मुंदरगी	दंबला	दंबला	383	8.598897
	1059	मुंदरगी	दंबला	दंबला	388	8.955566
	1060	मुंदरगी	दंबला	दंबला	391	2.952136
	1061	मुंदरगी	दंबला	दंबला	387	8.838489
	1062	मुंदरगी	दंबला	दंबला	सड़क	4.390503
	1063	मुंदरगी	दंबला	दंबला	382	4.200733
	1064	मुंदरगी	दंबला	दंबला	392	3.124788
	1065	मुंदरगी	दंबला	दंबला	379	0.444197
	1066	मुंदरगी	दंबला	दंबला	379	7.008315
	1067	मुंदरगी	दंबला	दंबला	381	10.669898
	1068	मुंदरगी	दंबला	दंबला	343	4.352492
	1069	मुंदरगी	दंबला	दंबला	339	3.27711
	1070	मुंदरगी	दंबला	दंबला	342	4.32155
	1071	मुंदरगी	दंबला	दंबला	340	2.127047
	1072	मुंदरगी	दंबला	दंबला	XX	9.124408

	1073	मुंदरगी	दंबला	दंबला	220	2.823541
	1074	मुंदरगी	दंबला	दंबला	221	0.0777
	1075	मुंदरगी	दंबला	दंबला	222	4.88487
	1076	मुंदरगी	दंबला	दंबला	धारा	1.588245
	1077	मुंदरगी	दंबला	दंबला	338	4.554729
	1078	मुंदरगी	दंबला	दंबला	224	8.548193
	1079	मुंदरगी	दंबला	दंबला	223	5.468434
	1080	मुंदरगी	दंबला	दंबला	369	0.583049
	1081	मुंदरगी	दंबला	दंबला	372	0.041133
	1082	मुंदरगी	दंबला	दंबला	370	0.516365
	1083	मुंदरगी	दंबला	दंबला	371	0.360246
	1084	मुंदरगी	दंबला	दंबला	372	2.061634
	1085	मुंदरगी	दंबला	दंबला	341	0.813194
	1086	मुंदरगी	दंबला	दंबला	345	3.347803
	1087	मुंदरगी	दंबला	दंबला	344	3.902396
	1088	मुंदरगी	दंबला	दंबला	372	0.88195
	1089	मुंदरगी	दंबला	दंबला	337	5.141949
	1090	मुंदरगी	दंबला	दंबला	371	5.937118
	1091	मुंदरगी	दंबला	दंबला	370	5.158371
	1092	मुंदरगी	दंबला	दंबला	369	9.574853
	1093	मुंदरगी	दंबला	दंबला	335	9.742053
	1094	मुंदरगी	दंबला	दंबला	377	1.144836
	1095	मुंदरगी	दंबला	दंबला	342	0.363335
	1096	मुंदरगी	दंबला	दंबला	336	7.636911
	1097	मुंदरगी	दंबला	दंबला	344	2.082803
	1098	मुंदरगी	दंबला	दंबला	376	6.186392

	1099	मुंदरगी	दंबला	दंबला	225	4.990921
	1100	मुंदरगी	दंबला	दंबला	373	4.028395
	1101	मुंदरगी	दंबला	दंबला	367	6.478456
	1102	मुंदरगी	दंबला	दंबला	375	7.078139
	1103	मुंदरगी	दंबला	दंबला	373	0.061884
	1104	मुंदरगी	दंबला	दंबला	368	2.256383
	1105	मुंदरगी	दंबला	दंबला	218	7.240607
	1106	मुंदरगी	दंबला	दंबला	226	9.04
	1107	मुंदरगी	दंबला	दंबला	टैंक	0.10632
	1108	मुंदरगी	दंबला	दंबला	334	2.162793
	1109	मुंदरगी	दंबला	दंबला	333	8.612493
	1110	मुंदरगी	दंबला	दंबला	374	7.730808
	1111	मुंदरगी	दंबला	दंबला	366	3.39872
	1112	मुंदरगी	दंबला	दंबला	365	6.0814
	1113	मुंदरगी	दंबला	दंबला	363	8.076866
	1114	मुंदरगी	दंबला	दंबला	217	5.477212
	1115	मुंदरगी	दंबला	दंबला	227	5.694428
	1116	मुंदरगी	दंबला	दंबला	332	6.230761
	1117	मुंदरगी	दंबला	दंबला	364	8.461683
	1118	मुंदरगी	दंबला	दंबला	228	6.445211
	1119	मुंदरगी	दंबला	दंबला	362	7.471546
	1120	मुंदरगी	दंबला	दंबला	331	5.313018
	1121	मुंदरगी	दंबला	दंबला	230	3.552758
	1122	मुंदरगी	दंबला	दंबला	229	9.532512

	1123	मुंदरगी	दंबला	दंबला	सड़क	0.602178
	1124	मुंदरगी	दंबला	दंबला	359	9.4319
	1125	मुंदरगी	दंबला	दंबला	330	4.549645
	1126	मुंदरगी	दंबला	दंबला	धारा	4.438537
	1127	मुंदरगी	दंबला	दंबला	360	6.19175
	1128	मुंदरगी	दंबला	दंबला	361	6.354306
	1129	मुंदरगी	दंबला	दंबला	325	7.724663
	1130	मुंदरगी	दंबला	दंबला	326	10.153555
	1131	मुंदरगी	दंबला	दंबला	324	10.513536
	1132	मुंदरगी	दंबला	दंबला	231	4.459748
	1133	मुंदरगी	दंबला	दंबला	895	0.419176
	1134	मुंदरगी	दंबला	दंबला	329	5.000875
	1135	मुंदरगी	दंबला	दंबला	358	7.914427
	1136	मुंदरगी	दंबला	दंबला	357	3.433501
	1137	मुंदरगी	दंबला	दंबला	356	7.76561
	1138	मुंदरगी	दंबला	दंबला	328	4.802173
	1139	मुंदरगी	दंबला	दंबला	327	5.220221
	1140	मुंदरगी	दंबला	दंबला	313	4.024677
	1141	मुंदरगी	दंबला	दंबला	323	3.792158
	1142	मुंदरगी	दंबला	दंबला	354	8.321493
	1143	मुंदरगी	दंबला	दंबला	355	8.661956
	1144	मुंदरगी	दंबला	दंबला	312	5.785282
	1145	मुंदरगी	दंबला	दंबला	322	1.781701
	1146	मुंदरगी	दंबला	दंबला	314	1.980917
	1147	मुंदरगी	दंबला	दंबला	309	2.828483
	1148	मुंदरगी	दंबला	दंबला	310	2.51771

	1149	मुंदरगी	दंबला	दंबला	315	4.29624
	1150	मुंदरगी	दंबला	दंबला	319	0.201723
	1151	मुंदरगी	दंबला	दंबला	311	5.644082
	1152	मुंदरगी	दंबला	दंबला	308	3.129104
	1153	मुंदरगी	दंबला	दंबला	317	3.64149
	1154	मुंदरगी	दंबला	दंबला	316	3.598333
	1155	मुंदरगी	दंबला	दंबला	305	3.853386
	1156	मुंदरगी	दंबला	दंबला	304	6.077055
	1157	मुंदरगी	दंबला	दंबला	243	0.000082
	1158	मुंदरगी	दंबला	दंबला	318	3.712887
	1159	मुंदरगी	दंबला	दंबला	307	1.478509
	1160	मुंदरगी	दंबला	दंबला	306	1.734253
	1161	मुंदरगी	दंबला	दंबला	256	9.597544
	1162	मुंदरगी	दंबला	दंबला	299	8.3441
	1163	मुंदरगी	दंबला	दंबला	255	2.632824
	1164	मुंदरगी	दंबला	दंबला	300	3.156068
	1165	मुंदरगी	दंबला	दंबला	303	4.156709
	1166	मुंदरगी	दंबला	दंबला	351	6.478218
	1167	मुंदरगी	दंबला	दंबला	298	6.018219
	1168	मुंदरगी	दंबला	दंबला	301	2.720079
	1169	मुंदरगी	दंबला	दंबला	302	3.150698
	1170	मुंदरगी	दंबला	दंबला	347बी	0.793499
	1171	मुंदरगी	दंबला	दंबला	350	5.991247

	1172	मुंदरगी	दंबला	दंबला	296	3.382161
	1173	मुंदरगी	दंबला	दंबला	297	7.705998
	1174	मुंदरगी	दंबला	दंबला	253	1.459143
	1175	मुंदरगी	दंबला	दंबला	257	6.964613
	1176	मुंदरगी	दंबला	दंबला	294	9.238159
	1177	मुंदरगी	दंबला	दंबला	295	7.736921
	1178	मुंदरगी	दंबला	दंबला	252	1.40448
	1179	मुंदरगी	दंबला	दंबला	259	5.24785
	1180	मुंदरगी	दंबला	दंबला	258	10.507487
	1181	मुंदरगी	दंबला	दंबला	293	10.251015
	1182	मुंदरगी	दंबला	दंबला	265	0.490903
	1183	मुंदरगी	दंबला	दंबला	292	8.423662
	1184	मुंदरगी	दंबला	दंबला	266	7.455736
	1185	मुंदरगी	दंबला	दंबला	267	9.10986
	1186	मुंदरगी	दंबला	दंबला	291	6.51028
	1187	मुंदरगी	दंबला	दंबला	268	8.851751
	1188	मुंदरगी	दंबला	दंबला	289	6.222117
	1189	मुंदरगी	दंबला	दंबला	290	6.113965
	1190	मुंदरगी	दंबला	दंबला	281	8.76179
	1191	मुंदरगी	दंबला	दंबला	टैंक	0.214323
	1192	मुंदरगी	दंबला	दंबला	280	8.110412
	1193	मुंदरगी	दंबला	दंबला	282	1.200798
	1194	मुंदरगी	दंबला	दंबला	सड़क	0.334308
	1195	मुंदरगी	दंबला	दंबला	283	7.557473
	1196	मुंदरगी	दंबला	दंबला	288	8.468496
	1197	मुंदरगी	दंबला	दंबला	279	4.434133

	1198	मुंदरगी	दंबला	दंबला	284	7.949416
	1199	मुंदरगी	दंबला	दंबला	287	5.497543
	1200	मुंदरगी	दंबला	दंबला	278	5.437016
	1201	मुंदरगी	दंबला	दंबला	285	8.485662
	1202	मुंदरगी	दंबला	दंबला	276	1.808669
	1203	मुंदरगी	दंबला	दंबला	286	7.288958
	1204	मुंदरगी	दंबला	दंबला	277	2.716815
	1205	मुंदरगी	दंबला	दंबला	402_टैंक	45.615839
	1206	मुंदरगी	दंबला	दंबला	420	0.014242
	1207	मुंदरगी	दंबला	दंबला	417	0.496148
	1208	मुंदरगी	दंबला	दंबला	421	0.078624
	1209	मुंदरगी	दंबला	दंबला	402_टैंक	1.844816
	1210	मुंदरगी	दंबला	दंबला	धारा	0.530336
					योग	910.373802
11	1211	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	88	5.443636
	1212	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	87	4.661823
	1213	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	89	3.442343
	1214	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	90	10.3938
	1215	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	71	6.411035
	1216	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	86	8.200948
	1217	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	70	7.738748
	1218	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	91	5.143753
	1219	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	65	6.637607

	1220	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	85	12.931864
	1221	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	72	6.778987
	1222	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	64	5.188918
	1223	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	53	6.085446
	1224	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	69	4.925527
	1225	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	66	7.539345
	1226	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	52	0.259441
	1227	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	63	4.779001
	1228	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	73	7.466671
	1229	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	84	11.328408
	1230	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	92	4.335655
	1231	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	68	8.47826
	1232	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	67	7.848627
	1233	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	62	5.955783
	1234	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	54	0.408419
	1235	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	94	9.509223
	1236	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	83	5.078984
	1237	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	93	0.834039
	1238	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	74	7.700006
	1239	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	60	3.00664
	1240	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	61	0.042452
	1241	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	82	7.477501
	1242	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	75	2.349352
	1243	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	95	9.498556
	1244	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	96	6.924656
	1245	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	81	2.771948

	1246	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	80	0.001203
	1247	शिराहट्टी	शिराहट्टी	देविहाला	97	0.078269
					योग	207.656874
12	1248	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	20	6.620384
	1249	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	धारा	1.246197
	1250	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	20	2.121851
	1251	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	21	1.827656
	1252	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	धारा	7.811607
	1253	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	21	4.202427
	1254	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	19	9.379098
	1255	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	25	9.700196
	1256	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	18	11.138295
	1257	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	26	7.873966
	1258	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	24	5.351184
	1259	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	23	5.251518
	1260	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	17	11.719418
	1261	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	27	5.715051
	1262	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	2	6.777142
	1263	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	1	10.032905
	1264	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	16	8.368995
	1265	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	3	6.986836
	1266	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	28	7.273654
	1267	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	29_बस्ती	1.042326
	1268	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	14	9.078604

	1269	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	4	9.621808
	1270	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	13	9.34068
	1271	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	6	8.267248
	1272	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	5	7.980473
	1273	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	7	4.074478
	1274	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	8	7.254848
	1275	मुंदरगी	दंबला	डिंडुरा	9	5.433696
					योग	191.492541
13	1276	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	9.442824
	1277	मुंदरगी	दंबला	डोनी	सड़क	1.792239
	1278	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.693345
	1279	मुंदरगी	दंबला	डोनी	97	6.548743
	1280	मुंदरगी	दंबला	डोनी	99	4.675838
	1281	मुंदरगी	दंबला	डोनी	101	4.564208
	1282	मुंदरगी	दंबला	डोनी	102	5.223982
	1283	मुंदरगी	दंबला	डोनी	103	11.741101
	1284	मुंदरगी	दंबला	डोनी	104	2.852911
	1285	मुंदरगी	दंबला	डोनी	104	1.004132
	1286	मुंदरगी	दंबला	डोनी	105	10.947553
	1287	मुंदरगी	दंबला	डोनी	106	4.458543
	1288	मुंदरगी	दंबला	डोनी	107	7.786605
	1289	मुंदरगी	दंबला	डोनी	108	8.92695
	1290	मुंदरगी	दंबला	डोनी	109	10.294283
	1291	मुंदरगी	दंबला	डोनी	110	6.282748
	1292	मुंदरगी	दंबला	डोनी	113	7.826591
	1293	मुंदरगी	दंबला	डोनी	114	10.393146

	1294	मुंदरगी	दंबला	डोनी	115	10.24968
	1295	मुंदरगी	दंबला	डोनी	116	6.60034
	1296	मुंदरगी	दंबला	डोनी	117	4.471885
	1297	मुंदरगी	दंबला	डोनी	118	10.732409
	1298	मुंदरगी	दंबला	डोनी	119	6.53541
	1299	मुंदरगी	दंबला	डोनी	120	10.600538
	1300	मुंदरगी	दंबला	डोनी	121	2.341014
	1301	मुंदरगी	दंबला	डोनी	131	5.07409
	1302	मुंदरगी	दंबला	डोनी	132	5.01727
	1303	मुंदरगी	दंबला	डोनी	133	3.086027
	1304	मुंदरगी	दंबला	डोनी	134	4.351438
	1305	मुंदरगी	दंबला	डोनी	135	10.707567
	1306	मुंदरगी	दंबला	डोनी	136	6.464124
	1307	मुंदरगी	दंबला	डोनी	137	3.95707
	1308	मुंदरगी	दंबला	डोनी	138	8.572819
	1309	मुंदरगी	दंबला	डोनी	122	1.337861
	1310	मुंदरगी	दंबला	डोनी	100	1.427127
	1311	मुंदरगी	दंबला	डोनी	98	1.162705
	1312	मुंदरगी	दंबला	डोनी	140	5.969742
	1313	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.000604
	1314	मुंदरगी	दंबला	डोनी	139	5.110296
	1315	मुंदरगी	दंबला	डोनी	216	7.567731
	1316	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	1.509389
	1317	मुंदरगी	दंबला	डोनी	213/ए	0.661927

	1318	मुंदरगी	दंबला	डोनी	215	4.40645
	1319	मुंदरगी	दंबला	डोनी	214	1.839237
	1320	मुंदरगी	दंबला	डोनी	219	0.105754
	1321	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.523436
	1322	मुंदरगी	दंबला	डोनी	214	6.560988
	1323	मुंदरगी	दंबला	डोनी	215	3.407586
	1324	मुंदरगी	दंबला	डोनी	215	2.166277
	1325	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	4.708683
	1326	मुंदरगी	दंबला	डोनी	212	9.313812
	1327	मुंदरगी	दंबला	डोनी	175	3.971677
	1328	मुंदरगी	दंबला	डोनी	209	4.688726
	1329	मुंदरगी	दंबला	डोनी	176	6.551109
	1330	मुंदरगी	दंबला	डोनी	170	2.97168
	1331	मुंदरगी	दंबला	डोनी	210	1.770411
	1332	मुंदरगी	दंबला	डोनी	185	4.273365
	1333	मुंदरगी	दंबला	डोनी	184	5.185652
	1334	मुंदरगी	दंबला	डोनी	183	8.448317
	1335	मुंदरगी	दंबला	डोनी	174	4.514548
	1336	मुंदरगी	दंबला	डोनी	186	4.137158
	1337	मुंदरगी	दंबला	डोनी	171	7.147522
	1338	मुंदरगी	दंबला	डोनी	177	5.38567
	1339	मुंदरगी	दंबला	डोनी	187	11.920411
	1340	मुंदरगी	दंबला	डोनी	173	5.322294
	1341	मुंदरगी	दंबला	डोनी	172	6.316841
	1342	मुंदरगी	दंबला	डोनी	205	3.975054
	1343	मुंदरगी	दंबला	डोनी	182	6.491694

	1344	मुंदरगी	दंबला	डोनी	203	6.403192
	1345	मुंदरगी	दंबला	डोनी	202	8.766654
	1346	मुंदरगी	दंबला	डोनी	178	3.619141
	1347	मुंदरगी	दंबला	डोनी	181	5.60976
	1348	मुंदरगी	दंबला	डोनी	180	7.497193
	1349	मुंदरगी	दंबला	डोनी	179	5.01215
	1350	मुंदरगी	दंबला	डोनी	204	7.027263
	1351	मुंदरगी	दंबला	डोनी	168	5.983207
	1352	मुंदरगी	दंबला	डोनी	201	3.291797
	1353	मुंदरगी	दंबला	डोनी	188	5.062442
	1354	मुंदरगी	दंबला	डोनी	189	4.434381
	1355	मुंदरगी	दंबला	डोनी	200	6.740912
	1356	मुंदरगी	दंबला	डोनी	167	6.845337
	1357	मुंदरगी	दंबला	डोनी	166	8.207793
	1358	मुंदरगी	दंबला	डोनी	329	3.345503
	1359	मुंदरगी	दंबला	डोनी	328	8.279362
	1360	मुंदरगी	दंबला	डोनी	326	5.528282
	1361	मुंदरगी	दंबला	डोनी	330	6.38917
	1362	मुंदरगी	दंबला	डोनी	325	7.239199
	1363	मुंदरगी	दंबला	डोनी	323	2.083983
	1364	मुंदरगी	दंबला	डोनी	327	7.975419
	1365	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.695054
	1366	मुंदरगी	दंबला	डोनी	323	4.855508

	1367	मुंदरगी	दंबला	डोनी	220	6.214837
	1368	मुंदरगी	दंबला	डोनी	324	3.042825
	1369	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	8.71792
	1370	मुंदरगी	दंबला	डोनी	332	9.855628
	1371	मुंदरगी	दंबला	डोनी	331	0.600596
	1372	मुंदरगी	दंबला	डोनी	310	4.946961
	1373	मुंदरगी	दंबला	डोनी	221	7.09005
	1374	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	1.073328
	1375	मुंदरगी	दंबला	डोनी	309	3.274795
	1376	मुंदरगी	दंबला	डोनी	327	0.161498
	1377	मुंदरगी	दंबला	डोनी	324	6.013222
	1378	मुंदरगी	दंबला	डोनी	333	1.993254
	1379	मुंदरगी	दंबला	डोनी	312	6.29623
	1380	मुंदरगी	दंबला	डोनी	307	3.058772
	1381	मुंदरगी	दंबला	डोनी	322	7.630425
	1382	मुंदरगी	दंबला	डोनी	308	7.358242
	1383	मुंदरगी	दंबला	डोनी	311	6.732865
	1384	मुंदरगी	दंबला	डोनी	321	4.826013
	1385	मुंदरगी	दंबला	डोनी	222	10.152774
	1386	मुंदरगी	दंबला	डोनी	306	1.05508
	1387	मुंदरगी	दंबला	डोनी	223	11.619618
	1388	मुंदरगी	दंबला	डोनी	304	2.584848
	1389	मुंदरगी	दंबला	डोनी	313	2.325392
	1390	मुंदरगी	दंबला	डोनी	303	0.854357
	1391	मुंदरगी	दंबला	डोनी	320	6.332842
	1392	मुंदरगी	दंबला	डोनी	314	3.20388

	1393	मुंदरगी	दंबला	डोनी	302	0.069758
	1394	मुंदरगी	दंबला	डोनी	316	6.466381
	1395	मुंदरगी	दंबला	डोनी	318	8.032201
	1396	मुंदरगी	दंबला	डोनी	319	6.699187
	1397	मुंदरगी	दंबला	डोनी	224	6.927238
	1398	मुंदरगी	दंबला	डोनी	315	1.327517
	1399	मुंदरगी	दंबला	डोनी	300	0.104022
	1400	मुंदरगी	दंबला	डोनी	225	6.656798
	1401	मुंदरगी	दंबला	डोनी	317	6.025983
	1402	मुंदरगी	दंबला	डोनी	बस्ती	0.076958
	1403	मुंदरगी	दंबला	डोनी	272	1.080426
	1404	मुंदरगी	दंबला	डोनी	271	2.503431
	1405	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.671318
	1406	मुंदरगी	दंबला	डोनी	270	7.219354
	1407	मुंदरगी	दंबला	डोनी	226	8.944257
	1408	मुंदरगी	दंबला	डोनी	273	3.406958
	1409	मुंदरगी	दंबला	डोनी	284	0.348923
	1410	मुंदरगी	दंबला	डोनी	227	8.163698
	1411	मुंदरगी	दंबला	डोनी	282	1.1592
	1412	मुंदरगी	दंबला	डोनी	275	0.560073
	1413	मुंदरगी	दंबला	डोनी	274	9.091267
	1414	मुंदरगी	दंबला	डोनी	269	6.955248
	1415	मुंदरगी	दंबला	डोनी	283	3.264666
	1416	मुंदरगी	दंबला	डोनी	279	0.397189

	1417	मुंदरगी	दंबला	डोनी	सड़क	1.509451
	1418	मुंदरगी	दंबला	डोनी	258	7.322054
	1419	मुंदरगी	दंबला	डोनी	228	7.920449
	1420	मुंदरगी	दंबला	डोनी	259	3.418727
	1421	मुंदरगी	दंबला	डोनी	276	0.101909
	1422	मुंदरगी	दंबला	डोनी	268	10.295576
	1423	मुंदरगी	दंबला	डोनी	229	11.812346
	1424	मुंदरगी	दंबला	डोनी	277	4.491078
	1425	मुंदरगी	दंबला	डोनी	261	6.776351
	1426	मुंदरगी	दंबला	डोनी	260	5.343363
	1427	मुंदरगी	दंबला	डोनी	262	10.583464
	1428	मुंदरगी	दंबला	डोनी	264	9.234113
	1429	मुंदरगी	दंबला	डोनी	267	7.731044
	1430	मुंदरगी	दंबला	डोनी	230	7.615008
	1431	मुंदरगी	दंबला	डोनी	266	9.171332
	1432	मुंदरगी	दंबला	डोनी	232	1.230184
	1433	मुंदरगी	दंबला	डोनी	257	11.848512
	1434	मुंदरगी	दंबला	डोनी	256	3.046939
	1435	मुंदरगी	दंबला	डोनी	231	2.804535
	1436	मुंदरगी	दंबला	डोनी	263	7.687548
	1437	मुंदरगी	दंबला	डोनी	347	1.864544
	1438	मुंदरगी	दंबला	डोनी	265	9.318801
	1439	मुंदरगी	दंबला	डोनी	233	8.147615
	1440	मुंदरगी	दंबला	डोनी	254	11.253095
	1441	मुंदरगी	दंबला	डोनी	255	4.645265
	1442	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	7.583944

	1443	मुंदरगी	दंबला	डोनी	235	4.728585
	1444	मुंदरगी	दंबला	डोनी	234	3.129409
	1445	मुंदरगी	दंबला	डोनी	248	5.352621
	1446	मुंदरगी	दंबला	डोनी	247	10.733482
	1447	मुंदरगी	दंबला	डोनी	236	6.381562
	1448	मुंदरगी	दंबला	डोनी	सड़क	0.472772
	1449	मुंदरगी	दंबला	डोनी	253	6.590997
	1450	मुंदरगी	दंबला	डोनी	243	11.719881
	1451	मुंदरगी	दंबला	डोनी	242	9.683206
	1452	मुंदरगी	दंबला	डोनी	252	10.91145
	1453	मुंदरगी	दंबला	डोनी	237	10.115497
	1454	मुंदरगी	दंबला	डोनी	249	5.625402
	1455	मुंदरगी	दंबला	डोनी	246	8.105411
	1456	मुंदरगी	दंबला	डोनी	245	7.077153
	1457	मुंदरगी	दंबला	डोनी	239	6.242245
	1458	मुंदरगी	दंबला	डोनी	250	10.781961
	1459	मुंदरगी	दंबला	डोनी	241	5.252114
	1460	मुंदरगी	दंबला	डोनी	238	5.433138
	1461	मुंदरगी	दंबला	डोनी	244	11.751288
	1462	मुंदरगी	दंबला	डोनी	251	11.782752
	1463	मुंदरगी	दंबला	डोनी	240	12.533627
	1464	मुंदरगी	दंबला	डोनी	432	3.346154
	1465	मुंदरगी	दंबला	डोनी	416	9.520478
	1466	मुंदरगी	दंबला	डोनी	415	8.969543

	1467	मुंदरगी	दंबला	डोनी	414	8.684557
	1468	मुंदरगी	दंबला	डोनी	417	8.601944
	1469	मुंदरगी	दंबला	डोनी	431	7.391616
	1470	मुंदरगी	दंबला	डोनी	418	10.579904
	1471	मुंदरगी	दंबला	डोनी	419	6.940393
	1472	मुंदरगी	दंबला	डोनी	430	6.381829
	1473	मुंदरगी	दंबला	डोनी	428	4.032327
	1474	मुंदरगी	दंबला	डोनी	420	7.985228
	1475	मुंदरगी	दंबला	डोनी	424	8.467572
	1476	मुंदरगी	दंबला	डोनी	429	5.913596
	1477	मुंदरगी	दंबला	डोनी	423	5.082459
	1478	मुंदरगी	दंबला	डोनी	385	6.972651
	1479	मुंदरगी	दंबला	डोनी	413ए	0.000377
	1480	मुंदरगी	दंबला	डोनी	386	7.2371
	1481	मुंदरगी	दंबला	डोनी	389	6.135963
	1482	मुंदरगी	दंबला	डोनी	425	9.897717
	1483	मुंदरगी	दंबला	डोनी	426	8.737983
	1484	मुंदरगी	दंबला	डोनी	427	2.439186
	1485	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.000023
	1486	मुंदरगी	दंबला	डोनी	363	2.286689
	1487	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	1.492623
	1488	मुंदरगी	दंबला	डोनी	363	1.881302
	1489	मुंदरगी	दंबला	डोनी	422	8.154082
	1490	मुंदरगी	दंबला	डोनी	362	1.866296
	1491	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.669975

	1492	मुंदरगी	दंबला	डोनी	362	7.5417
	1493	मुंदरगी	दंबला	डोनी	363	4.081465
	1494	मुंदरगी	दंबला	डोनी	384	10.09671
	1495	मुंदरगी	दंबला	डोनी	387	5.313267
	1496	मुंदरगी	दंबला	डोनी	388	9.436375
	1497	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.48741
	1498	मुंदरगी	दंबला	डोनी	361	1.012498
	1499	मुंदरगी	दंबला	डोनी	453	11.867572
	1500	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.450958
	1501	मुंदरगी	दंबला	डोनी	449	1.761817
	1502	मुंदरगी	दंबला	डोनी	361	4.692192
	1503	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	1.091667
	1504	मुंदरगी	दंबला	डोनी	364	10.572515
	1505	मुंदरगी	दंबला	डोनी	360	10.572604
	1506	मुंदरगी	दंबला	डोनी	452	5.515519
	1507	मुंदरगी	दंबला	डोनी	365	8.209358
	1508	मुंदरगी	दंबला	डोनी	348	7.96683
	1509	मुंदरगी	दंबला	डोनी	366	6.427579
	1510	मुंदरगी	दंबला	डोनी	349	10.306378
	1511	मुंदरगी	दंबला	डोनी	382	7.862366
	1512	मुंदरगी	दंबला	डोनी	383	9.163113
	1513	मुंदरगी	दंबला	डोनी	सड़क	0.741067
	1514	मुंदरगी	दंबला	डोनी	451	1.88121

	1515	मुंदरगी	दंबला	डोनी	375	9.522091
	1516	मुंदरगी	दंबला	डोनी	374	8.671307
	1517	मुंदरगी	दंबला	डोनी	373	11.485213
	1518	मुंदरगी	दंबला	डोनी	367	7.74572
	1519	मुंदरगी	दंबला	डोनी	350	5.230052
	1520	मुंदरगी	दंबला	डोनी	359	9.873911
	1521	मुंदरगी	दंबला	डोनी	381	3.464824
	1522	मुंदरगी	दंबला	डोनी	380	7.776007
	1523	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.467624
	1524	मुंदरगी	दंबला	डोनी	351	3.58691
	1525	मुंदरगी	दंबला	डोनी	358	8.365262
	1526	मुंदरगी	दंबला	डोनी	398	8.924397
	1527	मुंदरगी	दंबला	डोनी	379	4.47316
	1528	मुंदरगी	दंबला	डोनी	378	7.087384
	1529	मुंदरगी	दंबला	डोनी	352	0.312864
	1530	मुंदरगी	दंबला	डोनी	368	2.727033
	1531	मुंदरगी	दंबला	डोनी	377	6.973991
	1532	मुंदरगी	दंबला	डोनी	357	4.499288
	1533	मुंदरगी	दंबला	डोनी	376	8.298498
	1534	मुंदरगी	दंबला	डोनी	372	8.346263
	1535	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	0.346185
	1536	मुंदरगी	दंबला	डोनी	371	7.055085
	1537	मुंदरगी	दंबला	डोनी	395	0.225779
	1538	मुंदरगी	दंबला	डोनी	397	7.263533
	1539	मुंदरगी	दंबला	डोनी	370	3.124136
	1540	मुंदरगी	दंबला	डोनी	सड़क	0.358528

	1541	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	1.731537
	1542	मुंदरगी	दंबला	डोनी	152	4.73024
	1543	मुंदरगी	दंबला	डोनी	धारा	1.775142
					योग	1507.455663
15	1547	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	धारा	0.325936
	1548	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	4	1.467981
	1549	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	35/2	4.589298
	1550	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	36	6.334352
	1551	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	36	2.292062
	1552	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	37	5.412743
	1553	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	38	4.070445
	1554	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	39	6.173099
	1555	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	40/4	0.998932
	1556	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	40/3	1.408166
	1557	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	40/2	0.920247
	1558	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	40/5	1.133328
	1559	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	40/1	2.923605
	1560	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	43/3	0.823057
	1561	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	43/2	1.694092
	1562	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	43/1	1.016422
	1563	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	47	2.186319
	1564	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	48	3.815794
	1565	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	48	1.938948

	1566	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	49	1.940737
	1567	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	50	3.787222
	1568	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	51	1.361204
	1569	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	52	3.160878
	1570	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	53	2.656987
	1571	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	54	7.206526
	1572	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	55/6	2.956092
	1573	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	55/5	0.891402
	1574	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	55/4	0.574335
	1575	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	55/3	0.963233
	1576	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	55/1	5.603577
	1577	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	55/7	0.691636
	1578	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	55/8	0.298368
	1579	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	55/2	1.799837
	1580	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	56	138.780831
	1581	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	57	2.911175
	1582	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	58/2	2.481821
	1583	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	58	4.439223
	1584	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	59	4.597657
	1585	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	60	3.955735
	1586	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	61/1	5.721451
	1587	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	61/3	4.089301
	1588	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	61/2	0.994292
	1589	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	61/4	0.560837
	1590	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	61/5	0.736684
	1591	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	62/2	2.151436

	1592	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	62/1	0.923894
	1593	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	62/3	0.858734
	1594	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	63	10.745705
	1595	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	64/4	0.61349
	1596	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	64/3	1.912097
	1597	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	64/2	2.152211
	1598	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	64/1	4.502766
	1599	मुंदरगी	मुंडारागी	गंगापुरा	65/1	0.752513
					योग	277.298713
16	1600	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	धारा	0.390553
	1601	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	7	11.66189
	1602	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	8	4.979855
	1603	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	4	6.160706
	1604	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	3	1.216836
	1605	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	92	8.480757
	1606	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	2	0.061044
	1607	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	धारा	0.051699
	1608	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	2	0.054293
	1609	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	86	6.156638
	1610	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	9	5.079933
	1611	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	15	7.940243
	1612	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	5	4.972571
	1613	मुंदरगी	दंबला	गुदड़ाबुडीहाला	97	2.696641

1614	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	96	4.853587
1615	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	6	6.164274
1616	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	95	6.874026
1617	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	94	5.962631
1618	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	93	5.859778
1619	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	87	6.547958
1620	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	14	6.61964
1621	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	10	1.829712
1622	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	11	2.082097
1623	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	धारा	0.590747
1624	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	89	3.471075
1625	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	2	0.246344
1626	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	97	0.576858
1627	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	16	5.559432
1628	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	धारा	0.363475
1629	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	13	2.020875
1630	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	97	1.915003
1631	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	96	3.1427
1632	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	धारा	0.580757
1633	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	धारा	0.512711
1634	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	95	2.776915
1635	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	93	4.718731
1636	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	12	1.69724
1637	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	88	7.644111
1638	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	धारा	8.093751
1639	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	1	0.405187

	1640	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	धारा	0.432298
	1641	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	94	2.174655
	1642	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	1	2.369277
	1643	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	31	10.532907
	1644	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	32	6.226754
	1645	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	सड़क	0.461802
	1646	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	68	0.384217
	1647	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	बस्ती	2.031189
	1648	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	सड़क	0.315852
	1649	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	69	5.725877
	1650	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	71	8.888842
	1651	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	70	7.382706
	1652	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	30	4.415143
	1653	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	67	4.14369
	1654	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	29	8.424584
	1655	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	33/2	4.235844
	1656	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	33/1	2.274253
	1657	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	28	8.322551
	1658	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	66	5.021662
	1659	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	72	5.605596
	1660	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	24	7.118464
	1661	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	27	9.338798
	1662	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	73	11.721657

	1663	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	26	8.41814
	1664	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	74	12.796032
	1665	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	25	9.847811
	1666	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	83	12.894725
	1667	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	34	10.468641
	1668	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	37	5.004557
	1669	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	98	4.903511
	1670	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	36	10.234075
	1671	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	38	4.593571
	1672	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	75	5.983772
	1673	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	65	7.230649
	1674	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	100	3.868683
	1675	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	81	9.704363
	1676	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	39	7.930454
	1677	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	99	3.01674
	1678	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	41	4.538862
	1679	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	64	14.500821
	1680	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	35	9.777995
	1681	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	42	8.551195
	1682	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	43	10.78431
	1683	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	49	9.411796
	1684	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	44	8.702499
	1685	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	47	11.391353
	1686	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	50	15.328857
	1687	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	56	9.955396

	1688	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	48	12.254197
	1689	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	61	10.593717
	1690	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	63	4.358491
	1691	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	62	9.253804
	1692	मुंदरगी	दंबला	गुदडाबुडीहाला	51	13.081193
					योग	537.942102
17	1693	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	6	8.064509
	1694	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	13	7.645092
	1695	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	14	8.004029
	1696	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	15	6.971948
	1697	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	16	6.963539
	1698	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	5	7.75832
	1699	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	18	6.831298
	1700	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	17	4.14239
	1701	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	4	7.781651
	1702	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	19	11.697914
	1703	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	3	4.974738
	1704	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	धारा	2.359038
	1705	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	20	5.075673
	1706	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	2	0.141663
	1707	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	21	2.953044
	1708	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	22	3.449492
	1709	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	23	5.107053

	1710	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	24	6.600376
	1711	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	25	11.041389
	1712	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	26	6.130734
	1713	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	28	0.274107
	1714	शिराहट्टी	शिराहट्टी	हडगली	27	2.965708
					योग	126.933705
18	1715	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	343	2.518709
	1716	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	346	5.405339
	1717	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	342	1.570787
	1718	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	340	4.835188
	1719	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	341	1.339026
	1720	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	349	6.121811
	1721	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	347	1.961851
	1722	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	348	1.867681
	1723	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	338	1.33347
	1724	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	351	3.842431
	1725	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	339	4.935217
	1726	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	352	1.63688
	1727	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	353	1.069354
	1728	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	337	1.559922
	1729	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	354	1.151457
	1730	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	358	5.549835
	1731	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	सड़क	6.309013
	1732	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	357	5.888516
	1733	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	356	3.693735
	1734	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	355	6.039589

	1735	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	336	1.175426
	1736	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	333	4.556652
	1737	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	332	9.570757
	1738	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	359	8.829096
	1739	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	335	1.033852
	1740	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	363	2.542962
	1741	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	360	7.330551
	1742	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	366	1.66462
	1743	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	367	1.941719
	1744	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	362	1.258258
	1745	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	334	2.304348
	1746	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	364	1.613909
	1747	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	361	1.530685
	1748	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	368	1.061162
	1749	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	365	1.826373
	1750	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	374	3.188717
	1751	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	369	1.506473
	1752	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	375	6.480575
	1753	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	373	3.789081
	1754	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	393	7.270424
	1755	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	391	5.530177
	1756	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	372	3.684382
	1757	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	370	1.518591
	1758	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	394	6.936787

	1759	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	384	4.076544
	1760	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	371	3.784428
	1761	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	385	3.812412
	1762	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	392	6.249994
	1763	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	376	8.028118
	1764	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	388	3.609152
	1765	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	383	3.969271
	1766	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	389	2.861092
	1767	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	386	3.210298
	1768	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	395	6.14622
	1769	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	255	7.396663
	1770	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	396	6.661942
	1771	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	XX	0.042004
	1772	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	390	0.966801
	1773	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	382	4.087349
	1774	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	387	3.020007
	1775	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	397	6.110484
	1776	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	406	4.447493
	1777	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	381	3.212139
	1778	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	398	6.126777
	1779	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	252	6.809638
	1780	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	407	5.478228
	1781	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	253	8.152965
	1782	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	380	1.414092
	1783	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	400	8.96824

	1784	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	377	3.768242
	1785	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	405	1.675389
	1786	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	254	0.593647
	1787	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	399	12.456032
	1788	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	379	1.969228
	1789	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	242	8.570623
	1790	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	408	4.961402
	1791	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	378	1.60814
	1792	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	404	3.011714
	1793	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	249	1.842829
	1794	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	243	5.794801
	1795	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	250	3.565898
	1796	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	411	4.687681
	1797	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	403	6.936205
	1798	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	251	4.702408
	1799	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	401	3.644888
	1800	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	409	6.201393
	1801	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	244	4.062312
	1802	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	241	6.906774
	1803	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	248	6.426117
	1804	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	412	0.968782
	1805	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	245	4.971869
	1806	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	413	0.435683
	1807	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	410	3.636656

	1808	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	247	1.167425
	1809	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	240	2.571383
	1810	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	429	0.026375
	1811	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	239	0.766004
	1812	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	246	0.001683
	1813	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	सड़क	2.174511
	1814	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	89	0.000006
	1815	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	80	8.751594
	1816	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	79	5.871103
	1817	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	78	7.063342
	1818	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	76	7.389432
	1819	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	75	9.098272
	1820	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	77	8.501473
	1821	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	74	8.926253
	1822	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	64	7.171554
	1823	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	71	5.89739
	1824	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	72	3.736826
	1825	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	65	7.376019
	1826	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	73	2.959764
	1827	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	70	4.744577
	1828	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	69	5.46771
	1829	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	67	3.640723
	1830	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	53	2.807945
	1831	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	68	5.925111
	1832	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	52	5.279438

	1833	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	51	4.969337
	1834	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	54	1.552345
	1835	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	50	2.629432
	1836	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	58	1.703853
	1837	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	212	0.630673
	1838	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	213	0.128782
	1839	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	101	7.926189
	1840	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	102	6.631791
	1841	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	106	6.346664
	1842	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	107	6.684116
	1843	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	61	3.655419
	1844	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	112	7.32821
	1845	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	115	5.575186
	1846	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	116	9.242501
	1847	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	125	7.960348
	1848	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	111	4.394784
	1849	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	60	9.643795
	1850	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	109	4.049981
	1851	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	108	5.176625
	1852	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	110	4.481096
	1853	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	114	5.311123
	1854	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	133	4.841411
	1855	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	132	5.331942
	1856	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	131	7.291788

	1857	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	113	8.519395
	1858	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	146	8.236872
	1859	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	130	3.466829
	1860	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	208	4.362636
	1861	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	135	6.576913
	1862	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	136	4.774037
	1863	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	207	1.832148
	1864	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	140	8.804069
	1865	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	154	5.204667
	1866	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	139	4.299133
	1867	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	134	6.110055
	1868	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	206	4.285328
	1869	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	145	6.341047
	1870	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	144	7.275752
	1871	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	141	7.171045
	1872	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	204	8.599619
	1873	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	155	6.097317
	1874	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	156	7.106659
	1875	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	157	3.307272
	1876	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	142	7.419943
	1877	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	143	6.934216
	1878	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	137	6.389933
	1879	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	138	8.84507
	1880	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	सड़क	3.775367
	1881	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	173	6.013855

	1882	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	203	1.269591
	1883	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	174	8.222705
	1884	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	175	7.732057
	1885	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	202	1.422673
	1886	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	197	5.376026
	1887	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	192	6.1605
	1888	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	199	4.725947
	1889	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	176	6.620494
	1890	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	205	0.127327
	1891	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	202	0.246148
	1892	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	191	2.204506
	1893	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	177	7.218361
	1894	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	187	9.257001
	1895	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	178	8.260691
	1896	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	186	4.768891
	1897	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	179	4.399941
	1898	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	196	6.325968
	1899	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	182	6.569433
	1900	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	183	6.502898
	1901	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	195	4.438934
	1902	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	धारा	0.679214
	1903	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	193	4.388974
	1904	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	198	2.320847
	1905	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	200	0.155959

	1906	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	190	5.841433
	1907	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	172	7.316261
	1908	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	194	3.160995
	1909	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	162	6.704699
	1910	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	नदी	0.135137
	1911	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	161	0.141424
	1912	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	171	6.716963
	1913	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	नदी	0.000789
	1914	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	170	8.760965
	1915	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	169	8.050971
	1916	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	168	6.840697
	1917	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	189	5.072341
	1918	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	188	4.703828
	1919	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	167	9.269345
	1920	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	185	5.745249
	1921	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	184	9.998024
	1922	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	181	9.482749
	1923	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	180	6.633652
	1924	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	81	8.931474
	1925	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	100	10.644202
	1926	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	62	7.821954
	1927	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	63	10.668605
	1928	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	66	8.036436
	1929	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	59	7.236883
	1930	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	धारा	5.217561

	1931	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	210	2.440749
	1932	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	211	2.589073
	1933	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	सड़क	0.288669
	1934	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	ठगभद्रा नदी	133.752914
	1935	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	ठगभद्रा नदी	1.345618
	1936	मुंदरगी	मुंडारागी	हम्मिगी	ठगभद्रा नदी	1.591889
					योग	1185.905568
19	1937	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	धारा	0.877844
	1938	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	धारा	1.778452
	1939	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	धारा	1.063384
	1940	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	13	8.311463
	1941	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	17	79.181381
	1942	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	20	10.161832
	1943	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	21	9.762294
	1944	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	22	11.200579
	1945	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	23/बी	25.619325
	1946	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	23/बी	43.419663
	1947	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	23/बी	3.381269
	1948	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	24	2.944821
	1949	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	25	4.976743
	1950	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	25	1.833583
	1951	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	26	9.585789
	1952	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	27	2.64338
	1953	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	28	6.984021

	1954	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	29	6.217577
	1955	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	30	6.850333
	1956	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	31	3.080118
	1957	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	37	0.62054
	1958	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	38	2.053353
	1959	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	16	2.615202
	1960	गडग	गडगा	हंगनाकट्टे	19	2.526335
					योग	247.689281
20	1961	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	224	2.470559
	1962	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	223	2.346848
	1963	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	221	2.624001
	1964	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	219	9.25783
	1965	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	220	7.553694
	1966	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	धारा	4.308673
	1967	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	धारा	4.45887
	1968	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	218	4.255658
	1969	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	210	7.316004
	1970	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	208	6.822122
	1971	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	209	8.279913
	1972	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	217	3.834132
	1973	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	216	3.279564
	1974	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	215	3.65382
	1975	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	211	7.11743
	1976	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	214	7.860745
	1977	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	226	1.964308

	1978	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	सड़क	0.857759
	1979	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	212	12.074046
	1980	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	253	7.75073
	1981	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	222	0.445936
	1982	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	235	0.227216
	1983	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	213	0.987572
	1984	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	सड़क	0.177099
	1985	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	198	10.789333
	1986	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	228	1.093388
	1987	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	सड़क	1.025718
	1988	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	197	5.449353
	1989	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	200	7.123057
	1990	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	196	6.660246
	1991	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	199	4.68184
	1992	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	195	6.076538
	1993	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	169	5.368715
	1994	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	170	3.592412
	1995	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	171	0.4909
	1996	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	194	2.590006
	1997	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	173	3.226315
	1998	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	192	5.719598
	1999	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	174	3.242561
	2000	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	172	3.233356
	2001	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	175	4.066152

	2002	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	193	9.187739
	2003	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	176	4.52737
	2004	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	177	3.554485
	2005	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	191	7.119242
	2006	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	178	3.35923
	2007	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	179	2.934688
	2008	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	133	7.790882
	2009	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	सड़क	0.069115
	2010	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	121	3.551412
	2011	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	120	2.035907
	2012	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	122	4.532116
	2013	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	132	7.581302
	2014	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	129	3.078761
	2015	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	130	3.325242
	2016	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	131	6.565689
	2017	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	160	2.281977
	2018	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	134	9.107273
	2019	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	108	0.02087
	2020	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	180	2.286092
	2021	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	109	0.61118
	2022	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	161	0.946784
	2023	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	182	6.484499
	2024	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	181	2.382494

	2025	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	159	4.794389
	2026	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	157	11.164759
	2027	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	158	2.994591
	2028	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	147	4.79367
	2029	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	146	1.196159
	2030	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	145	0.993548
	2031	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	148	3.167377
	2032	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	183	7.096765
	2033	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	156	3.259316
	2034	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	155	6.300775
	2035	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	सड़क	0.792618
	2036	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	139	3.307905
	2037	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	149	9.96347
	2038	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	154	6.310457
	2039	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	184	7.553172
	2040	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	143	0.551633
	2041	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	144	1.357501
	2042	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	142	0.700754
	2043	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	153	4.296881
	2044	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	150	4.967087
	2045	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	141	2.077913
	2046	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	152	5.79815
	2047	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	140	2.035728

	2048	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	137	2.703238
	2049	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	151	11.823896
	2050	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	138	0.407501
	2051	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	135	5.317165
	2052	मुंदरगी	दंबला	हारोगेरी	136	1.710621
					योग	395.125405
21	2053	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	59	5.867862
	2054	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	60	6.608697
	2055	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	48	5.323286
	2056	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	54	6.073475
	2057	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	52	4.54643
	2058	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	47	4.559171
	2059	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	39	8.481281
	2060	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	36	0.262026
	2061	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	53	5.141962
	2062	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	61	5.481348
	2063	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	46	6.66952
	2064	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	62	5.768963
	2065	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	64	4.833373
	2066	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	44	8.501939
	2067	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	63	5.22882
	2068	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	45	3.842159
	2069	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	41	7.6338
	2070	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	40	4.190854
	2071	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	35	1.942797

	2072	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	65	6.735381
	2073	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	66	6.340551
	2074	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	68	7.58801
	2075	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	67	5.506918
	2076	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	43	9.413181
	2077	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	42	3.929455
	2078	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	69	12.477572
	2079	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	97	9.305051
	2080	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	71	9.823021
	2081	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	106	7.051785
	2082	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	83	4.888964
	2083	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	105	7.356197
	2084	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	98	4.748008
	2085	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	99	8.149546
	2086	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	84	10.731632
	2087	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	72	6.151965
	2088	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	9	1.14745
	2089	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	96	6.604574
	2090	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	82	12.694291
	2091	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	94	6.84635
	2092	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	107	0.070358
	2093	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	73	3.732125
	2094	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	95	9.77751
	2095	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	104	3.050585

	2096	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	100	6.085425
	2097	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	85	3.122557
	2098	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	74	4.118159
	2099	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	86	6.791576
	2100	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	75	0.02357
	2101	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	101	0.84316
	2102	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	90	2.524181
	2103	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	93	5.534491
	2104	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	89	2.600413
	2105	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	88	2.178438
	2106	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	87	2.607501
	2107	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	81	1.521457
	2108	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	79	0.163388
	2109	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	धारा	8.927239
	2110	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	384 टँक	9.369168
	2111	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	सडक	0.212475
	2112	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	246	0.003618
	2113	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	357	4.035371
	2114	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	382	4.470067
	2115	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	349	5.974105
	2116	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	346	5.159844
	2117	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	359	6.652925
	2118	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	350	6.725532
	2119	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	356	10.197818
	2120	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	373	3.821906
	2121	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	374	6.984947
	2122	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	361	8.200135

	2123	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	260	1.282994
	2124	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	377	3.72083
	2125	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	381	7.653457
	2126	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	261/बी	0.237799
	2127	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	376	4.007233
	2128	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	380	11.439864
	2129	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	259	0.124996
	2130	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	375	11.383753
	2131	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	379	4.050532
	2132	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	265	6.754305
	2133	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	264	4.490174
	2134	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	263	3.323424
	2135	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	262	1.945543
	2136	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	261/ए	1.968544
	2137	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	351	11.158595
	2138	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	सड़क	3.82016
	2139	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	345	2.782446
	2140	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	344	4.012873
	2141	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	343	5.737946
	2142	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	360	3.269342
	2143	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	352	6.714127
	2144	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	362	5.564836
	2145	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	353	5.96306
	2146	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	363	4.611021
	2147	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	355	3.352379

2148	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	364	5.004625
2149	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	354	3.687367
2150	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	341	2.409698
2151	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	340	6.559009
2152	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	365	3.73895
2153	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	333	9.280159
2154	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	366	4.108866
2155	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	367	5.048791
2156	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	334	3.360431
2157	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	339	3.820023
2158	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	338	3.281229
2159	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	368	4.445019
2160	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	378	4.054415
2161	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	266	0.250635
2162	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	372	10.872095
2163	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	331	3.218252
2164	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	369	6.794909
2165	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	335	4.007367
2166	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	337	2.481034
2167	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	371	3.422517
2168	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	332	2.973094
2169	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	330	4.417178
2170	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	336	9.304846
2171	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	370	6.82604
2172	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	329	5.520164
2173	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	285	0.384637

	2174	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	286	0.882521
	2175	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	287	1.184072
	2176	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	328	8.215766
	2177	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	306	1.83257
	2178	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	307	4.953527
	2179	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	327	3.399906
	2180	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	308	2.411465
	2181	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	326	5.067289
	2182	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	309	5.309893
	2183	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	305	7.578147
	2184	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	310	7.528575
	2185	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	303	4.079926
	2186	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	302	5.113337
	2187	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	311	7.784015
	2188	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	312	6.2006
	2189	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	288	3.970157
	2190	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	304	5.808251
	2191	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	276	2.338862
	2192	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	279	2.109409
	2193	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	281	3.16483
	2194	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	313	6.342574
	2195	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	सड़क	0.47021
	2196	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	289	8.475316
	2197	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	301	1.103918

	2198	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	315	4.748748
	2199	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	290	6.31169
	2200	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	317	5.316711
	2201	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	300	2.400704
	2202	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	318	2.548555
	2203	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	299	11.515186
	2204	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	291	10.369999
	2205	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	319	7.56473
	2206	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	314	3.989671
	2207	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	316	3.444169
	2208	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	320	4.363362
	2209	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	292	7.672567
	2210	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	293	1.771501
	2211	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	280	5.208944
	2212	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	298	4.973336
	2213	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	296	4.795562
	2214	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	294	6.217553
	2215	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	295	4.748764
	2216	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	297	4.414074
	2217	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	347	8.527926
	2218	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	348	11.43068
	2219	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	383	2.144042
	2220	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	385	1.148165
	2221	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	386	4.000711
	2222	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	बस्ती	11.880064
	2223	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	धारा	0.023611

	2224	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	515	2.350539
	2225	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	491	5.597439
	2226	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	492	5.770984
	2227	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	493	4.983641
	2228	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	488	2.488859
	2229	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	494	6.283176
	2230	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	495	6.156118
	2231	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	514	0.026952
	2232	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	496	5.25338
	2233	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	498	11.176421
	2234	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	499	9.312463
	2235	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	500	6.5736
	2236	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	442	0.083564
	2237	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	501	2.136536
	2238	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	502	5.86468
	2239	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	497	3.450435
	2240	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	503	8.176165
	2241	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	509	5.951536
	2242	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	504	11.094421
	2243	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	508	7.749829
	2244	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	507	8.050782
	2245	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	506	10.533496
	2246	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	422	3.6271
	2247	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	412	0.795768

	2248	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	423	3.046226
	2249	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.17804
	2250	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	411	0.12609
	2251	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	421	3.441944
	2252	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	422	0.062387
	2253	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.467362
	2254	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	424	3.445256
	2255	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	423	2.842152
	2256	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	425	2.266051
	2257	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	393	0.033676
	2258	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.37634
	2259	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	429	7.837805
	2260	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	397	0.05134
	2261	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	424	2.715573
	2262	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	390	5.851804
	2263	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	549	1.569455
	2264	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	550	1.307928
	2265	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	389	3.503737
	2266	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	410	4.088181
	2267	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.437677
	2268	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	425	3.234868
	2269	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.299718
	2270	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	420	5.044684
	2271	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	426	0.592081
	2272	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	428	8.194336
	2273	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	427	2.568913

	2274	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	392	3.347213
	2275	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	396	2.455963
	2276	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	409	1.130153
	2277	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	430	8.741778
	2278	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	398	6.091393
	2279	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	413	5.825676
	2280	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	415	5.307815
	2281	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	408	6.197979
	2282	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	417	6.363644
	2283	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	418	6.697805
	2284	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	431	7.780165
	2285	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	419	7.324349
	2286	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	401	9.238235
	2287	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	432	3.399947
	2288	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	551	0.024516
	2289	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	433	5.454735
	2290	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	434	4.941962
	2291	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	391	6.29502
	2292	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	438	8.893516
	2293	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	439	5.115186
	2294	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	399	4.086173
	2295	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	400	2.732933
	2296	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	406	8.047937
	2297	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	416	10.597668

	2298	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	435	4.889296
	2299	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	437	6.350384
	2300	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	436	6.08731
	2301	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	388	0.548164
	2302	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	388ए	0.084384
	2303	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	505	8.204682
	2304	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	426	2.343982
	2305	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	441	10.019663
	2306	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	440	4.36851
	2307	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	सडक	3.480605
	2308	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	414	5.819698
	2309	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	407	7.349165
	2310	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	405	6.879697
	2311	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	404	6.638065
	2312	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	403	7.581414
	2313	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	402	4.052184
	2314	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	सडक	2.533987
	2315	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	387	0.918589
	2316	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	552	1.149921
	2317	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	धारा	1.215757
	2318	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	477	5.881403
	2319	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	478	8.04214
	2320	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	473	5.119095
	2321	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	476	6.863104
	2322	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	474	8.432707
	2323	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	टँक	0.048361

	2324	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	475	6.474694
	2325	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	479	7.902354
	2326	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	481	6.102479
	2327	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	482	6.650029
	2328	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	485	4.819287
	2329	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	484	7.77309
	2330	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	483	7.695398
	2331	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	480	7.396171
	2332	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.084242
	2333	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	447	0.659306
	2334	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.004357
	2335	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.209717
	2336	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	447	8.16319
	2337	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	464	8.692135
	2338	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	465	7.764697
	2339	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	505	1.706579
	2340	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	466	5.214243
	2341	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	446	5.070755
	2342	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.457411
	2343	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	446	2.251563
	2344	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	463	8.986766
	2345	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	468	8.748713
	2346	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	467	7.627696

	2347	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	448	8.263618
	2348	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	1.013799
	2349	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	444	4.471562
	2350	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	445	2.009491
	2351	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	443	6.349959
	2352	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	धारा	0.065921
	2353	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	449	7.239938
	2354	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	469	7.53019
	2355	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	459	7.576474
	2356	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	470	5.442754
	2357	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	460	6.031546
	2358	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	450	6.174568
	2359	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	461	6.722787
	2360	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	451	6.22966
	2361	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	452	7.464865
	2362	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	458	6.872281
	2363	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	453	6.615427
	2364	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	457	3.868645
	2365	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	454	4.396496
	2366	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	455	3.536149
	2367	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	491	1.435603
	2368	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	488	3.49666
	2369	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	489	1.432345
	2370	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	426	1.862566
	2371	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	427	2.335171
	2372	मुंदरगी	दंबला	हिरेवड्डी	441	0.196479

	2373	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	516	3.130606
	2374	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	490	12.330341
	2375	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	489	3.636613
	2376	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	58	6.916047
	2377	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	57	3.121597
	2378	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	56	9.206359
	2379	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	55	6.186474
	2380	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	51	5.180203
	2381	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	50	4.436609
	2382	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	49	3.857107
	2383	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	38	1.858754
	2384	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	धारा	1.679721
	2385	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	342	6.117074
	2386	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	321	6.668355
	2387	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	धारा	0
	2388	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	442	0.000001
	2389	मुंदरगी	दंबला	हिरेवडती	442	0.000269
					योग	1640.906945
22	2390	गडगा	गडगा	इनाम वैकटपुरा	31	4.999064
	2391	गडगा	गडगा	इनाम वैकटपुरा	32	4.656803
	2392	गडगा	गडगा	इनाम वैकटपुरा	33	3.080339
	2393	गडगा	गडगा	इनाम वैकटपुरा	341	1.500566
					योग	14.236772
23	2394	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	140	5.849348

	2395	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	44	7.402249
	2396	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	47	13.433443
	2397	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	43	16.055763
	2398	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	37	10.028275
	2399	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	48	9.493124
	2400	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	51	9.350421
	2401	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	38	6.612508
	2402	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	52	11.43489
	2403	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	42	13.978205
	2404	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	53	11.037364
	2405	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	56	13.709902
	2406	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	34	0.001077
	2407	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	41	4.019377
	2408	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	59	9.196957
	2409	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	21	7.738961
	2410	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	54	6.391175
	2411	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	66	11.387317
	2412	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	55	7.095307
	2413	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	20	13.460339
	2414	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	22	4.349945
	2415	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	65	9.761052
	2416	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	60	3.960204
	2417	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	27	0.010715
	2418	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	23	6.816614
	2419	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	61	3.978338
	2420	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	25	2.507113

	2421	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	67	5.173508
	2422	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	64	8.052675
	2423	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	24	9.631148
	2424	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	26	5.619394
	2425	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	71	7.847995
	2426	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	70	8.250422
	2427	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	19	14.648261
	2428	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	63	5.275619
	2429	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	69	9.486017
	2430	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	18	4.055027
	2431	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	72	5.166874
	2432	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	15	12.429609
	2433	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	14	10.988591
	2434	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	78	5.945495
	2435	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	28	0.463913
	2436	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	76	12.755365
	2437	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	17	6.799537
	2438	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	75	7.881856
	2439	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	79	9.762172
	2440	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	16	14.640605
	2441	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	152	2.954743
	2442	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	73	4.957013
	2443	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	77	9.543797
	2444	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	13	12.88636

	2445	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	86	7.342705
	2446	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	12	7.723725
	2447	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	84	7.507217
	2448	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	74	11.168208
	2449	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	85	9.293234
	2450	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	11	14.761745
	2451	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	87	4.657383
	2452	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	3	9.316037
	2453	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	83	10.266154
	2454	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	टैंक	0.016586
	2455	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	10	7.154737
	2456	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	90	4.895872
	2457	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	8	4.757409
	2458	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	1	8.502157
	2459	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	7	9.951007
	2460	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	88	4.618303
	2461	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	82	11.481875
	2462	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	89	5.842159
	2463	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	2/ए	6.39701
	2464	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	91	8.821913
	2465	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	149	10.119502
	2466	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	92	6.422103
	2467	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	4	11.889411
	2468	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	114	6.835536
	2469	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	95	7.832868

	2470	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	5	10.143458
	2471	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	बस्ती	3.948461
	2472	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	94	8.349135
	2473	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	2/बी	0.031052
	2474	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	93	6.807049
	2475	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	151	3.754523
	2476	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	115	1.724881
	2477	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	142	11.754966
	2478	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	सड़क	1.019512
	2479	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	148	7.551713
	2480	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	141	11.018748
	2481	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	113	2.057541
	2482	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	116	4.98433
	2483	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	150/1	4.071811
	2484	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	143	9.049536
	2485	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	109	9.997999
	2486	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	117	1.151824
	2487	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	144	11.424428
	2488	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	145	10.217064
	2489	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	118	1.192928
	2490	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	112	6.974356
	2491	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	98	7.54703
	2492	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	111	7.755464
	2493	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	110	10.185082

	2494	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	108	5.90882
	2495	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	147	2.905488
	2496	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	150/2	6.36323
	2497	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	120	10.211496
	2498	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	146	6.404659
	2499	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	107	14.739959
	2500	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	106	10.789829
	2501	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	121	10.074206
	2502	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	105	6.513717
	2503	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	137	15.160811
	2504	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	99	8.447914
	2505	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	138	7.361252
	2506	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	122	13.557557
	2507	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	104	8.179472
	2508	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	139	9.783766
	2509	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	103	4.708101
	2510	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	102	10.399808
	2511	शिराहट्टी	शिराहट्टी	जल्लिगेरी	101	5.913973
					योग	921.987784
24	2512	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	34	5.11304
	2513	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	33	5.772859
	2514	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	35	8.928795
	2515	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	36	8.785329
	2516	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	38	11.494689
	2517	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	58	5.880149
	2518	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	40	8.309219

	2519	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	10	7.308153
	2520	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	12	12.907686
	2521	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	57	12.952747
	2522	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	24	9.860999
	2523	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	39	9.86078
	2524	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	41	7.565705
	2525	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	सड़क	2.248518
	2526	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	धारा	14.249797
	2527	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	9	8.049736
	2528	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	सड़क	3.93535
	2529	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	8	8.971893
	2530	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	13	9.688366
	2531	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	23	10.459486
	2532	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	22	7.120015
	2533	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	21	8.198854
	2534	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	48	8.497225
	2535	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	42	9.26645
	2536	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	47	6.281871
	2537	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	5	10.494943
	2538	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	46	10.294626
	2539	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	14	7.941963
	2540	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	7	6.030965
	2541	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	163	6.554727
	2542	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	15	7.733805

	2543	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	45	8.462123
	2544	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	44	5.554035
	2545	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	43	9.673022
	2546	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	161	7.023197
	2547	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	6	9.06525
	2548	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	16	7.19456
	2549	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	सड़क	3.8185
	2550	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	4	3.466245
	2551	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	68	12.533912
	2552	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	20	9.125453
	2553	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	17	6.438527
	2554	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	162	8.560308
	2555	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	160	7.622329
	2556	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	18	13.448133
	2557	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	69	12.766512
	2558	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	3	11.744336
	2559	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	71	14.243974
	2560	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	92	9.783602
	2561	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	159	10.657131
	2562	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	158	14.006505
	2563	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	164	6.461896
	2564	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	19	7.3809
	2565	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	166	37.657803
	2566	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	165	3.681848
	2567	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	93	10.775614

	2568	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	168	3.417911
	2569	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	70	12.246124
	2570	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	91	8.24921
	2571	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	173	1.55214
	2572	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	2	4.860354
	2573	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	94	9.147462
	2574	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	86	10.444196
	2575	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	167	4.960282
	2576	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	156	8.754004
	2577	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	90	8.705256
	2578	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	95	12.305327
	2579	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	89	10.204154
	2580	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	143	6.552556
	2581	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	144	9.356768
	2582	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	174	0.251275
	2583	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	171	0.500767
	2584	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	1	5.971219
	2585	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	87	8.649077
	2586	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	142	6.384444
	2587	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	96	8.808474
	2588	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	139	7.874222
	2589	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	155	9.891378
	2590	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	बस्ती	3.253834
	2591	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	88	12.126663

	2592	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	97	10.1405
	2593	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	138	10.589363
	2594	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	137	10.142999
	2595	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	133	10.09405
	2596	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	132	6.352755
	2597	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	112	13.455962
	2598	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	129	5.977565
	2599	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	128	7.870404
	2600	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	98	9.65859
	2601	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	120	8.337505
	2602	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	121	7.001616
	2603	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	124	6.539669
	2604	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	111	6.235458
	2605	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	सड़क	1.094527
	2606	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	125	7.755139
	2607	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	145	6.645785
	2608	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	146	6.26406
	2609	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	154	4.680936
	2610	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	100	8.299083
	2611	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	170	1.359214
	2612	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	109	3.184743
	2613	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	172	1.906548
	2614	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	110	6.04662
	2615	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	99	11.415139
	2616	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	धारा	1.314608

	2617	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	सड़क	0.441454
	2618	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	108	1.68183
	2619	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	108	7.138833
	2620	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	102	2.493907
	2621	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	113	12.807199
	2622	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	149	7.242384
	2623	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	150	7.52697
	2624	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	114	9.170998
	2625	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	119	7.079197
	2626	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	122	10.266917
	2627	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	123	9.350656
	2628	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	126	8.550111
	2629	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	127	9.437626
	2630	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	130	8.711591
	2631	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	118	14.609898
	2632	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	131	7.634725
	2633	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	136	8.207743
	2634	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	147	7.851088
	2635	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	134	4.163877
	2636	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	135	4.129613
	2637	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	140	3.675816
	2638	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	141	3.921492
	2639	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	151	7.554683
	2640	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	148	11.748484

	2641	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	157	7.602589
	2642	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	153	15.498245
	2643	मुंदरगी	मुंडारागी	ज्यालावाडागी	152	5.001379
					योग	1062.233695
25	2644	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	सड़क	1.520813
	2645	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	51	8.577064
	2646	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	52	6.540909
	2647	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	53	6.348407
	2648	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	54	4.481698
	2649	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	57	6.240801
	2650	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	58	9.138892
	2651	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	59	6.883761
	2652	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	60	9.099744
	2653	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	61	11.160136
	2654	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	62	5.41177
	2655	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	63	8.210493
	2656	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	64	10.944263
	2657	मुंदरगी	मुंडारागी	कदमपुर	65	9.871378
					योग	104.430129
26	2658	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	3	5.326136
	2659	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	1.399503
	2660	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	3	2.94277
	2661	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	71	0.426267
	2662	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	1	1.241228
	2663	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	54	6.139179

	2664	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	0.339766
	2665	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	1	3.885681
	2666	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	0.226779
	2667	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	1	0.364547
	2668	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	47	6.531612
	2669	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	46	0.803886
	2670	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	1/ए	1.094625
	2671	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	56_किला	0.879245
	2672	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	44	8.760957
	2673	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	45	9.0386
	2674	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	50	8.870175
	2675	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	49	5.973938
	2676	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	48	5.758152
	2677	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	53	8.05163
	2678	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	52	1.283616
	2679	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	सड़क	0.375967
	2680	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	51	0.223318
	2681	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	0.173683
	2682	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	0.385308
	2683	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	51	5.101762
	2684	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	52	5.283237
	2685	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	39/पाई	0.22649
	2686	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	0.114565
	2687	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	39/पाई	3.048383

	2688	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	40/पाई	0.112314
	2689	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	0.010866
	2690	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	0.087889
	2691	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	धारा	0.012804
	2692	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	62	7.282602
	2693	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	सड़क	3.493581
	2694	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	40/ पाई	2.824857
	2695	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	41 / पाई	0.951907
	2696	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	61	7.005055
	2697	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	27	6.462152
	2698	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	44 / पाई	1.432552
	2699	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	28	5.470968
	2700	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	45 / पाई	0.456875
	2701	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	10	8.103749
	2702	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	41	5.349676
	2703	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	42	4.085907
	2704	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	40	4.438014
	2705	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	29/ पाई	0.793297
	2706	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	39	5.195309
	2707	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	26	3.977966
	2708	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	43	1.71236
	2709	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	29	7.339273
	2710	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	सड़क	1.982734
	2711	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	60	1.110857
	2712	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	28 / पाई	0.599577

	2713	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	25 / पाई	1.867215
	2714	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	30	11.495304
	2715	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	26/ पाई	2.902597
	2716	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	25/1/ पाई	0.152457
	2717	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	25	7.322661
	2718	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	11	4.484357
	2719	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	9	8.753668
	2720	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	24	6.284498
	2721	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	12	9.884712
	2722	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	8	8.491809
	2723	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	63	6.324534
	2724	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	65	6.175423
	2725	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	38अ	1.954374
	2726	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	64	3.524245
	2727	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	23	6.212548
	2728	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	14	6.839835
	2729	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	38 अ	7.807216
	2730	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	31_टैंक	0.823495
	2731	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	67	8.387596
	2732	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	13	10.982521
	2733	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	22	10.457407
	2734	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	59	0.318021
	2735	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	68	6.914746
	2736	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	37ए	6.270875

	2737	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	21	8.796865
	2738	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	7	11.736599
	2739	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	15	7.559227
	2740	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	37ए	3.076179
	2741	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	32ए	3.497327
	2742	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	58	0.850661
	2743	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	18	9.077107
	2744	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	19	10.352998
	2745	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	57	5.609846
	2746	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	32/बी2	0.013645
	2747	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	16	2.803685
	2748	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	17	8.977493
	2749	गडग	गडगा	कबलयाताकट्टी	20	1.548861
					योग	393.096753
27	2750	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	50	7.698117
	2751	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	52	20.142153
	2752	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	73	9.58672
	2753	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	84	14.587892
	2754	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	85	9.766397
	2755	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	86	4.991039
	2756	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	88	13.793075
	2757	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	87	10.324495
	2758	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	धारा	0.208352
	2759	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	8	8.568477
	2760	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कडाकोला	90	12.814913

	2761	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.306012
	2762	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	8	0.54298
	2763	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	76	11.506058
	2764	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	89	11.298025
	2765	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.624669
	2766	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	9	0.743442
	2767	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	1.512707
	2768	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	91	11.756148
	2769	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	92	11.064353
	2770	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	75	11.388206
	2771	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	74	8.648868
	2772	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	39	20.518124
	2773	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	38	21.453763
	2774	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	36	18.433508
	2775	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	37	20.023792
	2776	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	35	17.85819
	2777	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.674397
	2778	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	35	3.254996
	2779	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	34	8.870167
	2780	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	25	8.592407
	2781	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	26	7.537014
	2782	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.25993
	2783	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	33	7.208123
	2784	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	26	0.209409

	2785	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	31	5.546508
	2786	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.708642
	2787	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	20	9.574849
	2788	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	31	1.612591
	2789	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	21	10.599178
	2790	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	22	8.443597
	2791	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	24	6.121783
	2792	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	27	10.419621
	2793	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	30	4.111026
	2794	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.694864
	2795	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	30	2.165936
	2796	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	9	5.784936
	2797	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	23	8.088649
	2798	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	19	9.969564
	2799	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	10	8.38602
	2800	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	28	6.131098
	2801	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	22	0.086056
	2802	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	29	7.135201
	2803	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.281935
	2804	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	18	13.742777
	2805	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.704532
	2806	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	29	1.075528
	2807	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	7	0.793416
	2808	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.06982
	2809	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	7	8.520664

	2810	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.325813
	2811	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	22	0.015829
	2812	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.0909
	2813	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	5	8.279462
	2814	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	23	0.000876
	2815	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.463662
	2816	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.029819
	2817	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.114705
	2818	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	18	0.0181
	2819	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	9	0.003865
	2820	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	10	0.082585
	2821	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	11	6.026825
	2822	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.10052
	2823	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.581173
	2824	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	11	1.232762
	2825	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	18	0.088584
	2826	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	1.835129
	2827	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	97/1	2.815843
	2828	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	97/2	3.560701
	2829	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	96	5.197343
	2830	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	95	6.993414
	2831	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	2.009141
	2832	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	12-जनवरी	2.003275
	2833	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	93	6.10725

	2834	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	06-जनवरी	5.47172
	2835	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	17	5.460909
	2836	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	16	8.657208
	2837	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	12-फरवरी	6.993393
	2838	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	16	0.331082
	2839	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.628993
	2840	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	06-फरवरी	1.860941
	2841	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	15	11.565506
	2842	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	धारा	0.082201
	2843	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	16	0.024268
	2844	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	94	4.154596
	2845	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	4	3.261144
	2846	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	2.388238
	2847	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	03-फरवरी	3.257419
	2848	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	2	6.377822
	2849	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	13	6.001678
	2850	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	03-जनवरी	2.455445
	2851	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	98/1	1.728596
	2852	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	98/2	2.072653
	2853	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	99	3.31842
	2854	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	14	3.891604
	2855	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	100	11.395641
	2856	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	101	6.545761
	2857	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	2/ए	0.398034
	2858	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	102	4.282198

	2859	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	3.654639
	2860	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	128	4.250794
	2861	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	143	8.501861
	2862	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	127	8.111343
	2863	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	130	10.114343
	2864	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	142	7.085225
	2865	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	151	7.937197
	2866	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	126	3.20874
	2867	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	154	9.026244
	2868	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	153	6.271579
	2869	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	123	5.761819
	2870	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	141	8.724645
	2871	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	150	8.820624
	2872	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	125	7.401562
	2873	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	140	10.052507
	2874	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	131	4.509775
	2875	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	124	4.860501
	2876	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	122	5.313257
	2877	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	155	8.820049
	2878	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	139	5.666671
	2879	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	148	6.983902
	2880	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	105/1	1.821508
	2881	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	132	7.692595
	2882	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	105/2	2.595493

	2883	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	137	8.165546
	2884	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	171	7.299615
	2885	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	121	4.069927
	2886	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	138	8.508289
	2887	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	170	6.992604
	2888	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	104	2.755736
	2889	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	156	12.304184
	2890	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	0.275275
	2891	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	103	3.864043
	2892	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	169	5.619648
	2893	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	166	6.537512
	2894	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	106	7.312372
	2895	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	165	13.05993
	2896	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	120	6.027368
	2897	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	0.981749
	2898	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	133	6.598522
	2899	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	134	6.518848
	2900	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	172	6.193893
	2901	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	119	5.586737
	2902	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	1.052354
	2903	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	107	2.915694
	2904	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	108	8.838006
	2905	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	नहर	9.644569
	2906	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	118	4.825525
	2907	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	173	3.90601

	2908	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	116	11.370609
	2909	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	109	10.793465
	2910	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	115	8.534141
	2911	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	200	0.978348
	2912	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	174	3.554257
	2913	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	117	12.107485
	2914	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	158	5.208054
	2915	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	157	6.795621
	2916	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	111	11.052617
	2917	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	110	1.155714
	2918	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	114	6.210228
	2919	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	112	11.105574
	2920	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	113	8.02073
	2921	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	माजरे_होगली	2.224288
	2922	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	0.769683
	2923	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	199	6.436645
	2924	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	198	11.687903
	2925	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	197	7.18589
	2926	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	196	7.429807
	2927	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	205	6.002262
	2928	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	163	12.158968
	2929	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	162	12.491684
	2930	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	161	11.138045
	2931	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	160	11.228306

	2932	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	173	3.193441
	2933	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	2.540849
	2934	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	172	4.672478
	2935	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	168	14.026008
	2936	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	167	7.775112
	2937	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	175	6.998417
	2938	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	164	6.90741
	2939	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	194	12.928093
	2940	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	नहर	7.4578
	2941	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	193	8.361015
	2942	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	195	4.249659
	2943	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	176	3.946538
	2944	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	159	5.461307
	2945	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	2.763869
	2946	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	177	7.134628
	2947	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	192	11.495731
	2948	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	178/3	3.246181
	2949	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	178/2	2.837265
	2950	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	178/1	2.982007
	2951	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	179/1	6.644058
	2952	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	191/1	3.41663
	2953	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	191/2	4.516639
	2954	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	207	11.317916
	2955	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	179/2	2.645368
	2956	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	190	8.467072

	2957	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	180	9.629423
	2958	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	182	12.665532
	2959	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	189	10.932581
	2960	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	183	11.254007
	2961	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	181	8.737079
	2962	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	188	8.188282
	2963	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	184	11.927386
	2964	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	187	11.044085
	2965	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	230	5.378886
	2966	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	सड़क	3.282396
	2967	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	231	6.287727
	2968	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	232	5.657251
	2969	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	233	1.248644
	2970	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	234	4.693472
	2971	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	235	4.054164
	2972	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	1	1.238151
	2973	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	बस्ती	8.707268
	2974	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	228	8.180697
	2975	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	227	5.692915
	2976	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	226	3.033785
	2977	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	224	8.437462
	2978	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	223	8.1441
	2979	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	201	4.029004
	2980	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	202	5.018674

	2981	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	215	13.404871
	2982	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	203	5.770365
	2983	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	225	3.768241
	2984	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	222	4.432926
	2985	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	204	5.961388
	2986	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	221	2.956956
	2987	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	219	8.507053
	2988	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	218	5.626185
	2989	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कड़ाकोला	211	11.233327
					योग	1475.909682
28	2990	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	93	1.88093
	2991	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	91	3.097177
	2992	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	88	9.895716
	2993	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	85	7.538161
	2994	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	89	11.526977
	2995	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	83	7.252718
	2996	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	82	101.549511
	2997	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	87	8.609751
	2998	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	90	9.858991
	2999	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	86	9.003164
	3000	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	84	8.398014
	3001	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	69	3.903189
	3002	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	70	4.429845
	3003	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	74	8.838535
	3004	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	73/अ	2.484949

	3005	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	71	1.214123
	3006	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	73	2.341536
	3007	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	205	4.165885
	3008	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	72	4.370816
	3009	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	धारा	0.17869
	3010	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	धारा	0.371927
	3011	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	72	0.547828
	3012	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	75	93.767873
	3013	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	धारा	0.612044
	3014	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	धारा	0.000317
	3015	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	77	55.789646
	3016	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	81	12.190849
	3017	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	धारा	0.000111
	3018	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	76	98.32294
	3019	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	80	8.417489
	3020	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	79	7.448735
	3021	मुंदरगी	मुंडारागी	कालकेरी	78	8.793049
					योग	496.801486
29	3022	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	60	8.34803
	3023	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	61	5.081699
	3024	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	64	12.347057
	3025	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	65	9.03903
	3026	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	66	8.95335
	3027	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	59	9.880685

	3028	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	67	6.063183
	3029	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	32	11.639747
	3030	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	31	7.203865
	3031	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	62	11.864905
	3032	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	30	1.385813
	3033	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	28	5.882112
	3034	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	29	11.358484
	3035	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	63	5.139091
	3036	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	27	12.00832
	3037	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	सड़क	0.3959
	3038	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	26	3.337472
	3039	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	73	2.283373
	3040	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	74	9.8878
	3041	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	24	6.648675
	3042	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	23	4.711748
	3043	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	25	4.403688
	3044	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	22	5.368441
	3045	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	21	6.608326
	3046	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	1	6.623456
	3047	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	बस्ती	1.424209
	3048	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	20	6.372924
	3049	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	10	12.834217
	3050	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	18	2.729049
	3051	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	19	3.767264
	3052	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	धारा	2.668905

	3053	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	7	5.995543
	3054	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	सड़क	1.466271
	3055	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	11	9.030686
	3056	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	17	2.569171
	3057	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	15	0.88941
	3058	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	16	2.746079
	3059	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	2	4.048428
	3060	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	3	3.635357
	3061	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	14	6.487021
	3062	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	4	9.179631
	3063	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	12	8.232384
	3064	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	8	7.294333
	3065	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	6	12.547553
	3066	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	9	8.068485
	3067	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	13	5.810887
	3068	मुंदरगी	दंबला	केलूरा	5	11.520048
					योग	305.782105
30	3069	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	12	2.666129
	3070	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	धारा	4.99547
	3071	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	11	5.851307
	3072	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	13	3.27975
	3073	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	98	2.827095
	3074	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	14	10.425072
	3075	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	15	13.361693

	3076	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	16	5.259071
	3077	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	9	0.121368
	3078	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	24	10.803844
	3079	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	17	10.289478
	3080	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	23	8.357228
	3081	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	25	31.568799
	3082	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	22	6.874789
	3083	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	21	4.935882
	3084	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	26	1.101396
	3085	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	29	0.211022
	3086	शिराहट्टी	शिराहट्टी	केरीहल्ली	30	2.124494
					योग	125.053887
31	3087	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.533744
	3088	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.220273
	3089	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.641258
	3090	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.889251
	3091	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.609128
	3092	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.147591
	3093	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.745868
	3094	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.651869
	3095	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.745238
	3096	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.832604
	3097	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.965263
	3098	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	धारा	0.242384
	3099	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	98	5.434741

	3100	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	97	3.258827
	3101	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	96	6.525573
	3102	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	94	0.00945
	3103	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	99	7.980681
	3104	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	94 ए	1.798601
	3105	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	109	5.098552
	3106	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	95	3.720224
	3107	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	100	6.041333
	3108	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	107	4.941997
	3109	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	106	4.146988
	3110	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	109	0.322158
	3111	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	108	0.122536
	3112	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	108	5.254261
	3113	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	101	4.47557
	3114	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	107	5.46576
	3115	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	105	5.013093
	3116	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	106	6.112644
	3117	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	102	7.682191
	3118	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	105	1.210425
	3119	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	116	0.066955
	3120	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	117	7.58603
	3121	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	118	10.478237
	3122	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	104	5.648151
	3123	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	104	0.037091

	3124	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	103	3.869494
	3125	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	103	4.354451
	3126	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	120	6.011751
	3127	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	119	6.307499
	3128	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	155	7.34392
	3129	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	121	7.382601
	3130	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	122	2.931726
	3131	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	154	12.118764
	3132	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	127 ए	4.643553
	3133	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	157	0.003852
	3134	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	127 ए	4.198021
	3135	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	156	1.297103
	3136	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	123	7.422941
	3137	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	156	7.22014
	3138	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	153	0.590288
	3139	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	153	8.495063
	3140	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	152	2.049459
	3141	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	151	9.395669
	3142	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	152	4.088748
	3143	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	151	0.426701
	3144	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	150	5.696401
	3145	मुंदरगी	मुंडारागी	कोरलाहल्ली	150	0.040378
					योग	221.545063
32	3146	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	38	8.881533
	3147	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	40	11.97685

	3148	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	34	9.471898
	3149	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	39	6.100513
	3150	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	42	10.320784
	3151	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	43	6.979679
	3152	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	59	6.313775
	3153	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	55	11.211588
	3154	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	45	8.839208
	3155	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	60	12.313593
	3156	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	61	10.490913
	3157	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	44	7.43622
	3158	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	63	10.102729
	3159	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	36	6.831821
	3160	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	64	13.494622
	3161	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	66	8.632662
	3162	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	67	5.100591
	3163	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	37	9.162072
	3164	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	30	10.814804
	3165	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	29	7.476435
	3166	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	58	7.760091
	3167	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	31	8.708539
	3168	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	35	8.297582
	3169	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	46	7.006231
	3170	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	51	7.619216
	3171	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	65	9.626084
	3172	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	141	0.496296

	3173	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	68	4.590082
	3174	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	28	6.93156
	3175	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	32	1.361331
	3176	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	50	7.146676
	3177	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	33	45.898433
	3178	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	47	7.606707
	3179	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	69	10.249497
	3180	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	53	9.804438
	3181	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	26	8.831152
	3182	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	62	4.980616
	3183	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	70	6.370241
	3184	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	75	8.232826
	3185	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	सड़क	2.358516
	3186	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	76	10.071625
	3187	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	48	4.101175
	3188	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	49	4.811389
	3189	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	25	7.678789
	3190	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	77	6.975381
	3191	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	78	8.940436
	3192	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	74	7.271576
	3193	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	73	4.77079
	3194	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	24	1.897537
	3195	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	78ए	1.515633
	3196	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	79	3.388205
	3197	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	23	5.910781

	3198	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	80	9.772793
	3199	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	71	9.943478
	3200	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	18	9.951267
	3201	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	6	1.49249
	3202	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	72	5.092447
	3203	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	81	7.236384
	3204	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	94	6.279501
	3205	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	5	2.468132
	3206	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	22	4.678783
	3207	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	17	1.479587
	3208	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	7	1.177233
	3209	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	93	9.851384
	3210	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	97	12.127455
	3211	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	8	0.605037
	3212	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	92	8.754861
	3213	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	9	0.895845
	3214	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	21	6.944499
	3215	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	4	3.934121
	3216	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	16	1.247697
	3217	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	10	1.745912
	3218	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	1	7.199578
	3219	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	91	4.514664
	3220	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	20	0.277535
	3221	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	83	2.739316

	3222	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	सड़क	2.888819
	3223	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	11	2.344662
	3224	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	15	1.127034
	3225	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	95	9.040564
	3226	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	90	4.536004
	3227	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	96	1.943518
	3228	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	98	3.341191
	3229	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	19	4.82535
	3230	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	14	1.231518
	3231	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	89	4.383429
	3232	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	84	3.506333
	3233	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	88	3.730954
	3234	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	87	6.147889
	3235	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	13	1.18106
	3236	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	सड़क	0.062954
	3237	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	3	2.523106
	3238	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	101	3.787234
	3239	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	12	1.438305
	3240	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	137	1.816384
	3241	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	102	2.741962
	3242	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	138	2.544518
	3243	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	139	1.63282
	3244	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	140	2.382799
	3245	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	136	3.600572
	3246	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	103	4.009011

	3247	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	104	10.449139
	3248	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	85	1.45866
	3249	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	2	2.568618
	3250	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	सड़क	0.338336
	3251	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	126	2.039555
	3252	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	86	7.292693
	3253	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	140ए	0.517146
	3254	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	125	3.948724
	3255	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	बस्ती	4.631357
	3256	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	135	0.267412
	3257	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	127	2.298137
	3258	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	106	2.531841
	3259	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	107	6.360132
	3260	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	105	5.446562
	3261	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	128	0.87157
	3262	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	124	2.581362
	3263	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	123	3.400532
	3264	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	108	7.599839
	3265	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	कुन्द्राली	109	0.803385
					योग	685.74471
33	3266	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	88	10.014786
	3267	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	82	5.205742
	3268	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	68	6.218033
	3269	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	83	5.346514

	3270	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	87	6.429055
	3271	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	93	7.536343
	3272	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	86	7.720707
	3273	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	94	8.460068
	3274	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	67	4.001158
	3275	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	85	5.709846
	3276	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	धारा	11.303894
	3277	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	100	0.417741
	3278	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	66	13.042113
	3279	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	96	8.216994
	3280	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	97	4.548736
	3281	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	2	8.268077
	3282	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	71	8.746456
	3283	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	98	6.93862
	3284	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	99	6.674265
	3285	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	63	12.996321
	3286	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	65	8.350677
	3287	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	64	8.922808
	3288	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	6	12.112147
	3289	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	बस्ती	1.275686
	3290	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	1	6.417696
	3291	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	सड़क	0.975801
	3292	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	44	5.942065
	3293	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	सड़क	3.551012
	3294	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	43	8.595324

	3295	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	42	3.729618
	3296	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	41	5.014983
	3297	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	32	4.785916
	3298	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	31	5.060907
	3299	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	23	13.598276
	3300	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	30	5.444797
	3301	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	59	12.155003
	3302	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	24	5.126643
	3303	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	25	12.981267
	3304	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	45	11.833696
	3305	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	22	13.599071
	3306	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	62	4.446111
	3307	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	57	6.408436
	3308	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	58	4.014205
	3309	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	60	4.090898
	3310	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	40	7.027134
	3311	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	21	13.259877
	3312	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	धारा	10.652559
	3313	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	13	9.021779
	3314	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	61	6.838629
	3315	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	धारा	0.398909
	3316	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	धारा	0.784054
	3317	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	33	7.330749
	3318	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	55	6.740538

	3319	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	46	9.384779
	3320	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	31	0.267375
	3321	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	20	12.090053
	3322	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	39	10.423182
	3323	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	30	0.585624
	3324	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	29	8.488328
	3325	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	19	4.808262
	3326	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	54	4.573871
	3327	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	56	7.08225
	3328	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	26	6.29288
	3329	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	16	9.867169
	3330	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	15	8.92339
	3331	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	53	10.07456
	3332	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	34	6.322411
	3333	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	47	5.659873
	3334	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	28	8.790867
	3335	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	38	4.198852
	3336	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	27	5.791728
	3337	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	37	10.617981
	3338	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	49	9.171079
	3339	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	18	10.261129
	3340	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	36	12.53806
	3341	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	35	5.85418
	3342	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	52	4.400082
	3343	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	17	7.643529

	3344	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	48	4.572993
	3345	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	50	8.325068
	3346	शिराहट्टी	शिराहट्टी	कुसलपुरा	51	3.496354
					योग	578.788649
34	3347	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	80	249.86318
	3348	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	86	14.507597
	3349	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	87	12.557581
	3350	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	88	8.160167
	3351	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	90	8.019048
	3352	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	94	9.152312
	3353	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	95	7.340438
	3354	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	96	3.668278
	3355	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	83	10.920127
	3356	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	89	8.892562
	3357	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	97	4.525942
	3358	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	98	7.5699
	3359	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	84	12.073651
	3360	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	82	12.375795
	3361	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	85	9.532816
	3362	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	91	9.839276
	3363	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	81	5.876277
	3364	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	81/ए	1.44013
	3365	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	99	8.823951
	3366	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	81/बी	1.4254

	3367	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	81/सी	1.448163
	3368	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	92	3.183544
	3369	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	93	4.109957
	3370	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	100	6.557479
	3371	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	101	5.866872
	3372	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	78/2	3.264802
	3373	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	78/3	3.162434
	3374	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	78/1	5.910273
	3375	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	77	1.644495
	3376	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	79	6.172462
	3377	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	102	6.167852
	3378	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	76	5.36425
	3379	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	75	4.998986
	3380	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	74	6.396197
	3381	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	73	3.18149
	3382	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	9	3.383699
	3383	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	8	8.752814
	3384	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	103	7.697883
	3385	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	7	7.141143
	3386	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	104	0.78543
	3387	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	6	7.708619
	3388	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	2	1.81067
	3389	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	1	3.08911
	3390	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	103/ए	0.31076
	3391	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	19/ए	47.3895

	3392	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	बस्ती	3.650941
	3393	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	03-मार्च	1.815881
	3394	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	03-जनवरी	3.896587
	3395	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	71	6.641933
	3396	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	70	1.56408
	3397	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	19/बी	0.059865
	3398	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	03-फरवरी	1.756782
	3399	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	69	7.810333
	3400	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	106	8.791525
	3401	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	68	2.643577
	3402	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	4	3.336209
	3403	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	5	3.977644
	3404	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	65	0.641899
	3405	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	66	5.664007
	3406	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	10	7.365234
	3407	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	11-जनवरी	4.028256
	3408	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	67	9.643711
	3409	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	11-फरवरी	3.071381
	3410	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	61	2.29897
	3411	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	12	8.070383
	3412	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	13	12.814252
	3413	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	60/1	1.021676
	3414	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	60/2	1.109111
	3415	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	59	2.201328

	3416	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	14	9.964219
	3417	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	58	1.384978
	3418	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	15	1.255004
	3419	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	57	0.815985
	3420	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	17	9.77615
	3421	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	16	0.347334
	3422	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	56	0.011701
	3423	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	18	13.225245
	3424	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	23	0.018138
	3425	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	20	6.534508
	3426	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	27	7.038915
	3427	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	21	10.715504
	3428	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	22	1.484811
	3429	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	28	7.837355
	3430	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	25	0.91325
	3431	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	30	7.064876
	3432	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	31	9.361051
	3433	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	26	0.093977
	3434	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	29	3.504182
	3435	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	32	4.29121
	3436	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	36	7.583254
	3437	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मैकेनाहल्ली	35	0.722259
					योग	769.882783
35	3438	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	मगदी	धारा	0.993217
	3439	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	मगदी	95	8.514367

	3440	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	मगदी	96	8.126188
	3441	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	मगदी	97	4.067095
	3442	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	मगदी	98	9.639565
	3443	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	मगदी	98	0.357391
	3444	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	मगदी	99	6.803213
	3445	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	मगदी	99	1.902469
					योग	40.403505
36	3446	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	39	6.242239
	3447	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	35	6.614931
	3448	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	38	6.540045
	3449	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	61	7.510418
	3450	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	60	8.055911
	3451	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	57	7.112199
	3452	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	36	13.287971
	3453	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	37/1	9.216546
	3454	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	37/2	4.827878
	3455	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	64	6.582991
	3456	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	63	6.690603
	3457	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	74	6.88122
	3458	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	59	7.203414
	3459	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	75	3.963958
	3460	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	65	4.710337
	3461	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	70	8.608651
	3462	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	71	11.894148

	3463	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	82	12.214884
	3464	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	81	8.014755
	3465	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	सड़क	1.030172
	3466	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	86	12.967068
	3467	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	87	10.382109
	3468	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	12.630537
	3469	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	24	6.700351
	3470	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	26	8.841557
	3471	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	25	7.379049
	3472	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	27	3.892652
	3473	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	15	7.118844
	3474	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	16	8.913432
	3475	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	19	10.51371
	3476	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	17	9.305784
	3477	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	29	1.421663
	3478	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	28	6.012442
	3479	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	18	6.887104
	3480	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	12	20.543453
	3481	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	1	8.506956
	3482	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	11	19.306276
	3483	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	69	9.676202
	3484	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	14	8.261535
	3485	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	3	12.21074
	3486	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	सड़क	0.674365
	3487	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	2	5.202189

	3488	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	13	4.844534
	3489	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	7	5.351038
	3490	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	171	0.086119
	3491	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	170	6.379633
	3492	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	5	6.278442
	3493	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	8	8.80226
	3494	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	बस्ती	3.765715
	3495	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	9	19.709306
	3496	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	6	6.818057
	3497	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	88	4.655883
	3498	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	10	8.020157
	3499	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	4	8.074131
	3500	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	169	4.180428
	3501	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	सड़क	2.148433
	3502	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	152	2.541011
	3503	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	168	6.168601
	3504	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	151	4.828397
	3505	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	89	6.468753
	3506	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	167	2.945576
	3507	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	153	5.806284
	3508	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	166	9.294351
	3509	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	165	18.61696
	3510	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	154	5.614024
	3511	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	156	3.967824

	3512	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	155	9.858987
	3513	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	158	7.901066
	3514	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	164	16.415344
	3515	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	157	6.19523
	3516	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	सड़क	0.316664
	3517	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	8.248091
	3518	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	95	7.1851
	3519	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	94	6.7685
	3520	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	96	7.742331
	3521	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	97	7.884477
	3522	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	93	8.368435
	3523	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	98	11.600954
	3524	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	101	11.726918
	3525	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	100	4.983102
	3526	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	99	8.258719
	3527	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	92	11.553037
	3528	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	90	4.431463
	3529	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	XX	0.445777
	3530	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	107	7.508866
	3531	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	102	10.402118
	3532	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	106	6.217139
	3533	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	105	8.47327
	3534	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	159	10.780712
	3535	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	147	4.981826
	3536	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	160	20.559049

	3537	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	146	4.787428
	3538	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	0.996119
	3539	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	113	10.015639
	3540	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	146	15.61087
	3541	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	104	7.789186
	3542	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	103	9.407456
	3543	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	145	13.914554
	3544	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	161	19.423735
	3545	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	127	12.648972
	3546	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	114	12.043423
	3547	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	116	1.601184
	3548	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	115	6.470282
	3549	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	0.655914
	3550	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	145	3.30326
	3551	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	144	20.384361
	3552	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	124	8.201047
	3553	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	125	0.002597
	3554	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	142	19.142585
	3555	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	126	9.684708
	3556	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	0.133358
	3557	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	142	0.107304
	3558	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	143	18.381581
	3559	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	129	7.959541
	3560	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	0.553645

	3561	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	143	0.62293
	3562	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	141	19.432002
	3563	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	140	0.506314
	3564	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	0.377732
	3565	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	140	18.173045
	3566	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	0.241997
	3567	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	138	16.340261
	3568	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	141	0.20507
	3569	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	0.548944
	3570	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	138	2.259943
	3571	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	137	20.223369
	3572	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	132	15.602535
	3573	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	139	15.602858
	3574	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	धारा	0.409429
	3575	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	139	3.628118
	3576	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	136	16.801511
	3577	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	133	18.453631
	3578	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	134	11.793616
	3579	शिराहट्टी	शिराहट्टी	मज्जुरा	135	16.612843
					योग	1089.779278
37	3580	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	15	7.637368
	3581	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	13	6.314283
	3582	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	सड़क	0.835755
	3583	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	14	7.595928
	3584	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	12	9.307154

	3585	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	27	7.985175
	3586	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	11	5.077529
	3587	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	22	7.746169
	3588	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	23	4.951884
	3589	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	24	4.897904
	3590	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	9	7.971646
	3591	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	25	4.138986
	3592	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	26	4.459237
	3593	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	10	7.392298
	3594	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	28	7.501019
	3595	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	35	7.621266
	3596	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	धारा	23.250458
	3597	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	7	1.562592
	3598	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	164	5.753088
	3599	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	8	0.494633
	3600	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	165	4.523405
	3601	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	34	5.178169
	3602	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	32	6.001466
	3603	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	33	6.848102
	3604	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	166	2.78507
	3605	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	2	4.91622
	3606	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	29	7.307182
	3607	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	3	7.406162
	3608	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	167	2.937539

	3609	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	168	4.806705
	3610	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	6	0.412231
	3611	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	169	4.879165
	3612	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	42	7.128741
	3613	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	5	1.021576
	3614	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	170	3.945468
	3615	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	सड़क	1.954389
	3616	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	50	2.731261
	3617	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	51	4.094992
	3618	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	49	3.435535
	3619	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	48	6.956722
	3620	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	47	4.915526
	3621	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	46	3.976832
	3622	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	4	2.641163
	3623	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	52	2.272268
	3624	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	53	8.650785
	3625	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	45	6.703027
	3626	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	1	3.056767
	3627	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	171	1.927839
	3628	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	174	0.15774
	3629	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	172	1.947719
	3630	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	62	7.755268
	3631	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	63	8.327166
	3632	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	68/ए	1.832275
	3633	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	सड़क	0.591442

	3634	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	173	1.840586
	3635	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	68/बी	1.326533
	3636	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	162	0.795873
	3637	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	68/सी	1.789701
	3638	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	163	1.338234
	3639	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	68/डी	1.941019
	3640	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	30	0.277439
	3641	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	31	1.957881
	3642	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	69	7.377445
	3643	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	120	1.302732
	3644	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	61	1.131336
	3645	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	119	1.316531
	3646	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	158	1.16683
	3647	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	116	1.185781
	3648	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	बस्ती	6.654431
	3649	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	157	0.743316
	3650	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	115	1.606968
	3651	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	156	0.688554
	3652	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	55	0.372896
	3653	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	56	0.409781
	3654	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	70	6.362771
	3655	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	57	0.797347
	3656	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	58	0.434192
	3657	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	54	0.064413

	3658	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	155	0.633172
	3659	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	112	1.383558
	3660	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	60	0.969079
	3661	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	154	0.284227
	3662	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	129	0.154959
	3663	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	153	0.000884
	3664	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	59	0.240319
	3665	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	128	0.122519
	3666	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	111	1.042289
	3667	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	सड़क	0.723418
	3668	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	122	1.6522
	3669	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	108	1.091168
	3670	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	107	1.314239
	3671	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	103	1.67227
	3672	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	78	6.604198
	3673	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	71	9.351595
	3674	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	104	2.72777
	3675	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	65	0.291905
	3676	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	126	0.000218
	3677	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	64	0.108509
	3678	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	66	0.48308
	3679	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	100	1.80206
	3680	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	99	1.580637
	3681	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	96	1.625397
	3682	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	125	0.415933

	3683	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	95	1.76715
	3684	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	67	1.653206
	3685	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	86	1.050559
	3686	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	121	0.817584
	3687	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	85	2.509674
	3688	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	118	0.774481
	3689	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	117	0.625092
	3690	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	87	0.714274
	3691	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	114	0.801288
	3692	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	123	0.483651
	3693	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	88	1.563402
	3694	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	113	0.627809
	3695	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	83	0.853024
	3696	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	81	2.536828
	3697	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	110	0.561637
	3698	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	82	0.595671
	3699	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	89	0.494453
	3700	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	90	0.443565
	3701	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	109	0.336416
	3702	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	77	4.468318
	3703	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	79	1.280775
	3704	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	106	0.206812
	3705	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	105	0.124169
	3706	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	77	0.309951

	3707	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	77	0.091302
	3708	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	75	0.208542
	3709	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	सड़क	0.000032
	3710	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	44	4.044833
	3711	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	43	3.387571
	3712	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	72	0.882037
	3713	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	32	0.305924
	3714	मुंदरगी	मुंडारागी	मल्लिकार्जुनपुरा	सड़क	0.764312
					योग	390.962824
38	3715	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	173	5.581149
	3716	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	174	9.647856
	3717	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	175	7.476807
	3718	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	176	9.602318
	3719	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	177	4.84481
	3720	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	178	7.895831
	3721	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	179	8.435548
	3722	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	180	6.144541
	3723	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	181	6.739315
	3724	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	182	8.252213
	3725	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	183	6.612559
	3726	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	184	6.151643
	3727	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	185	7.447071
	3728	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	220	6.111403
	3729	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	221	2.982229
	3730	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	222	15.362492

	3731	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	223	7.787849
	3732	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	224	6.324506
	3733	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	225	6.718337
	3734	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	226	10.558935
	3735	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	227	6.419948
	3736	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	228	6.123857
	3737	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	229	8.748072
	3738	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	230	9.872888
	3739	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	231	9.819074
	3740	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	232	4.624917
	3741	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	219	1.046515
	3742	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	217	0.840255
	3743	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	सड़क	1.127568
	3744	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	164	1.535396
	3745	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	172	1.819849
	3746	मुंदरगी	दंबला	मेवुंडी	171	1.197392
					योग	203.853143
39	3747	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	धारा	23.674567
	3748	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	151	9.296484
	3749	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	149	2.911769
	3750	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	150	12.353246
	3751	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	155	7.591576
	3752	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	154	5.721056
	3753	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	8	5.306605

	3754	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	147	8.161225
	3755	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	10	11.776334
	3756	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	153	2.501502
	3757	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	11	9.30552
	3758	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	158	8.143642
	3759	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	139	11.440397
	3760	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	138	9.450936
	3761	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	12	5.046797
	3762	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	144	9.570492
	3763	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	13	5.399562
	3764	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	159	5.953012
	3765	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	137	13.009255
	3766	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	14	5.507058
	3767	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	145	1.679561
	3768	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	146	5.000736
	3769	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	15	9.740935
	3770	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	140	9.278372
	3771	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	सड़क	0.692177
	3772	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	165	7.235612
	3773	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	160	5.405819
	3774	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	16	3.392338
	3775	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	17	9.529192
	3776	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	136	8.268119
	3777	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	143	9.213524
	3778	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	3	2.344349

	3779	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	18	12.558512
	3780	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	161	12.059748
	3781	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	142	3.02671
	3782	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	135	12.719778
	3783	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	20	6.677822
	3784	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	21	11.304487
	3785	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	134	3.103537
	3786	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	2	8.588672
	3787	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	22	11.180655
	3788	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	141	4.840486
	3789	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	130	5.000164
	3790	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	131	7.242565
	3791	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	162	9.013387
	3792	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	129	0.525842
	3793	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	132	10.538831
	3794	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	23	4.705158
	3795	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	133	13.54974
	3796	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	120	8.18943
	3797	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	25	4.258168
	3798	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	सड़क	2.052677
	3799	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	24	12.430574
	3800	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	121	7.92933
	3801	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	26	6.147673
	3802	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	27	6.037872

	3803	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	163	8.800125
	3804	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	सड़क	0.606587
	3805	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	29	3.406578
	3806	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	28	9.398753
	3807	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	122	5.05601
	3808	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	126	4.85967
	3809	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	30	5.051339
	3810	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	125	4.6112
	3811	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	118	5.481093
	3812	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	119	0.865213
	3813	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	123	1.331004
	3814	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	31	4.735835
	3815	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	171	9.208955
	3816	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	127	0.001023
	3817	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	33	9.761963
	3818	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	32	9.03213
	3819	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	117	1.461064
	3820	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	बस्ती	6.271676
	3821	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	1	0.978466
	3822	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	116	0.772741
	3823	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	34	6.479053
	3824	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	166	1.534619
	3825	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	114	0.077697
	3826	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	164	0.922911
	3827	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	35	2.968551
	3828	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	170	0.162254

	3829	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	167	1.45511
	3830	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	59	0.65692
	3831	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	सड़क	0.007752
	3832	मुंदरगी	मुंडारागी	मुण्डावाडा	36	0.0808
					योग	533.620679
40	3833	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	15	6.590605
	3834	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	17	11.907494
	3835	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	16	10.063123
	3836	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	12	4.642449
	3837	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	18	12.882637
	3838	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	28	5.06966
	3839	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	27	12.531439
	3840	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	26	13.33986
	3841	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	44977	7.948213
	3842	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	19	11.559052
	3843	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	9	11.522054
	3844	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	29	11.682539
	3845	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	30	0.823491
	3846	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	8	4.53006
	3847	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	7	4.237633
	3848	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	6	14.636918
	3849	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	44946	2.191899
	3850	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	31	1.874853
	3851	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	106	15.011991
	3852	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	25	8.691546

	3853	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	32	3.233748
	3854	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	33	3.821132
	3855	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	23	7.643563
	3856	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	24	3.522933
	3857	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	21	7.220713
	3858	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	धारा	1.425461
	3859	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	104	0.016617
	3860	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	धारा	3.950997
	3861	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	104	8.353838
	3862	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	103	12.012666
	3863	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	22	3.366068
	3864	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	3	3.197468
	3865	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	4	7.7653
	3866	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	34	7.413029
	3867	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	5	2.314187
	3868	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	102	12.359187
	3869	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	107	8.266071
	3870	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	35	8.660723
	3871	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	2/ए	3.173695
	3872	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	40	11.802353
	3873	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	101	11.760171
	3874	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	39	4.630193
	3875	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	99	8.33611
	3876	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	2/बी	2.157589
	3877	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	38	5.291726

	3878	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	36	2.494186
	3879	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	100	11.709669
	3880	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	1	10.295917
	3881	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	सड़क	0.634705
	3882	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	98	9.542934
	3883	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	37	7.151197
	3884	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	97	6.667482
	3885	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	96	10.7344
	3886	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	41	9.561195
	3887	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	108	0.143124
	3888	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	95	11.655366
	3889	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	109/ए	0.172922
	3890	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	109/बी	0.275583
	3891	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	65	9.34377
	3892	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	42	8.748217
	3893	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	बस्ती	0.191523
	3894	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	44	7.929813
	3895	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	64	10.245112
	3896	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	45	10.649592
	3897	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	66	7.787659
	3898	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	63	2.831475
	3899	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	46	0.281994
	3900	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	43	3.484607
	3901	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	62	9.181414

	3902	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	67	8.957709
	3903	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	47	1.535227
	3904	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	सड़क	0.522793
	3905	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	52	10.791314
	3906	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	68	11.214092
	3907	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	48	8.928866
	3908	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	49	14.630033
	3909	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	61	11.357796
	3910	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	51	0.150236
	3911	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	53	3.414289
	3912	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	50	14.257995
	3913	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	60	10.524759
	3914	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	54	7.957181
	3915	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	55	7.17726
	3916	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	57	10.43552
	3917	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	58	5.365277
	3918	मुंदरगी	दंबला	मुरादी	56	0.771371
					योग	603.138628
41	3919	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	11	1.610392
	3920	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	12	2.229349
	3921	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	10	0.792601
	3922	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	18	0.48921
	3923	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	7	1.049824
	3924	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	6	0.895234
	3925	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	5	0.167792

	3926	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	23	9.309477
	3927	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	24	9.013282
	3928	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	25	11.396345
	3929	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	20	1.699101
	3930	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	22	8.174422
	3931	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	29	7.545596
	3932	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	30	9.552819
	3933	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	27	7.739889
	3934	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	14	7.544076
	3935	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	21	10.680102
	3936	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	8	2.032278
	3937	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	28	4.554967
	3938	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	सड़क	1.861901
	3939	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	31	7.030447
	3940	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	40	8.652225
	3941	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	13	3.906114
	3942	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	32	9.084932
	3943	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	सड़क	0.644416
	3944	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	धारा	5.995426
	3945	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	39	5.87061
	3946	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	41	6.788725
	3947	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	34	6.615873
	3948	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	33	5.952266
	3949	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	43	1.559867

	3950	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	42	8.965355
	3951	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	38	7.39428
	3952	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	सड़क	0.36386
	3953	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	44	2.080984
	3954	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	35	9.692067
	3955	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	45	11.249374
	3956	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	47	2.55863
	3957	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	1	0.253885
	3958	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	46	8.427796
	3959	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	48	1.562236
	3960	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	37	8.857018
	3961	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	50	8.370255
	3962	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	49	11.231242
	3963	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	बस्ती	0.774424
	3964	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	36	5.557579
	3965	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	51	5.429027
	3966	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	62	9.31571
	3967	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	सड़क	2.07801
	3968	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	68	3.348372
	3969	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	60	8.96967
	3970	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	61	6.32524
	3971	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	67	6.522959
	3972	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	63	8.404636
	3973	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	66	6.536326
	3974	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	58	4.067074

	3975	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	64	5.264172
	3976	मुंदरगी	मुंडारागी	मुश्तिकोप्पा	65	3.693451
					योग	317.733215
42	3977	गडग	गडगा	नभापुरा	13एन«1	41.633136
	3978	गडग	गडगा	नभापुरा	17	84.23172
	3979	गडग	गडगा	नभापुरा	14	2.868369
	3980	गडग	गडगा	नभापुरा	धारा	4.36271
	3981	गडग	गडगा	नभापुरा	16	3.412988
	3982	गडग	गडगा	नभापुरा	24ए	4.481233
	3983	गडग	गडगा	नभापुरा	24/बी	3.26631
	3984	गडग	गडगा	नभापुरा	18	8.282692
	3985	गडग	गडगा	नभापुरा	15	5.17152
	3986	गडग	गडगा	नभापुरा	15ए	57.638699
	3987	गडग	गडगा	नभापुरा	21ए 1	40.116068
	3988	गडग	गडगा	नभापुरा	28ए	4.555862
	3989	गडग	गडगा	नभापुरा	27	52.236939
	3990	गडग	गडगा	नभापुरा	सड़क	0.694214
	3991	गडग	गडगा	नभापुरा	26	5.012968
	3992	गडग	गडगा	नभापुरा	28ए	44.411254
	3993	गडग	गडगा	नभापुरा	23	6.872648
	3994	गडग	गडगा	नभापुरा	34ए /1ए 1ए	18.847839
	3995	गडग	गडगा	नभापुरा	39	0.589439
	3996	गडग	गडगा	नभापुरा	28/ ए 2	0.108417
	3997	गडग	गडगा	नभापुरा	21 ए 2	11.419604

	3998	गडग	गडगा	नभापुरा	20	5.681432
	3999	गडग	गडगा	नभापुरा	22	1.839164
	4000	गडग	गडगा	नभापुरा	21 ए	6.079688
	4001	गडग	गडगा	नभापुरा	14 ए	12.094663
	4002	गडग	गडगा	नभापुरा	28/ ए 3	0.561035
	4003	गडग	गडगा	नभापुरा	38	4.216178
	4004	गडग	गडगा	नभापुरा	29	4.320672
	4005	गडग	गडगा	नभापुरा	34/ ए	0.603217
	4006	गडग	गडगा	नभापुरा	34/ ए/2	1.254181
	4007	गडग	गडगा	नभापुरा	28/सी4	0.241022
	4008	गडग	गडगा	नभापुरा	21/ ए 2/ ए	4.442666
	4009	गडग	गडगा	नभापुरा	1/ ए 1	0.961616
	4010	गडग	गडगा	नभापुरा	28/ ए	4.554305
	4011	गडग	गडगा	नभापुरा	34/ ए/4बी	0.614987
	4012	गडग	गडगा	नभापुरा	30	6.460888
	4013	गडग	गडगा	नभापुरा	34/ ए/4बी	1.463593
	4014	गडग	गडगा	नभापुरा	सड़क	0.091934
	4015	गडग	गडगा	नभापुरा	34 ए/3	6.007877
	4016	गडग	गडगा	नभापुरा	30	0.055319
	4017	गडग	गडगा	नभापुरा	31	1.388306
	4018	गडग	गडगा	नभापुरा	सड़क	0.408044
	4019	गडग	गडगा	नभापुरा	31	6.776201
	4020	गडग	गडगा	नभापुरा	37	2.769039
	4021	गडग	गडगा	नभापुरा	21/ ए 2/बी	2.912167
	4022	गडग	गडगा	नभापुरा	34/ ए1/ ए2	9.351507

	4023	गडग	गडगा	नभापुरा	32	0.852631
	4024	गडग	गडगा	नभापुरा	सड़क	0.399496
	4025	गडग	गडगा	नभापुरा	21/ ए 2/सी	1.497216
	4026	गडग	गडगा	नभापुरा	32	5.159202
	4027	गडग	गडगा	नभापुरा	34/बी	11.636136
	4028	गडग	गडगा	नभापुरा	33	6.199056
	4029	गडग	गडगा	नभापुरा	36	10.112178
	4030	गडग	गडगा	नभापुरा	सड़क	0.263608
	4031	गडग	गडगा	नभापुरा	34/ ए 1/बी	5.293553
	4032	गडग	गडगा	नभापुरा	28ए	0.503213
	4033	गडग	गडगा	नभापुरा	35	5.015656
	4034	गडग	गडगा	नभापुरा	94	0.146283
					योग	532.442558
43	4035	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	नदीगट्टी	53	3.709049
	4036	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	नदीगट्टी	52	1.390037
					योग	5.099086
44	4037	हडगली	हुविना हडगली	नवली	174	2.404328
	4038	हडगली	हुविना हडगली	नवली	175	2.379236
	4039	हडगली	हुविना हडगली	नवली	176	3.252869
	4040	हडगली	हुविना हडगली	नवली	177	2.898956
	4041	हडगली	हुविना हडगली	नवली	178	3.288259
	4042	हडगली	हुविना हडगली	नवली	182	0.719334
	4043	हडगली	हुविना हडगली	नवली	181	2.465902
	4044	हडगली	हुविना हडगली	नवली	180	2.474533

	4045	हडगली	हुविना हडगली	नवली	179	4.634069
	4046	हडगली	हुविना हडगली	नवली	183	1.469463
	4047	हडगली	हुविना हडगली	नवली	XX	0.032365
	4048	हडगली	हुविना हडगली	नवली	धारा	0.124098
	4049	हडगली	हुविना हडगली	नवली	184	5.997699
	4050	हडगली	हुविना हडगली	नवली	धारा	0.388325
	4051	हडगली	हुविना हडगली	नवली	184	0.061178
	4052	हडगली	हुविना हडगली	नवली	288	3.732696
	4053	हडगली	हुविना हडगली	नवली	186	0.865284
	4054	हडगली	हुविना हडगली	नवली	157	0.642682
	4055	हडगली	हुविना हडगली	नवली	धारा	1.27321
	4056	हडगली	हुविना हडगली	नवली	157	0.01454
	4057	हडगली	हुविना हडगली	नवली	धारा	3.241263
	4058	हडगली	हुविना हडगली	नवली	157	0.297254
	4059	हडगली	हुविना हडगली	नवली	186	0.608829
	4060	हडगली	हुविना हडगली	नवली	187	5.945122
	4061	हडगली	हुविना हडगली	नवली	185	0.853796
	4062	हडगली	हुविना हडगली	नवली	188	1.492764
	4063	हडगली	हुविना हडगली	नवली	182	6.627042
	4064	हडगली	हुविना हडगली	नवली	XX	0.541112
	4065	हडगली	हुविना हडगली	नवली	धारा	0.019143
	4066	हडगली	हुविना हडगली	नवली	XX	0.083789
	4067	हडगली	हुविना हडगली	नवली	धारा	0.308511
	4068	हडगली	हुविना हडगली	नवली	XX	0.009657
	4069	हडगली	हुविना हडगली	नवली	158	3.871048

	4070	हडगली	हुविना हडगली	नवली	नदी	74.19282
	4071	हडगली	हुविना हडगली	नवली	195	4.667115
	4072	हडगली	हुविना हडगली	नवली	193	0.935273
	4073	हडगली	हुविना हडगली	नवली	191	2.189193
	4074	हडगली	हुविना हडगली	नवली	190	1.734893
	4075	हडगली	हुविना हडगली	नवली	194	5.775796
	4076	हडगली	हुविना हडगली	नवली	196	4.604552
	4077	हडगली	हुविना हडगली	नवली	201	3.491177
	4078	हडगली	हुविना हडगली	नवली	266	5.60281
	4079	हडगली	हुविना हडगली	नवली	267	0.156383
	4080	हडगली	हुविना हडगली	नवली	205	2.177714
	4081	हडगली	हुविना हडगली	नवली	206	1.625271
	4082	हडगली	हुविना हडगली	नवली	207 बस्ती होन्नूरु	2.3632
	4083	हडगली	हुविना हडगली	नवली	धारा	1.591889
	4084	हडगली	हुविना हडगली	नवली	210	1.472819
	4085	हडगली	हुविना हडगली	नवली	269	3.907023
	4086	हडगली	हुविना हडगली	नवली	209	6.121415
	4087	हडगली	हुविना हडगली	नवली	268	0.455767
	4088	हडगली	हुविना हडगली	नवली	213	1.996098
	4089	हडगली	हुविना हडगली	नवली	208	0.804041
	4090	हडगली	हुविना हडगली	नवली	270	3.08246
	4091	हडगली	हुविना हडगली	नवली	279	1.096714
	4092	हडगली	हुविना हडगली	नवली	धारा	1.864448
	4093	हडगली	हुविना हडगली	नवली	279	1.023305

	4094	हडगली	हुविना हडगली	नवली	265	0.810081
	4095	हडगली	हुविना हडगली	नवली	264	2.713216
	4096	हडगली	हुविना हडगली	नवली	271	6.283521
	4097	हडगली	हुविना हडगली	नवली	263	2.694925
	4098	हडगली	हुविना हडगली	नवली	214	2.344464
	4099	हडगली	हुविना हडगली	नवली	262	4.901179
	4100	हडगली	हुविना हडगली	नवली	261	0.901177
	4101	हडगली	हुविना हडगली	नवली	259	2.465791
	4102	हडगली	हुविना हडगली	नवली	278	3.463661
	4103	हडगली	हुविना हडगली	नवली	260	2.526546
	4104	हडगली	हुविना हडगली	नवली	277	3.295192
	4105	हडगली	हुविना हडगली	नवली	272	1.762673
	4106	हडगली	हुविना हडगली	नवली	276	1.784601
	4107	हडगली	हुविना हडगली	नवली	197	0.058535
					योग	231.956094
45	4108	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	6	3.18221
	4109	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	45	7.879433
	4110	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	46	6.056537
	4111	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	1	7.967763
	4112	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	धारा	1.891268
	4113	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	44	7.942883
	4114	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	बस्ती	1.272972
	4115	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	47	2.083579
	4116	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	10	4.576985
	4117	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	43	8.348657

	4118	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	50	2.880098
	4119	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	4	2.508335
	4120	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	48	0.255377
	4121	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	42	13.777371
	4122	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	11	8.641399
	4123	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	3	8.001997
	4124	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	49	6.863952
	4125	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	05-जनवरी	10.619663
	4126	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	37	6.398555
	4127	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	सड़क	0.454423
	4128	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	2	7.123021
	4129	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	05-फरवरी	4.391103
	4130	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	35	7.860865
	4131	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	14	4.030545
	4132	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	36	6.714645
	4133	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	40	9.974588
	4134	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	41	3.942733
	4135	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	38	3.877269
	4136	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	12	11.093944
	4137	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	13	9.87347
	4138	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	39	4.40403
	4139	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	17	13.490489
	4140	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	16	11.06334
	4141	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	15	10.777869

	4142	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	34	7.198691
	4143	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	33	6.30413
	4144	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	32	5.2106
	4145	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	29	9.461085
	4146	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	31	6.256929
	4147	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	30	4.416116
	4148	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	28	1.400735
	4149	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	18	5.474591
	4150	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	21	6.354199
	4151	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	22	7.452533
	4152	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	24	9.056238
	4153	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	23	9.106823
	4154	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	19	5.35134
	4155	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	20	11.39904
	4156	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	25	4.863877
	4157	शिराहट्टी	शिराहट्टी	नवेभवनुरा	26	6.943897
					योग	326.472192
46	4158	गडग	बेटागेरी	पापनाशी	37/ए	1.646806
					योग	1.646806
47	4159	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	66	7.267995
	4160	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	6	8.011295
	4161	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	89	3.361665
	4162	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	2	1.840207
	4163	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	7	11.161897
	4164	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	85	2.590631

	4165	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	9	5.158824
	4166	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	8	9.222191
	4167	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	1	3.006692
	4168	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	10	12.761114
	4169	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	84	2.728619
	4170	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	21	5.999726
	4171	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	20	7.701453
	4172	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	बस्ती	1.893305
	4173	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	83	2.316556
	4174	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	11	7.901725
	4175	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	19	9.186564
	4176	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	82	3.883938
	4177	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	23	8.228073
	4178	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	90	0.4808
	4179	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	22	7.244879
	4180	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	81	3.878809
	4181	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	12	2.978727
	4182	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	80	6.026014
	4183	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	26	12.180114
	4184	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	17	9.773847
	4185	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	18	9.692989
	4186	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	24	6.639545
	4187	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	78	3.138604
	4188	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	75	5.361722

4189	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	74	9.409293
4190	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	13	11.500727
4191	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	25	8.351233
4192	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	77	10.366113
4193	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	16	4.704729
4194	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	15	12.039705
4195	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	73	12.17264
4196	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	76	9.131657
4197	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	72	12.494631
4198	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	14	12.561089
4199	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	धारा	3.993835
4200	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	68	8.677189
4201	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	59	0.000267
4202	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	69	5.017484
4203	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	70	7.056419
4204	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	71	5.806521
4205	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	67	9.075266
4206	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	63	6.369399
4207	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	61	7.78908
4208	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	62	6.284839
4209	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	66	7.39663
4210	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	65	10.553407
4211	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	64	11.402252
4212	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	55	6.403973
4213	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	53	7.082972

	4214	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	54	8.246549
	4215	शिराहट्टी	शिराहट्टी	परसापुरा	52	8.114459
					योग	403.620878
48	4216	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	56	12.159356
	4217	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	72	8.197941
	4218	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	48	9.631601
	4219	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	49	6.243439
	4220	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	73	8.281251
	4221	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	46	10.139976
	4222	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	74	5.026369
	4223	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	85	11.548672
	4224	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	47	9.200168
	4225	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	75	10.796997
	4226	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	45	5.283803
	4227	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	86	8.943045
	4228	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	76	6.214421
	4229	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	44	6.838913
	4230	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	77	8.519911
	4231	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	43	11.388463
	4232	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	78	5.822062
	4233	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	92	4.637343
	4234	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	36	9.453669
	4235	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	91	4.358168
	4236	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	79	5.846628

	4237	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	37	6.555082
	4238	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	87	9.579237
	4239	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	38	6.516548
	4240	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	80	5.535673
	4241	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	98	4.654072
	4242	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	93	7.633066
	4243	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	97	5.914953
	4244	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	39	9.475005
	4245	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	40	5.445945
	4246	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	96	5.492825
	4247	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	90	4.694243
	4248	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	42	0.422655
	4249	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	99	9.150139
	4250	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	100	7.623638
	4251	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	101	14.280076
	4252	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	35	7.218814
	4253	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	102	11.919434
	4254	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	103	11.181546
	4255	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	सड़क	1.247396
	4256	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	89	8.789572
	4257	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	88	8.620422
	4258	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	105	14.459555
	4259	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	104	7.906086
	4260	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	106	9.159352
	4261	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	34	9.137718

	4262	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	110	6.580842
	4263	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	33	0.070643
	4264	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	107	4.821565
	4265	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	109	10.047988
	4266	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	108	12.643475
	4267	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	111	1.133312
	4268	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	1	1.581087
	4269	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	2	0.579874
	4270	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	112	0.114639
	4271	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	113	5.880003
	4272	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	120	0.614037
	4273	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	114	5.656997
	4274	शिराहट्टी	शिराहट्टी	रणतुरा	115	0.412701
					योग	411.282411
49	4275	मुंदरगी	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	20	7.119354
	4276	मुंदरगी	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	21	7.606689
	4277	मुंदरगी	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	22	7.584676
	4278	मुंदरगी	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	24	59.380913
	4279	मुंदरगी	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	25	4.263496
	4280	मुंदरगी	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	26	7.321233
	4281	मुंदरगी	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	27	9.657721
	4282	मुंदरगी	मुंडारागी	शीरानाहल्ली	28	4.771185
					योग	107.705267
50	4283	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	39 टैंक	94.875482

4284	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	23	1.616259
4285	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	19	1.97005
4286	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	24	1.501584
4287	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	18	0.345783
4288	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	25	5.84303
4289	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	22	1.483185
4290	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	20	0.39025
4291	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	17	4.656725
4292	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	21	1.722887
4293	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	26	1.327158
4294	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	16	4.105518
4295	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	14	1.435702
4296	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	13	2.375628
4297	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	28	12.048243
4298	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	15	1.803223
4299	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	27	6.747727
4300	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	12	1.950575
4301	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	83	2.861771
4302	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	सड़क	2.367051
4303	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	8	1.246719
4304	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	41	1.58164
4305	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	9	1.379477
4306	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	सड़क	1.857512
4307	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	7	1.489739
4308	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	10	0.704978

	4309	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	11	2.308066
	4310	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	80	11.288082
	4311	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	42	9.261292
	4312	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	81	6.01789
	4313	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	82	11.621777
	4314	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	84	2.20832
	4315	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	6	1.721835
	4316	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	1	3.451465
	4317	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	2	4.653616
	4318	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	4	1.533518
	4319	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	5	1.301176
	4320	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	3	0.899037
	4321	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	43	5.33622
	4322	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	74	7.82631
	4323	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	47	4.964319
	4324	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	44	7.969923
	4325	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	48	2.091021
	4326	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	बस्ती	2.538
	4327	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	49	4.232622
	4328	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	79	9.113637
	4329	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	75	3.894557
	4330	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	73	3.422104
	4331	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	72	2.793042
	4332	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	76	3.78298

	4333	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	50	4.598961
	4334	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	71	3.819206
	4335	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	45	11.50605
	4336	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	46	12.329565
	4337	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	78	6.4487
	4338	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	77	9.83672
	4339	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	51	0.156629
	4340	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	69	1.558379
	4341	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	70	0.164385
	4342	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	52	1.248881
	4343	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वारा	शेट्टीकेरी	53	0.134601
					योग	325.720782
51	4344	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	सड़क	2.525149
	4345	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	204	7.422067
	4346	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	206	1.501892
	4347	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	203	6.297511
	4348	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	207	1.505144
	4349	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	205	3.438124
	4350	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	202	7.282789
	4351	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	208	3.146981
	4352	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	धारा	0.542982
	4353	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	209	7.041105
	4354	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	210	7.322445
	4355	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	201	10.096924
	4356	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	217	7.699652

	4357	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	218	2.707273
	4358	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	190	4.84793
	4359	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	191	9.329039
	4360	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	188	7.026113
	4361	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	220	4.096641
	4362	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	189	2.870537
	4363	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	221	10.938984
	4364	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	187	3.145462
	4365	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	227	6.384075
	4366	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	228	0.000886
	4367	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	229	0.12468
	4368	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	222	4.387355
	4369	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	226	7.509477
	4370	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	186	2.804598
	4371	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	223	6.247474
	4372	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	185	4.451819
	4373	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	230	3.604225
	4374	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	184	6.590072
	4375	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	225	2.632756
	4376	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	224	2.558409
	4377	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	231	3.14858
	4378	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	180	9.532616
	4379	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	181	3.651128
	4380	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	182	2.295055

	4381	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	175	4.572883
	4382	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	232	2.07126
	4383	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	174	7.918124
	4384	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	177	2.803317
	4385	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	179	3.82647
	4386	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	176	1.90782
	4387	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	233	1.414981
	4388	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	178	2.838285
	4389	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	158	9.171805
	4390	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	172	2.16519
	4391	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	173	1.777844
	4392	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	168	1.924133
	4393	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	167	1.999528
	4394	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	159	0.98781
	4395	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	171	1.869233
	4396	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	170	2.389732
	4397	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	धारा	0.190181
	4398	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	160	4.613802
	4399	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	169	1.316841
	4400	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	156	0.945909
	4401	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	161	2.932285
	4402	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	157	3.774064
	4403	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	166	2.296765
	4404	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	धारा	3.929107
	4405	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	165	2.989227

	4406	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	163	2.297893
	4407	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	164	4.239689
	4408	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	162	1.498433
	4409	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	155	5.003603
	4410	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	154	4.305098
	4411	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	152	3.019944
	4412	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	सड़क	0.91418
	4413	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	153	2.6214
	4414	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	151	1.859861
	4415	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	150	1.541908
	4416	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	149	1.651819
	4417	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	148	3.220722
	4418	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	119	3.12234
	4419	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	120	2.568761
	4420	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	नदी_थुगाभद्रा	57.92568
	4421	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	145	4.389161
	4422	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	147	2.293733
	4423	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	146	9.860743
	4424	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	123	0.106969
	4425	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	144	3.139392
	4426	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	124	5.199371
	4427	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	143	1.568482
	4428	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	125	3.242555
	4429	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	141	5.965101

	4430	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	142	4.598707
	4431	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	140	4.77452
	4432	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	139	2.804105
	4433	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	XX	0.162422
	4434	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	सड़क	1.255336
	4435	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	127	3.489562
	4436	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	126	2.263372
	4437	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	138	3.154691
	4438	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	136	1.877994
	4439	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	137	2.792128
	4440	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	128	6.488694
	4441	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	135	4.799403
	4442	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	129	3.440961
	4443	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	130	4.686341
	4444	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	131	4.390423
	4445	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	धारा	0.652692
	4446	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	132	8.228692
	4447	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	132	0.148959
	4448	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	133	2.356734
	4449	मुंदरगी	मुंडारागी	शिंगतालुरा	134/बी	0.15843
					योग	443.415549
52	4450	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	सड़क	0.298236
	4451	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	156	0.682815
	4452	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	155	0.571267
	4453	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	बस्ती	0.072852

	4454	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	7	0.021782
	4455	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	6	0.000014
	4456	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	150	3.439685
	4457	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	8	0.069182
	4458	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	151	3.089815
	4459	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	152	0.204641
	4460	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	10	0.691261
	4461	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	149	3.007007
	4462	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	सड़क	1.981735
	4463	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	136	7.208068
	4464	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	137	0.686558
	4465	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	48	0.04212
	4466	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	148	2.898298
	4467	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	138	9.073879
	4468	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	133	5.602674
	4469	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	146	4.616245
	4470	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	124	2.088528
	4471	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	147	2.133215
	4472	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	123	4.295161
	4473	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	145	4.365646
	4474	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	134	5.424942
	4475	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	71	0.698802
	4476	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	113	2.046448
	4477	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	72	4.275091

	4478	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	108	0.004808
	4479	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	125	1.958044
	4480	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	144	7.432224
	4481	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	122	6.083962
	4482	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	109	0.37565
	4483	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	112	1.915885
	4484	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	139	6.060753
	4485	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	126	7.094212
	4486	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	132	5.766013
	4487	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	143	3.537209
	4488	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	142	5.236053
	4489	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	140	6.124832
	4490	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	127	4.945664
	4491	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	161	8.23033
	4492	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	114	3.441781
	4493	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	141	16.898993
	4494	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	102	1.984015
	4495	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	103	1.860086
	4496	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	115	8.92149
	4497	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	130	8.779566
	4498	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	104/बी	0.248562
	4499	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	104/ए	3.526045
	4500	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	128	8.074252
	4501	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	135	5.451528
	4502	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	101	2.767815

	4503	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	131	15.248678
	4504	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	121	54.658865
	4505	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	120	2.210197
	4506	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	119	4.256881
	4507	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	116	4.540707
	4508	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	100	3.780211
	4509	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	129	4.922564
	4510	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	118	3.217473
	4511	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	99	5.239781
	4512	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	117	3.866857
	4513	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	98	4.212639
	4514	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	97	4.820287
	4515	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	96/ए	13.780972
	4516	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	96/सी	11.800333
	4517	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	96/बी	11.562439
	4518	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	90	67.085845
	4519	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	162	8.152574
	4520	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	94	18.2678
	4521	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	163	5.516071
	4522	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	95	4.784235
	4523	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	93	7.278417
	4524	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	92	4.70039
	4525	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	सड़क	0.808404
	4526	मुंदरगी	दंबला	शिंगतारायणअकेरी	91	165.011892
					योग	626.030251

53	4527	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सड़क	3.650842
	4528	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	89	6.492249
	4529	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	91	5.598077
	4530	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	92	7.898715
	4531	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	93	5.917488
	4532	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	94	5.902793
	4533	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	95	4.74517
	4534	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	97	1.794772
	4535	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	98	2.058059
	4536	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	99	3.720398
	4537	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	100	4.978612
	4538	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	101	12.148673
	4539	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	102	12.331335
	4540	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	103	2.944326
	4541	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	104	1.081631
	4542	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	183	12.051053
	4543	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	184	8.675491
	4544	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	185	6.919942
	4545	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	186	12.078091
	4546	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	187	9.706978
	4547	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	188	9.007965
	4548	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	189	8.255713
	4549	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	190	8.350866
	4550	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	191	9.756309
	4551	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	192	10.707538

	4552	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	193	7.302759
	4553	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	194	10.220629
	4554	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	195	11.241732
	4555	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	196	11.310215
	4556	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	197	7.387865
	4557	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	198	7.520339
	4558	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	199	5.586836
	4559	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	202	12.250128
	4560	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	203	12.943044
	4561	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	204	14.810715
	4562	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	205	11.961401
	4563	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	207	8.59154
	4564	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	208	10.902743
	4565	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	210	11.636713
	4566	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	211	12.771353
	4567	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	212	12.868752
	4568	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	213	12.850594
	4569	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	214	8.783771
	4570	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	215	7.769813
	4571	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	216	11.584543
	4572	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	217	6.327917
	4573	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	218	10.272955
	4574	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	219	6.087821
	4575	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	209	4.088662

	4576	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	171	0.475445
	4577	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	220	3.161616
	4578	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	206	1.27285
	4579	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	201	0.3843
	4580	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	200	1.840506
	4581	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	182_टैंक	1.967374
	4582	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	181	1.315115
	4583	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	106	0.063651
	4584	शिराहट्टी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	107	0.569543
					योग	424.896326
54	4585	गडग	गडगा	शिरुंजा	सड़क	0.091328
	4586	गडग	गडगा	शिरुंजा	71	1.097609
	4587	गडग	गडगा	शिरुंजा	70	1.186991
	4588	गडग	गडगा	शिरुंजा	69	1.842787
	4589	गडग	गडगा	शिरुंजा	54	1.297074
	4590	गडग	गडगा	शिरुंजा	53	1.194162
	4591	गडग	गडगा	शिरुंजा	52	0.06916
	4592	गडग	गडगा	शिरुंजा	52	0.298301
					योग	7.077412
55	4593	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	14	12.474758
	4594	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	13	12.093409
	4595	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	12	7.358071
	4596	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	15	15.873033
	4597	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	11	15.523052
	4598	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	10	7.302196

	4599	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	16	10.38121
	4600	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	17	9.262638
	4601	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	सड़क	1.470103
	4602	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	18	6.988649
	4603	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	9	10.93744
	4604	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	19	0.59583
	4605	शिराहट्टी	शिराहट्टी	सुगनल्ली	8	0.220205
					योग	110.480594
56	4606	गडग	गडगा	सोरातुर	42	4.0156
	4607	गडग	गडगा	सोरातुर	136	109.754043
	4608	गडग	गडगा	सोरातुर	140	57.062688
	4609	गडग	गडगा	सोरातुर	138	11.177275
	4610	गडग	गडगा	सोरातुर	139	7.826561
	4611	गडग	गडगा	सोरातुर	सड़क	1.785462
	4612	गडग	गडगा	सोरातुर	139	1.493955
	4613	गडग	गडगा	सोरातुर	140/पाई	77.288821
	4614	गडग	गडगा	सोरातुर	137	8.117856
	4615	गडग	गडगा	सोरातुर	133	6.254801
	4616	गडग	गडगा	सोरातुर	161	1.197486
	4617	गडग	गडगा	सोरातुर	142/ए	121.016599
	4618	गडग	गडगा	सोरातुर	141	0.007614
	4619	गडग	गडगा	सोरातुर	142 ए	3.107288
	4620	गडग	गडगा	सोरातुर	142 ए	12.276989
	4621	गडग	गडगा	सोरातुर	159	0.798844

	4622	गडग	गडगा	सोरातुर	164	35.191278
	4623	गडग	गडगा	सोरातुर	144	6.826425
	4624	गडग	गडगा	सोरातुर	सड़क	0.535871
	4625	गडग	गडगा	सोरातुर	144	1.339053
	4626	गडग	गडगा	सोरातुर	157	4.068837
	4627	गडग	गडगा	सोरातुर	158	1.468584
	4628	गडग	गडगा	सोरातुर	143/पाई	4.579533
	4629	गडग	गडगा	सोरातुर	168	9.251982
	4630	गडग	गडगा	सोरातुर	145	8.626794
	4631	गडग	गडगा	सोरातुर	143	8.021329
	4632	गडग	गडगा	सोरातुर	147	2.319241
	4633	गडग	गडगा	सोरातुर	154	1.770961
	4634	गडग	गडगा	सोरातुर	155	1.860447
	4635	गडग	गडगा	सोरातुर	156	1.566551
	4636	गडग	गडगा	सोरातुर	148	1.732867
	4637	गडग	गडगा	सोरातुर	167	12.687573
	4638	गडग	गडगा	सोरातुर	146	2.00922
	4639	गडग	गडगा	सोरातुर	149	1.451009
	4640	गडग	गडगा	सोरातुर	150	1.718559
	4641	गडग	गडगा	सोरातुर	151	1.775819
	4642	गडग	गडगा	सोरातुर	152	1.055465
	4643	गडग	गडगा	सोरातुर	165	12.269823
	4644	गडग	गडगा	सोरातुर	166	0.913399
	4645	गडग	गडगा	सोरातुर	129	0.287642
	4646	गडग	गडगा	सोरातुर	130	13.270923

	4647	गडग	गडगा	सोरातुर	170	82.386271
	4648	गडग	गडगा	सोरातुर	सड़क	0.06917
	4649	गडग	गडगा	सोरातुर	169	7.881981
	4650	गडग	गडगा	सोरातुर	189ए	4.54344
	4651	गडग	गडगा	सोरातुर	189बी	0.345133
	4652	गडग	गडगा	सोरातुर	188	4.156678
	4653	गडग	गडगा	सोरातुर	187	7.55045
	4654	गडग	गडगा	सोरातुर	186	7.973593
	4655	गडग	गडगा	सोरातुर	183	5.792688
	4656	गडग	गडगा	सोरातुर	184	5.856919
	4657	गडग	गडगा	सोरातुर	185	1.282408
	4658	गडग	गडगा	सोरातुर	182	3.162934
	4659	गडग	गडगा	सोरातुर	181	3.549378
	4660	गडग	गडगा	सोरातुर	171	26.275537
	4661	गडग	गडगा	सोरातुर	180	4.418518
	4662	गडग	गडगा	सोरातुर	179	5.378583
	4663	गडग	गडगा	सोरातुर	175	0.339615
	4664	गडग	गडगा	सोरातुर	174बी	1.185789
	4665	गडग	गडगा	सोरातुर	172	6.85198
	4666	गडग	गडगा	सोरातुर	174ए	4.766196
	4667	गडग	गडगा	सोरातुर	173	10.218128
	4668	गडग	गडगा	सोरातुर	सड़क	1.099011
	4669	गडग	गडगा	सोरातुर	33	0.000011
	4670	गडग	गडगा	सोरातुर	सड़क	1.836396

	4671	गडग	गडगा	सोरातुर	36	4.141561
	4672	गडग	गडगा	सोरातुर	37	6.316886
	4673	गडग	गडगा	सोरातुर	38	2.949088
	4674	गडग	गडगा	सोरातुर	39	5.072763
	4675	गडग	गडगा	सोरातुर	44	6.811222
	4676	गडग	गडगा	सोरातुर	49	1.565645
	4677	गडग	गडगा	सोरातुर	43	8.597753
	4678	गडग	गडगा	सोरातुर	48	0.236546
	4679	गडग	गडगा	सोरातुर	45	4.413154
	4680	गडग	गडगा	सोरातुर	46	4.959723
	4681	गडग	गडगा	सोरातुर	47	0.313362
	4682	गडग	गडगा	सोरातुर	41	5.755572
	4683	गडग	गडगा	सोरातुर	40	6.240087
	4684	गडग	गडगा	सोरातुर	42	2.525214
	4685	गडग	गडगा	सोरातुर	सड़क	0.522693
	4686	गडग	गडगा	सोरातुर	सड़क	0.49212
					योग	817.615263
57	4687	हडगली	हडगली	थीमलापुर	39	0.284524
	4688	हडगली	हडगली	थीमलापुर	XX	0.050693
	4689	हडगली	हडगली	थीमलापुर	धारा	0.095005
	4690	हडगली	हडगली	थीमलापुर	XX	3.628988
	4691	हडगली	हडगली	थीमलापुर	39	0.977717
	4692	हडगली	हडगली	थीमलापुर	38	0.25358
	4693	हडगली	हडगली	थीमलापुर	धारा	0.280294
	4694	हडगली	हडगली	थीमलापुर	38	1.424645

	4695	हडगली	हडगली	थीमलापुर	37	3.941083
	4696	हडगली	हडगली	थीमलापुर	27	3.674904
	4697	हडगली	हडगली	थीमलापुर	25	2.553075
	4698	हडगली	हडगली	थीमलापुर	36	3.748041
	4699	हडगली	हडगली	थीमलापुर	26	6.357873
	4700	हडगली	हडगली	थीमलापुर	24	1.3832
	4701	हडगली	हडगली	थीमलापुर	23	3.963507
	4702	हडगली	हडगली	थीमलापुर	22	6.898167
	4703	हडगली	हडगली	थीमलापुर	20	7.840115
	4704	हडगली	हडगली	थीमलापुर	21	3.122403
	4705	हडगली	हडगली	थीमलापुर	18	4.5424
	4706	हडगली	हडगली	थीमलापुर	1	6.50861
	4707	हडगली	हडगली	थीमलापुर	17	3.153485
	4708	हडगली	हडगली	थीमलापुर	16	3.022237
	4709	हडगली	हडगली	थीमलापुर	15	8.40962
	4710	हडगली	हडगली	थीमलापुर	19	4.59172
	4711	हडगली	हडगली	थीमलापुर	2	0.97804
	4712	हडगली	हडगली	थीमलापुर	3	9.226025
	4713	हडगली	हडगली	थीमलापुर	12	1.437603
	4714	हडगली	हडगली	थीमलापुर	13	1.634914
	4715	हडगली	हडगली	थीमलापुर	14	1.100064
	4716	हडगली	हडगली	थीमलापुर	11	1.204846
	4717	हडगली	हडगली	थीमलापुर	XX	0.244464
	4718	हडगली	हडगली	थीमलापुर	288_ तुंगभद्रा नदी	32.725324
					योग	129.257166

58	4719	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	65	4.732339
	4720	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	53	6.082853
	4721	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	54	8.540202
	4722	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	64	4.662118
	4723	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	50	9.444826
	4724	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	63	4.445552
	4725	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	59	9.072696
	4726	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	72	7.564565
	4727	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	62	5.838219
	4728	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	61	5.479118
	4729	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	55	6.514642
	4730	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	48	6.086035
	4731	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	47	7.48919
	4732	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	धारा	11.72561
	4733	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	60	7.874501
	4734	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	40/1	5.210816
	4735	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	41	8.063679
	4736	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	21	5.323457
	4737	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	79	7.567571
	4738	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	34	3.319462
	4739	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	73	7.800641
	4740	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	42	5.812355
	4741	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	102	2.652373
	4742	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	103	5.112306
	4743	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	46	9.039412

	4744	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	22	9.059024
	4745	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	20	7.588276
	4746	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	33/2	6.457333
	4747	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	33/1	5.838099
	4748	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	56	5.757891
	4749	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	31	10.537016
	4750	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	18	11.044138
	4751	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	30	12.141456
	4752	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	19	6.180242
	4753	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	13	7.006201
	4754	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	29	15.634741
	4755	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	28	8.544115
	4756	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	78	7.28389
	4757	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	74	5.84893
	4758	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	58	10.422147
	4759	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	40/2	6.737709
	4760	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	83	7.69742
	4761	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	77	7.400389
	4762	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	57	4.542014
	4763	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	24	9.354391
	4764	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	45	7.417422
	4765	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	16	5.251842
	4766	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	75	7.433589
	4767	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	43	2.724908

4768	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	17	7.557336
4769	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	39	9.426069
4770	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	14	9.833453
4771	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	23	5.722057
4772	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	44	2.749633
4773	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	76	5.313789
4774	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	धारा	0.233467
4775	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	32/1	7.63457
4776	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	धारा	0.009174
4777	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	91	0.852554
4778	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	32/2	2.814762
4779	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	धारा	0.86895
4780	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	15	7.006965
4781	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	91	10.592634
4782	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	92	12.219876
4783	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	38	7.498201
4784	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	26	8.834049
4785	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	93	12.277475
4786	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	88	1.104177
4787	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	धारा	0.864313
4788	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	सड़क	0.113954
4789	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	88	9.09698
4790	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	95/2	5.031584
4791	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	सड़क	0.103398
4792	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	95/1	5.944775

	4793	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	सड़क	2.602159
	4794	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	27	13.317909
	4795	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	96	13.786721
	4796	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	94	8.112883
	4797	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	7	13.497213
	4798	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	9	11.758013
	4799	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	87	3.213343
	4800	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	8	13.405373
	4801	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	89	6.974142
	4802	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	धारा	0.502228
	4803	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	89	0.52044
	4804	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	44927	2.287831
	4805	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	44958	3.663189
	4806	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	सड़क	0.355549
	4807	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	5	10.932669
	4808	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	6	10.515848
	4809	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	सड़क	0.360641
	4810	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	97/ए	4.893982
	4811	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	2	4.266234
	4812	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	90	0.000229
	4813	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	बस्ती	2.065798
	4814	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	97/बी	0.013234
	4815	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	100	4.096678
	4816	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	3	9.935756

	4817	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	4	5.877981
	4818	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	98	0.524648
	4819	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	धारा	1.633441
	4820	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	98	3.424229
	4821	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	धारा	0.387618
	4822	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	97/ ए	0.689146
	4823	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	100	3.984857
	4824	शिराहट्टी	शिराहट्टी	तेग्गिनाभवनूर	99	0.266809
					योग	644.928707
59	4825	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	सड़क	2.833284
	4826	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	28	2.071708
	4827	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	29	10.081645
	4828	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	30	14.497735
	4829	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	45	12.081106
	4830	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	46	12.008896
	4831	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	32	14.685382
	4832	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	27	3.233464
	4833	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	31	7.486003
	4834	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	44	13.795357
	4835	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	34	5.403771
	4836	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	33	13.223897
	4837	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	43	4.082431
	4838	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	57	5.770649
	4839	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	49	11.582426
	4840	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	50	12.660191

	4841	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	42	10.10527
	4842	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	41	5.252493
	4843	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	35	2.58789
	4844	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	56	14.904229
	4845	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	39	5.366065
	4846	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	51	15.12534
	4847	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	40	7.21447
	4848	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	60	9.630264
	4849	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	धारा	20.308493
	4850	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	66	4.164463
	4851	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	52	11.992121
	4852	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	55	9.010709
	4853	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	38	0.039976
	4854	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	120	0.873224
	4855	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	53	8.954671
	4856	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	128	0.037907
	4857	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	54	8.302972
	4858	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	74	10.617949
	4859	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	113	3.524649
	4860	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	119	7.513066
	4861	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	114	10.484083
	4862	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	112	2.167343
	4863	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	121	0.054374
	4864	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	127	0.590856

	4865	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	111	3.632105
	4866	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	103	5.457931
	4867	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	123	0.777593
	4868	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	102	13.451451
	4869	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	77	7.908386
	4870	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	धारा	0.810321
	4871	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	126	0.708578
	4872	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	118	8.431747
	4873	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	121	5.808213
	4874	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	135	0.7832
	4875	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	122	2.308702
	4876	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	76	12.638911
	4877	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	75	2.028993
	4878	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	115	12.100544
	4879	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	82	11.647394
	4880	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	110	2.287796
	4881	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	104	7.210797
	4882	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	109	3.330023
	4883	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	117	3.96252
	4884	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	136	1.017795
	4885	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	108	5.162233
	4886	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	106	6.293407
	4887	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	105	6.223962
	4888	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	100	14.115496
	4889	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	133	0.868788

	4890	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	116	12.449471
	4891	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	78	7.039582
	4892	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	101	15.709393
	4893	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	79	7.202714
	4894	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	80	11.875726
	4895	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	81	8.253334
	4896	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	99	4.702029
	4897	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	85	8.088639
	4898	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	107	7.216541
	4899	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	91	11.87085
	4900	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	92	3.556455
	4901	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	98	8.276988
	4902	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	89	10.654537
	4903	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	97	10.9146
	4904	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	86	13.557418
	4905	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	96	7.189997
	4906	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	88	10.96616
	4907	शिराहट्टी	शिराहट्टी	वारावी	87	11.097658
					योग	623.9098
60	4908	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	20	1.743772
	4909	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	19	0.258951
	4910	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	धारा	0.131842
	4911	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	25	2.974533
	4912	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	26	5.414946

	4913	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	37	1.180557
	4914	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	33	8.207549
	4915	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	32	3.213335
	4916	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	28	6.797468
	4917	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	32/ए	4.341749
	4918	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	36	11.429108
	4919	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	सड़क	0.544662
	4920	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	29	7.642258
	4921	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	35	6.165499
	4922	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	39	2.034207
	4923	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	34	6.861837
	4924	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	31	8.324778
	4925	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	30	9.209541
	4926	मुंदरगी	मुंडारागी	वीरूपापुरा	27	5.084713
					योग	91.561305
					योग, परिस्थिति की संवेदी ज़ोन का क्षेत्र हेक्टेयर में।	29889.01606

पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में आने वाले बफर वन क्षेत्र का संख्यावार सर्वेक्षण संख्या

	सर्वे संख्या	गांव	होबली	तालुक	ज़िला	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	105	अदावी सोमापुर	बेतागेरी	गडग	गडग	22.331953
2	105/ए	अदावी सोमापुर	बेतागेरी	गडग	गडग	3.053199

3	105/बी	अदावी सोमापुर	बेतागेरी	गडग	गडग	9.040396
4	105/सी	अदावी सोमापुर	बेतागेरी	गडग	गडग	3.364679
5	106	अदावी सोमापुर	बेतागेरी	गडग	गडग	99.353903
6	107	अदावी सोमापुर	बेतागेरी	गडग	गडग	105.760497
						242.904627
7	13	अधरहल्ली	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वर	गडग	4.329656
8	14	अधरहल्ली	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वर	गडग	6.32577
						10.655426
9	23	बेलाधादी	गडग	गडग	गडग	13.444577
10	32	बेलाधादी	गडग	गडग	गडग	31.595215
11	38	बेलाधादी	गडग	गडग	गडग	36.1392
12	44	बेलाधादी	गडग	गडग	गडग	41.333088
						122.51208
13	378	छब्बी	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.119804
						0.119804
14	353	दमबाल	दमबाला	मुन्दर्गी	गडग	7.31955
						7.31955
15	155	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	9.250205
16	156	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	6.068816
17	157	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	6.317283
18	158	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.010398
19	159	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.115295
20	160	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	3.974915
21	161	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	7.211084
22	162	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	10.249833
23	163	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	8.926217

24	164	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	3.551016
25	168	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	122.372421
26	32	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	6.969254
27	33	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.951916
28	34	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	4.388723
29	35	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	7.701593
30	36	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	8.49481
31	37	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	4.615965
32	38	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	6.969355
33	39	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.608868
34	40	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	6.82501
35	41	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	8.312747
36	42	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.283291
37	43	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	6.145622
38	44	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	4.687454
39	45	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.252034
40	46	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.8654
41	47	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	7.701518
42	48	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.511984
43	49	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	4.132339
44	50	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	8.587986
45	52	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	6.298068
46	53	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	1.47352
47	70	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.000261
48	71	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.046466

49	86	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.000264
50	87	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.020749
51	88	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.143822
52	89	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.012555
53	90	देवीहाल	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.003256
						315.052313
54	27	गुड्डाधापुर(वारावी)	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.226478
						0.226478
55	83	कधमपुरा	दमबाला	मुन्दर्गी	गडग	28.545999
						28.545999
56	XX_पुराना_17	केराहल्ली	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	5.488915
57	XX_पुराना _20/1	केराहल्ली	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	3.342649
58	XX_पुराना _20/2	केराहल्ली	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	2.717891
59	XX_पुराना_25	केराहल्ली	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.396209
						11.945664
60	50	कुसलापुरा	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.358517
61	51	कुसलापुरा	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.207265
						0.565782
62	75	कालकेरी	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	18.08679
63	76	कालकेरी	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.02264
64	77	कालकेरी	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.548743
65	81	कालकेरी	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.289118
66	82	कालकेरी	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	13.298073
67	85	कालकेरी	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.573395
						32.818759

68	123	कोरलाहल्ली	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.630945
69	150	कोरलाहल्ली	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.586542
70	150	कोरलाहल्ली	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.038645
71	151	कोरलाहल्ली	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.996803
72	धारा	कोरलाहल्ली	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.113231
						2.366166
73	19/ए	मैकेनाहल्ली	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	2.412168
74	80	मैकेनाहल्ली	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	25.794601
						28.206769
75	10	मजूर	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	1.710409
76	11	मजूर	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	1.491553
						3.201962
77	139	मुंडावाड	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.154718
78	147	मुंडावाड	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.000001
						0.154719
79	222	मेवुन्दी	दमबाला	मुंडारागी	गडग	0.010753
						0.010753
80	1	नबापुर	गडग	गडग	गडग	0.7575
81	13/ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	4.464903
82	13/बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	1.776781
83	13/बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	7.834412
84	13/सी1	नबापुर	गडग	गडग	गडग	34.937634
85	17	नबापुर	गडग	गडग	गडग	1.662942
86	2	नबापुर	गडग	गडग	गडग	6.079098
87	21/ए1	नबापुर	गडग	गडग	गडग	1.414654
88	21/ए2/सी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	0.169404

89	21ए2	नबापुर	गडग	गडग	गडग	0.175493
90	24/ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	16.739875
91	24/बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	16.577712
92	24/सी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	2.015563
93	24/सी1	नबापुर	गडग	गडग	गडग	10.248856
94	27	नबापुर	गडग	गडग	गडग	8.662862
95	28/ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	12.151527
96	28/ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	9.332834
97	28/ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	0.026104
98	28/ए2	नबापुर	गडग	गडग	गडग	0.350786
99	28/बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	2.338579
100	28/बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	0.17238
101	34/ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	10.285877
102	34/ए/1ए/1ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	15.570922
103	34/ए/2	नबापुर	गडग	गडग	गडग	5.79361
104	34/ए/4बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	7.381083
105	34/ए/4बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	6.541695
106	34/ए1/बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	0.000471
107	8/ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	65.563005
108	8/ए	नबापुर	गडग	गडग	गडग	8.200802
109	8/ए1/बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	2.049553
110	8/ए1/सी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	2.942873
111	8/ए1/डी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	2.545139
112	8/ए1/ई	नबापुर	गडग	गडग	गडग	3.214925

113	8/ए2	नबापुर	गडग	गडग	गडग	5.513367
114	8/बी	नबापुर	गडग	गडग	गडग	0.334716
						273.827937
115	19	नदीघाटी	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वर	गडग	5.78074
116	20	नदीघाटी	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वर	गडग	4.240006
117	29	नदीघाटी	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वर	गडग	8.610866
118	3	नदीघाटी	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वर	गडग	10.58191
119	30	नदीघाटी	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वर	गडग	8.944811
120	31	नदीघाटी	लक्ष्मेश्वर	लक्ष्मेश्वर	गडग	68.045731
						106.204064
121	3/डी	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	2.65476
122	34/ए	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	33.865036
123	34/एच	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	6.830725
124	35/ए	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	78.758593
125	35/बी	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.131647
126	35/सी	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.488209
127	35/डी	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.243759
128	35/ई	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.999045
129	35/एफ	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.370015
130	35/जी	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.442243
131	35/एच	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	0.75852
132	35/आई	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	2.669564
133	37/ए	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	117.281382
134	37/बी	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	3.191655
135	37/सी	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	5.432455
136	37/ई	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	2.163801

137	37/एफ	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	3.270062
138	38/ए1	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	78.097127
139	38/ए10	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.061685
140	38/ए11	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.038816
141	38/ए12	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	0.899918
142	38/ए13	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	0.785035
143	38/ए14	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	0.845681
144	38/ए2	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	2.243304
145	38/ए3	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.779604
146	38/ए4	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	2.761027
147	38/ए5	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	2.134116
148	38/ए6	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	0.988238
149	38/ए7	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	2.372476
150	38/ए8	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	1.317532
151	38/ए9	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	0.913878
152	38/B	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	11.36285
153	39	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	9.286396
154	48	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	5.552426
155	49	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	8.046111
156	50	पापनासी	बेतागेरी	गडग	गडग	8.158138
						405.195829
157	72	शिरुंज	गडग	गडग	गडग	8.958688
158	77	शिरुंज	गडग	गडग	गडग	24.428104
						33.386792
159	130	सोरातुर	गडग	गडग	गडग	3.830488

184	65	सोगीवाल	लक्षमेश्वर	लक्षमेश्वर	गडग	166.500819
185	66	सोगीवाल	लक्षमेश्वर	लक्षमेश्वर	गडग	6.089292
186	67	सोगीवाल	लक्षमेश्वर	लक्षमेश्वर	गडग	7.886601
187	68	सोगीवाल	लक्षमेश्वर	लक्षमेश्वर	गडग	8.494399
						188.971111
188	121	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	0.222578
189	131	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	0.279241
190	141	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	0.704788
191	80/ए/1	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	90.68251
192	80/ए/2	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	0.845621
193	80/बी	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	4.100286
194	90	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	52.790671
195	91	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	25.991635
196	94	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	0.184244
197	XX	शिंगत्रयणकेरी	दमबाल	मुंडारागी	गडग	9.239562
						185.041136
198	11	सुगनहल्ली	शिराहट्टी	शिराहट्टी	गडग	0.366855
						0.366855
199	27	वीरूपापुर	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	2.278665
200	30	वीरूपापुर	मुंडारागी	मुंडारागी	गडग	0.002446
						2.281111
			कुल वन क्षेत्र हेक्टेयर में			2380.463853

अनुलग्नक-VIII

कप्पाथागुड्डा वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ :

कप्पाथागुड्डा पहाड़ी श्रृंखलाओं में दुर्लभ और स्थानिक औषधीय पौधो पाए जाते हैं। अभयारण्य में कुछ घाटियाँ और गड्ढे हैं जहाँ शुष्क पर्णपाती और काँटेदार झाड़ियां मिले-जुले रूप में पाए जाते हैं। वन्यजीव अभयारण्य विभिन्न औषधीय पौधों की प्रजातियों से समृद्ध है।

क. कप्पाथागुड्डा वन्य जीवन अभयारण्य में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पौधों की सूची

क्र.सं.	किस्मों का नाम	प्रजाति		फोर्सकल	
1.	<i>एबेलमोसचस</i> <i>फिकुलनस</i> (एल.)वाइट और आर्न.*	मालवेसी	11.	<i>एकैलिफा इंडिका</i> एल.*	यूफोरबियासी
2.	<i>अब्रुसप्रेकेटोरियस</i> एल.*	फाबेसी	12.	<i>एकैलिफा लांसोलेटा</i> विल्ड.*	यूफोरबियासी
3.	<i>अबुटिलॉन हर्टम</i> (लैम.) मीठा	मालवेसी	13.	<i>एकैलिफा</i> <i>मालाबारिका</i> म्यूल.*	यूफोरबियासी
4.	<i>एबूटिलोन इंडिकम</i> (एल.) मीठा.*	मालवेसी	14.	<i>एकेंथोस्पर्ममहिस्पिड</i> <i>म डीसी.*</i>	एस्ट्रेसिया
5.	<i>अकेशिया चंद्रा</i> (रोटलर) विल्ड.*	मिमोसेसी	15.	<i>अचिरेंथेस एस्पेरा</i> एल.*	अमरेन्थेसी
6.	<i>अकेशिया इबोस</i> (एल-एफ) विल्ड.	मिमोसेसी	16.	<i>एक्टिनियोप्टेरिस</i> <i>रेडिएटा</i> (एसडब्ल्यू) लिक.*	एक्टिनियोप्टे रिडेसी
7.	<i>अकेशिया होरिडा</i> (एल.) विल्ड.*	मिमोसेसी	17.	<i>अधतोदवासिका</i> नीस.*	एकेंथेसी
8.	<i>अकेशिया</i> <i>ल्यूकोफलोआ</i> (रोक्सब.) विल्ड.*	मिमोसेसी	18.	<i>एगले मार्मेलोस</i> (एल.) कोरिया*	रुटेसी
9.	<i>अकेशिया पेनाटा</i> (एल.) विल्ड	मिमोसेसी	19.	<i>एर्वलानाटा</i> (एल.) जस ई एक्स शुल्स*	अमरेन्थेसी
10.	<i>अकलिफा इब्बोसी</i>	यूफोरबियासी	20.	<i>एर्वामोनसोनिया</i> (रेटज़) मार्ट.*	अमरेन्थेसी

21.	एरवासांगिनोलेन्टा (एल.) ब्लूम	अमरेन्थेसी
22.	एस्किनोमीन अमेरीकाना एल.	फाबेसी
23.	एगोरेटम कोनीज़ोइड्स एल.*	एस्ट्रेसिया
24.	एग्लिया एलेग्नोइडिया (ए.जस) बेंथ	मेलियासी
25.	ऐलेन्थस एक्सेलसा रॉक्सब.*	सिमारूबासी
26.	अलंगियमसाल्विफो लियम (एलएफ) वांगेरिन*	एलान्गियासी
27.	अल्बिजिया अमारा (रोक्सब.) बी.बोइविन*	मिमोसेसी
28.	अल्लामानियानोडि फ्लोरा (एल.) आर.बीआर. *	अमरेन्थेसी
29.	एलोवेरा (एल.) एन. बर्मन.*	लिलिएसी
30.	अल्टरनेथेरा पुंगेंस कुंथ	अमरेन्थेसी
31.	अल्टरनेथेरा सेसिलिस एल.	अमरेन्थेसी
32.	एलिसिकार्पसबुप्ल्यू रिफोलियस (एल.) डीसी.	फाबेसी
33.	एलिसिकार्पस हेटरोफिलस (बेन्थ एक्स बेकर) जाफरी और अली	फाबेसी
34.	एलिसिकार्पसमोनिलि फ़र (एल.) डीसी.	फाबेसी

35.	ऐमारैथस पॉलीगोनोइड्स एल.	अमरेन्थेसी
36.	अमरान्थस स्पिनोसस एल.	अमरेन्थेसी
37.	अमरेन्थस विरिडिस एल.*	अमरेन्थेसी
38.	एन्ड्रोग्राफिस इचियोइड्स (एल.) नीस.*	एकेंथेसी
39.	एन्ड्रोग्राफिस इब्बोसी (एन. बर्मन) वाल एक्स नीस.*	एकेंथेसी
40.	एनीसोचिलस कार्नोसस (एलएफ) वाल*	लैमिएसी
41.	एनीसोमेलिस इंडिका (एल.) कुन्त्ज़े*	लैमिएसी
42.	एनिसोमेलसमालाबा रिका (एल.) आर.बीआर. एक्स सिम्स*	लैमिएसी
43.	एनोना स्क्वैमोसा एल.*	एनोनेसी
44.	एनोजीसस लैटिफोलिया (रॉक्सबी. एक्स डीसी.)*	कॉम्ब्रेटेसी
45.	आर्जिमोन इबोस एल.*	पापावेरेसी
46.	अरिस्टोलोचियाइबो सेई लैम.*	एरिस्टोलोचि यासी
47.	एरिस्टोलोचिया	एरिस्टोलोचि

	इंडिका एल.*	यासी
48.	एस्क्लेपियस क्यूरासाविका एल.*	एपोसिनेसी
49.	एस्पैरेगस एशियाटिकस एल.*	लिलिएसी
50.	शतावरी रेसमोसस विल्ड.*	लिलिएसी
51.	एस्पिडोप्टेरीस कॉर्डेटा (बी. हेन एक्स वॉल.) ए.जस.*	लिलिएसी
52.	एसिस्टासियाडाल्जे लियाना सेंट	एकेंथेसी
53.	एटिलोसिया एल्बिकेंस (डब्ल्यूटी और आर्न) बेन्थ.*	फाबेसी

54.	एज़ाडिरेक्टा इंडिका ए. जस*	मेलियासी
55.	अजीमेटेट्राकांथा लैम.	साल्वाडोरेसी
56.	बैलेनाइट्स एजिप्टिका प्लेंचन*	बालनिटेसी
57.	बम्बूसारुंडिनैसिया (रेट्ज़.) रॉक्सब।	पोएसी
58.	बारलेरियाबक्सिफो लिया एल.*	एकेंथेसी
59.	बारलेरियानोक्टिफलो रा एलएफ*	एकेंथेसी
60.	बारलेरियाप्रियोनिटि स एल.*	एकेंथेसी

ख. वृक्ष :

क्र.सं.	साधारण नाम	वैज्ञानिक नाम
1	मत्ती	<i>टर्मिनलिया टोमेंटोसा</i>
2	तुगली	<i>अल्बिजिया अमारा</i>
3	कवलेकै	<i>कैरिसा कैरंडस</i>
4	मुत्तगा	<i>ब्यूटिया मोनोस्पर्मा</i>
5	सोम्बी मारा	<i>सोयमिडा फेब्रिफ्यूगा</i>
6	काक्के	<i>कैसिया फिस्टुला</i>
7	टुप्रा	<i>डीयोस्पाइराँस</i>
8	फिकस एसपीएस.	<i>फिकस एसपीएस.</i>
9	करिजाली	<i>बबूल नीलोटिका</i>
10	कामारा	<i>हार्डविकिया बिनाटा</i>
11	खरसिंग	<i>स्टीरियोस्पर्मम ज़ाइलोकार्पम</i>
12	अट्टी	<i>फिकस ग्लोमेरेटस</i>
13	अलादमारा	<i>फिकस बंगालेंसल्स</i>
14	अरालीमारा	<i>फिकस रेलिग्लोसा</i>
15	बन्नी	<i>प्रोसोप्लस क्लेनरला</i>
16	बेवु	<i>एज़ाडिरेक्टा इंडिका</i>
17	बिलपथरा	<i>ईगल मार्मेलेसा</i>
18	बिक्कीमारा	<i>गार्डेनिया गुम्मेइफेरा</i>
19	कक्की	<i>कैसिया फिस्टुला</i>
20	लक्की	<i>विटेक्स नेगुंडा</i>

21	तुम्बी	<i>ल्यूकोस सेफालोटस</i>
22	तुराबी	<i>साइडा कार्डफोलिया</i>
23	मदुगुंकी	<i>धतुआरा धातु</i>
24	गोलागोलाकी	<i>आर्गोनोन मेक्सिकाना</i>
25	अंटावल	<i>सेपिंडस ट्राइफोलाटस</i>
26	गोरती (मदारंगी)	<i>लॉसनिया इनर्मिस</i>
27	कवाली	<i>कैरिसा कैरंडियस</i>
28	कोलिकुटक	<i>ग्लोरियोसो सुपर्बा</i>
29	तेगु	<i>टेक्टोना गैडिस</i>
30	देवदारु	<i>सेर्डस देवदारा</i>
31	अलालि	<i>टर्मिनेलिया चेबुला</i>
32	तारिकै	<i>टर्मिनेलिया बेलिरीका</i>
33	नेल्लिकाई	<i>एम्बिका ऑफिसिनेलिस</i>
34	होनावारी	<i>कैसियाक्यूरिकुलाटा</i>
35	तुलसी	<i>ओसीमम सेंक्टम</i>
36	नेलाबेवु	<i>स्वेटिया क्लोरोयिन</i>
37	मंगरी	<i>रंडिया स्पिनोसा</i>
38	भारंगी	<i>क्लेरोडेंड्रम सेरेक्टम</i>
39	मेटी	<i>टर्मिनेलिया अर्जुन</i>
40	नेलागुल	<i>सोलेनम सुरटेन्से</i>

41	हेगुल	सोलनम इंडिकम
42	मावु	मैंग्लिएट इंडिका
43	मयूरशिका	एडिएंटम काँडेटम
44	रामबन	थेफ्रोशिया परपोरिया
45	बसावनपाड़	बौहनियावेरियाअगेन
46	कीरू	सेमीकार्पस एनाकार्डियम

47	शिवानी	गमेलिना आर्बोरिया
48	यदामुरागी	हेलकटेरस इसोरा
49	तेरी (तुगली)	अकेशिया कैटेचू
50	श्रीगंड	संतुलम एल्बम
51	लोलेसर	एलोविरा

यहां घास के मैदान हैं जिनमें अनेक प्रजातियों की घासों हैं, जिनमें महत्वपूर्ण फलियां और बाजरा की जंगली किस्में शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले खुर वाले जानवरों के लिए महत्वपूर्ण चारा हैं।

ग. जीव-जंतु:

कप्पाथागुड्डा अपने अनोखे पर्यावास के कारण वन्यजीवों से समृद्ध है, जिसमें घास के मैदान से लेकर पर्णपाती जंगल और प्राकृतिक गुफाएँ, सुरंगें और घाटियाँ शामिल हैं। कप्पाथागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य में जंगली जानवरों और पक्षियों की निम्नलिखित प्रजातियाँ पाई जाती हैं:

क्र.सं.	साधारण नाम	वैज्ञानिक नाम
1	धारीदार लकड़बग्घा	हयानाहयाना
2	भेड़िया	कैनिस ल्यूपस पैलिप्स
3	भारतीय साही	हिस्ट्रिक्सइंडिका
4	सियार	कैनिसाउरियस
5	जंगल बिल्ली	फेलिस्कौस
6	सामान्य नेवला	हर्पेस्टसपीएस
7	सामान्य लंगूर	प्रेसबिटिस एन्टेल्लस
8	बोनेट मकाक	मकाका रेडिएट
9	आम भारतीय खरगोश	लेपस्निगीकोलिस
10	जंगली सुअर	सुस्सक्रोफा
11	चार सींग वाला	टेट्रासेरसक्वाड्रिकोर्निस

	मृग	
12	छिपकली	मैनिस्क्रासिकोडाटा
13	मीठे पानी का मगरमच्छ	मगरमच्छ
14	मॉनीटर गोधिका	वरानसबेंगालेंसिस
15	भारतीय कोबरा	नजनाजा
16	चूहा साँप या धामन	प्युतास्मुकोसस
17	भारतीय रॉक पायथन	पायथन मोलुरस
18	नाग	वाइपररुसेली
19	काला हिरण	मृग सर्विकारपा
20	तेंदुआ	पेंथेरा पार्डस
21	जंगली सूअर	सुस स्क्रोफा
22	भारतीय ग्रे	कैनिस ल्यूपस

	भेड़िया	पैलिप्स
23	टैडी कैट	फेलिस कैटस
24	छोटा भारतीय सिवेट	विवेरिकुला इंडिका
25	भारतीय पेंगोलियन	मैनिस क्रैसिकौडाटा
26	पांच धारीदार ताड़ गिलहरी	फुनाम्बुलसपेन्नान्ति
27	बोनेट मकाक	मकाका रेडिएटा
28	फ्लाइंग फॉक्स	टेरोपस
29	छोटी नाक वाला फ्रूट बैट	सिनोप्टेरस स्फिंक्स
30	भारतीय फाल्स वैम्पायर	मेगाडर्मा लिरा
31	आम घरेलू चूहा	रैटस रैटस
32	भूरा चूहा	रैटस नोर्वेजिकस
33	बिंडीकोट चूहा	बैंडीकोटा
34	घरेलू चूहा	घरेलू चूहा
35	सामान्य भेड़िया	कैनिस ल्यूपस ल्यूपस
36	सामान्य नेवला	हर्पेस्टिडे
37	बैक नैप्पड खरगोश	लेपस निग्रीकोलिस
38	रॉक पायथन	पायथन मोलुरस
39	ग्रे वूल्फ	कैनिस ल्यूपस पैलिप्स
40	सुनहरा सियार	कैनिस ऑरियस
41	धारीदार लकड़बग्घा	लकड़बग्घा लकड़बग्घा
42	स्लॉथ भालू	मेलुरसस उर्सिनस
43	जंगल बिल्ली	फेलिस चाउस

44	रस्टी चितीदार बिल्ली	प्रियोनेलुरस रुबिगिनोसस
45	बिज्जू	मेलिवोरा कैपेंसिस
46	भारतीय साही	हिस्ट्रिक्स इंडिका
47	भारतीय पेंगोलिन	मैनिस क्रैसिकौडाटा
48	छोटा भारतीय सिवेट	विवेरिकुला इंडिका
49	कॉमन पाम सिवेट	पैराडाँक्सुरस हेर्मेफ्रोडिटस
50	रूडी नेवला	हर्पेस्टेस स्मिथी
51	ग्रे नेवला	हर्पेस्टेस एडवर्ड्सि
52	ग्रे हॉर्नबिल	ओसीसेरोस बिरोस्ट्रिस
53	मालाबार पाइड हॉर्नबिल	एन्थ्रोकोसेरोस कोरोनाटस
54	भारतीय कोबरा	नाजा नाजा
55	डेमोइसेल क्रेन	ग्रस विर्गो
56	रूडी शेल्डक	टैडोर्ना फेरुगिनिया
57	भारतीय मुंतजैक	मुंतियाकस मुंतजाक
58	ग्रे लंगूर	सेम्नोपिथेकस डुसुमिएरी
59	बोनेट मैकाक	मकाका रेडिएटा
60	स्मूद कोटेड ऊदबिलाव	ल्यूट्रोगेल पर्सपिसिलाटा
61	भारतीय स्टार कछुआ	जियोचेलोन एलिगेंस
62	दलदली मगरमच्छ	क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस
63	भारतीय मॉनिटर छिपकली	वरानस बंगालेंसिस
64	भूरा नेवला	हर्पेस्टेस फ्यूस्कस
65	स्लेंडर लोरिस	लोरिस लिडेकेरियानस

पक्षी:

क्र.सं.	साधारण नाम	वैज्ञानिक नाम
1	भारतीय मोर	पावोक्रिस्टैटस
2	बार-हेडेड गूज	एंसर इंडिकस
3	रूड्डी शैल्डक	टैडोर्नाफेरुगिनिया
4	कॉम्ब बत्तख	सरकिडियोर्निस्सिल्विकोला
5	स्पॉट-बिल्ड डक	अनस पोइसिलोरहिन्चा
6	सामान्य टील	अनस क्रेक्का
7	यूरेशियन विगॉन	मारेकेपेनेलोपे
8	उत्तरी शॉवेलर	स्पैटुला क्लाइपेटा
9	कॉपरस्मिथ बारबेट	साइलोपोगोनहेमासेफालस
10	भारतीय ग्रे हॉर्नबिल	ओसीसेरोसबिरोस्ट्रिस
11	सामान्य किंगफिशर	एल्सेडोआथिस
12	व्हाइट थ्रूटेड किंगफिशर	हेल्सिओन स्मिर्नेसिस
13	पाइड किंगफिशर	सेरीलेरुडिस
14	डेमोइसेल क्रेन (मँडराता हुआ)	एंथ्रोपोइड्सविर्गो
15	व्हाइट ब्रेस्टेड वॉटरहेन	अमौरोर्निस्फोनीकुरस
16	ग्रीन सैंडपाइपर	ट्रिंगाओक्रोपस
17	वुड सैंडपाइपर	ट्रिंगाग्लेरोला
18	सामान्य सैंडपाइपर	एक्टिटिसहाइपोल्यूकोस
19	लिटिल स्टिन्ट	कैलिड्रिस मिनुटा
20	टेम्मिन्क का स्टिन्ट	कैलिड्रिस टेम्मिन्की

21	कलर्यू सैंडपाइपर	कैलिडरिस फेरुगिनिया
22	काले पंखों वाला स्टिल्ट	हिमंतोपस हिमंतोपस
23	छोटा प्रेटिन्कोल	ग्लेरियोलातैक्टिया
24	तीतर पूंछ वाला जैकाना	हाइड्रोफासियानसचिरुर्गस
25	छोटा वलयदार प्लोवर	चराड्रियस ड्यूबियस
26	किंदिश प्लोवर	चराड्रियस एलेक्जेंड्रिनस
27	येल्लो वाटल्ड लैपिंग	वेनेलसमैलाबैरिकस
28	रेड वाटल्ड लैपिंग	वेनेलस इंडिकस
29	भूरे सिर वाला गूल	क्रॉइकोसेफालसब्रुन्निसेफालस
30	नदी टर्न	स्टर्ना ऑरेंटिया
31	ब्लैक बेलीड टर्न	स्टर्ना एक्यूटिकाउडा
32	ब्लैक शोल्डर काइट	एलानूसैक्सिलारिस
33	ब्लैक काइट	मिल्वस माइग्रेंस
34	ब्राह्मणी काइट	हैलियास्टुरिन्डस
35	छोटा ग्रीबे	अचीबैप्टस रूफिकोलिस
36	छोटा जलकाग	माइक्रोकार्बोनिगर
37	छोटा बगुला	एग्रेटागार्जेटा
38	इंटरमीडिएट बगुला	अर्देआ इंटरमीडिया
39	भारतीय तालाब बगुला	अर्देओला
40	ग्रेटर फ्लेमिंगो	फोनीकोप्टेरस रोसियस
41	काले सिर वाला आइबिस	थ्रेसकिओर्निसमेलानोसेफालस
42	यूरेशियन स्पूनबिल्स	प्लेटालिएल्यूकोरोडिया

43	चित्रित सारस	माइक्टेरिया ल्यूकोसेफाला
44	एशियाई ओपनबिल	एनास्टोमुसोसिटांस
45	वूली नेक्कड सारस	सिकोनिया एपिस्कोपस
46	काला आइबिस	थ्रेसकिओर्निसमेलानोसेफालस
47	बोर्न श्राइक	लैनियुसक्रिस्टैटस
48	बे-बैकड श्राइक	लैनियसविटेटस
49	लंबी पूंछ वाला श्राइक	लैनियसच
50	रूफस वृक्ष पाई	डेंड्रोसिटावागाबुंडा
51	बड़ी चोंच वाला कौआ	कोर्वस मैक्रोरिनचोस

अनुलग्नक-IX

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक संलग्नक में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण संलग्नक के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक संलग्नक के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक संलग्नक के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2024

S.O. 4262(E).—The following draft notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Kappathagudda Wildlife Sanctuary was notified by Government of Karnataka *vide* notification No. FEE 57 FWL 2019, dated the 16th May, 2019 and is situated in Gadag, Mundaragi, Shirahatti and Laxmeshwar Talukas of Gadag District of Karnataka State and is spread over an area of 244.15 Square Kilometre, the area is covered mainly by scrub forest and dry grasslands;

AND WHEREAS, the Kappathagudda Reserve Forests are unique ecosystem of flora and fauna which includes 500 varieties of rare medicinal plants, various fauna including the Leopard, Striped Hyena, Grey Wolf, Four Horned Antelope, Blackbuck and Bar Headed Geese. The said landscape is known as the '*Western Ghats of North Karnataka*';

AND WHEREAS, the reserved forests are the areas where the natural environment is prone to get affected or harmed by the biotic pressure and therefore needs special protection. Because of the unique features these forests deserve to be defined as "Ecologically Sensitive Area ". The diverse flora and fauna of the area suggests that the forests are ecologically " Rich', 'Valuable', 'Unique' and irreplaceable if destroyed. Kappathagudda Wildlife Sanctuary is a geological repository for the study of the deccan traps and the schist gold deposits;

AND WHEREAS, the Kappathagudda Wildlife Sanctuary is home to various important faunal species such as, fresh water crocodile (*Crocodylus*), Blackbuck (*Antelope cervicapra*), Jackal (*Canis aureus*), Short nosed fruit bat (*Cynopterus sphinx*), Grey Langur (*Semnopithecus dussumieri*), Marsh Crocodile (*Crocodylus palustris*), and Bonnet Macaque (*Macaca radiata*). The Kappathagudda forests are blessed with numerous plant species of great medicinal value, for example, *Abelmoschus ficulneus*, *Acacia chundra*, *Acalypha malabarica*, *Anisomeles indica*, *Atylosia albicans*, *Cassia absus*, *Eupatorium odoratum*, *Ficus benghalensis*, and *Xanthium strumarium*. The wildlife sanctuary also supports the diverse avifaunal species such as, India peafowl (*Pavo cristatus*), Spot-billed duck (*Anas*

poecilorhyncha), Little egret (*Egretta garzetta*), Greater flamingo (*Phoenicopterus roseus*), and White backed vulture (*Gyps africanus*);

AND WHEREAS, due to biotic & climatic interventions, there is a threat of degradation of rich natural forest and wildlife. Hence, there is a need to conserve this precious & irreplaceable unique landscape. It is necessary to conserve and protect the area and boundaries around the Kappathagudda Wildlife Sanctuary by declaring the area as Eco-Sensitive Zone from ecological and environmental point of view;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1 km to 4.30 km, keeping the cadastral survey number as minimum unit from the boundary of Kappathagudda Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as Kappathagudda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter after referred to as Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone.** — (1) The Eco-Sensitive Zone around the Kappathagudda Wildlife Sanctuary extends from **1 km to 4.30 km** from its boundary, encompassing an area of **322.695 square kilometers**. This includes 298.890 square kilometers of revenue village area and 23.804 square kilometers of notified forest area. A total of 62 villages fall within the ambit of the ESZ. The specific extent of the ESZ in different directions is provided below:

Direction	Extent in Km (Min-Max.)
North	1.00 to 3.25 (Continuation of Buffer forest area)
Northeast	1.00 to 1.00
East	1.00 to 1.00
Southeast	1.00 to 1.00
South	1.00 to 1.00
Southwest	1.00 to 1.22 (Continuation of Buffer forest area)
West	1.00 to 4.30 (Continuation of Buffer forest area)
Northwest	1.00 to 1.96 (Continuation of Buffer forest area)

- (2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone is appended as **Annexure I**.
- (3) The Geo-coordinates of ESZ prominent points is appended as **Annexure II**.
- (4) List of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area is appended as **Annexure III**.
- (5) The map of the Protected Area demarcating the Eco-Sensitive Zone boundary with various other maps are appended as **Annexure IVA to Annexure IVF**.

- (6) The list of villages falling within the Eco-Sensitive Zone with its geo-coordinates is appended as **Annexure V.**
- (7) The detailed status of villages falling within the Eco-Sensitive Zone is appended as **Annexure VI.**
- (8) Survey number wise details of villages and buffer forests falling within the Eco-Sensitive is appended as **Annexure VII.**
- (9) List of various flora and fauna found in the Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure VIII.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone - (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-Sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) State Highways;
 - (ix) Irrigation & Flood Control;
 - (x) State Pollution Control Board;
 - (xi) Municipality;
 - (xii) Panchayati Raj; and
 - (xiii) Public Works Department
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-Sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government of Karnataka- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use. - (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas along with parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-Sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial, residential, or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified in clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union Territory Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as: -

- i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- iii. small scale industries not causing pollution;
- iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting ecotourism including home stay; and
- v. promoted activities and concerned regulated activities given in paragraph 4;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-Sensitive Zone shall be corrected by the respective Union Territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change;

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) Natural Water Bodies & Springs. -The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas as which are detrimental to such areas.

Extraction of ground water shall be permitted for only bonafide agricultural and domestic consumption of the owner/ occupier of the land. All measures shall be taken to prevent contamination or pollution of water source from any commercial/ agricultural or livestock operations.

(3) Tourism/Eco-Tourism. - (a) All new eco-tourism, tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-Sensitive Zone.

- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with Environment & Forest Department of Union Territory Government.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan and it shall be based on the carrying capacity studies of the Eco-Sensitive Zone.
- (d) The activity of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -
 - (i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary or up to the extent of the ESZ whichever is nearer. Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas only for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2018 and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
 - (iii) Until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural Heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-Sensitive Zone, such as the Gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides,

cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise Pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and as amendments thereto.

(7) Air Pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981), published by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide notification number G.S.R. 351 (E), dated the 15th May, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

(8) Discharge of Effluents. - Discharge of untreated effluent and sewage is prohibited. The discharge of treated effluent in the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), published by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide notification number G.S.R. 58 (E), dated the 27th February, 1975 and the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

(9) Solid wastes. – Disposal and Management of solid wastes shall be as under: -

- a. The solid waste disposal and management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-Sensitive Zone.
- b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

- (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The Plastic Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 and as amended from time to time.

(13) E-waste - The e- Waste Management in the Eco-Sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units. –

- a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-Sensitive Zone on or after the publication of this notification in the Official Gazette,
- b) Only non-polluting industries shall be allowed within the ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-Sensitive Zone. - All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 the rules made there under and other notifications, laws and acts of the Government of India pertaining to environment, forests and wildlife, in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely:

Serial number	Activities	Remarks
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, Stone Quarrying, Crushing Units, Oil Drilling and Dredging.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect. Except for meeting the domestic needs of bonafide local residents including digging of earth for

		<p>construction or repair of houses within Eco-Sensitive Zone;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 Judgment dated the 3rd June, 2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 Judgment dated the 26th April, 2023 and the 28th April, 2023.</p>
2.	Setting up of industries causing pollution. (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-Sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
3.	Establishment of major hydroelectric projects.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/ processing facility of solid waste is permitted within Eco-Sensitive Zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/ hospitals etc. is prohibited.

7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
8.	Setting of Brick Kilns	All new and existing brick kiln units are prohibited.
9.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, and companies.	Prohibited. Provided that only small-scale poultry farms by local farmers can be established for sustenance of their livelihood.
10.	New wood-based industries.	No establishment of new wood-based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law and renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry.
11.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the Eco Sensitive Zone area by any Aircraft, Hot Air Balloons, Helicopter, Gliders, Parasailing, Drones, Microlites etc.	Prohibited. However, Forest and Wildlife Departments may use Drones for creating awareness on forest, environment and wildlife conservation for making documentaries for non-commercial purpose.
12.	Introduction of exotic species	Prohibited
13.	Commercial use of Firewood	Prohibited.
14.	Use or production of any hazardous substances	Prohibited.
Regulated Activities		
15.	Commercial establishment of hotels and resorts	New commercial hotels and resorts along with their expansion shall not be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures only for eco-tourism activities; Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
16.	Construction activities	(a) New commercial construction of any kind shall

		<p>not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-Sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents:</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
17.	Non-polluting industries.	Only non-polluting industries termed as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations.
18.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p> <p>(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan regulations shall be followed.</p>
19.	Collection of forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per applicable laws.
20.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated as per applicable laws. Construction/ Augmentation and renovation of Power Transmission lines and cables, Telecommunication Towers and cables shall be permitted. New underground cabling may be promoted.

21.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
22.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines. Strengthening of the existing roads shall be done with proper Environmental Impact Assessment (mandatorily involving the State Forest Department and the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change) and mitigation measures as per the guidance document "Eco-Friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife." Published by MoEF & CC.
23.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
25.	Discharge of treated waste water/ effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/ effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/ effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for bonafide agricultural use and domestic consumption of the occupier/owner of the land.</p> <p>(b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior permission from the concerned regulatory authority and as per approved master plan.</p> <p>(c) Sale of surface water or ground water to any place outside ESZ is prohibited.</p>
27.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the regulatory authority. Measure shall be taken to cover the wells to prevent accidents.

28.	Solid Waste Management.	Regulated as per applicable laws.
29.	Eco-tourism activities.	Regulated as per applicable laws.
30.	Establishment of commercial livestock and poultry farms.	Regulated as per applicable laws with proper precautions of waste management by local farmers.
31.	Use of polythene/ plastic bags by shopkeepers.	Regulated as per applicable laws, where the thickness of the carry bag should not be less than 120 microns and Non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM).
Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively Promoted.
33.	Organic Farming.	Shall be actively Promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively Promoted.
35.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities.	Shall be actively Promoted. However, excessive expansion of some of these activities should be regulated as per the master plan.
36.	Use of renewable energy and clean fuels.	Bio gas, solar light, CNG, LPG etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively Promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively Promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively Promoted.
40.	Environment Awareness.	Shall be actively Promoted.

5. Monitoring Committee. - The Central Government hereby constitutes a committee to be known as Kappathagudda Wildlife Sanctuary ESZ Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification under sub section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following: -

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Regional Commissioner, Belagavi Division | Chairman, <i>ex-officio</i> ; |
| 2. | Deputy Commissioner, Gadag | Member, <i>ex-officio</i> ; |
| 3. | Chief Executive Officer, Zilla Panchayat, Gadag | Member, <i>ex-officio</i> ; |

4.	Representative of Non-government Organization working in the field of wildlife or environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka from time to time every three years	Member;
5.	One expert in biodiversity conservation or ecology and environment to be nominated by the Government of Karnataka from time to time every three years	Member;
6.	A representative from District Environment Department, Government of Karnataka	Member, <i>ex-officio</i> ;
7.	A representative from District Public Works Department	Member, <i>ex-officio</i> ;
8.	A representative from Karnataka State Pollution Control Board	Member, <i>ex-officio</i> ;
9.	Deputy Conservator of Forests, Gadag Forest Division (Social Forest), Gadag	Member, <i>ex-officio</i> ;
10.	Deputy Conservator of Forests, Gadag Forest Division (Territorial)	Member Secretary, <i>ex-officio</i>

6. Functions of the Monitoring Committee. – The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification:

- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinize the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from Department, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case-to-case basis.

- (5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in pro-forma specified in Annexure IX.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/06/2024-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure- I

Boundary Description of the Eco-Sensitive Zone Around Kappathagudda Wildlife Sanctuary

Gadag Taluk: The Eco-Sensitive Zone (ESZ) in the Gadag Taluk of Gadag District includes only the forest survey numbers adjoining the wildlife sanctuary in the villages of Adavi Somapura and Papanashi in the north, followed by the parts of Beladhadi and Nabhapura (Nabhapura) villages to the north west and parts of Shirunja village in the west, in toto of the Kabulayatakatti village to the west followed by parts of Soraturu and Hangankatte Villages to the south and followed by InamVenktapur to the South West.

Laxmeshwar Taluk: The Eco-Sensitive Zone in the Laxmeshwar Taluk of Gadag District includes parts of Akkigunda village followed by Shettikeri, Kundralli and Nadighatti villages to the East and South East followed by only the forest survey numbers of Adaralli and Sogiwal villages to the South.

Shirahatti Taluk: The Eco-Sensitive Zone in the Shirahatti Taluk of Gadag District includes parts of Parasapura village followed by in toto of Chabbi village to the South-East and parts of Varavi village to the North and in toto of Majjur, Kusalapur and Kadakol villages to the East. The Eco-Sensitive Zone includes in toto of Jalligeri village to the North-West of Kadakol and Tegginabhavanur, Navebhavanur, Bhavanur, parts of Hadagali, Bannikoppa, Kerehalli villages to the South and South East. The Eco-Sensitive Zone includes parts of Devihal village to the South of Chabbi followed by parts of Ranatur,

Machenahalli and Suganhalli villages to the East and South East and followed by parts of Magadi village to the West.

Mundaragi Taluk: The Eco-Sensitive Zone in the Mundaragi Taluk of Gadag District includes parts of Shingatarayanakeri village followed by Kadampura to the East and Doni, in toto of Dindur villages to the South. The Eco-Sensitive Zone includes parts of Dambal and Mevundi village to the East of Doni followed by parts of Hirewaddatti, Harogeri, Mustikoppa, Kalkeri, Virupapura, Bidnal, Korlahalli, Gangapura, Shiranahalli, and Shingatalur villages to the South and South-East. The Eco-Sensitive Zone includes in toto of Chikkawaddatti village to the South-West of Hirewaddatti followed by Kelur village to the South-East and Guddadabudihal, Muradi, Bagewadi, Jalawadagi, parts of Hammigi villages to the South and South-East. The Eco-Sensitive Zone includes parts of Mallikarjunpura to the West of Jalawadagi and Mundawad village to the South of Jalawadagi.

Hoovinahadagali Taluk (Vijayanagara District): The Eco-Sensitive Zone in the Hoovinahadagali Taluk of Vijayanagara District includes parts of Navali and Thimlapur villages to the South of Kappatagudda Wildlife Sanctuary.

River Tungabhadra: The Eco-Sensitive Zone also includes the River Tungabhadra flowing through the villages of Shingatalur and Hammigi villages of Mundaragi Taluk of Gadag district and Navali and Thimlapur villages of Hoovinahadagali Taluk of Vijayanagara District.

Annexure- II

Geo-coordinates of Eco-Sensitive Zone prominent points

Sl. No	Latitude	Longitude
1	15.309764	75.623329
2	15.314861	75.644965
3	15.330233	75.667823
4	15.334207	75.722098
5	15.311236	75.717176
6	15.301483	75.706092
7	15.291999	75.728044
8	15.301266	75.756234
9	15.272423	75.762262
10	15.234545	75.765818
11	15.224410	75.782715
12	15.212669	75.771034
13	15.188503	75.790993
14	15.169309	75.811245
15	15.156449	75.824608
16	15.144658	75.814095
17	15.138228	75.814866
18	15.124502	75.847585
19	15.107410	75.862778
20	15.089001	75.863637
21	15.068453	75.881679
22	15.038676	75.884492
23	15.026872	75.868580
24	15.040946	75.856536
25	15.058847	75.834437
26	15.063055	75.812898
27	15.061132	75.782071
28	15.067665	75.763202
29	15.082821	75.776766
30	15.089070	75.775225
31	15.091290	75.747955
32	15.099400	75.729617
33	15.119218	75.717424
34	15.130365	75.700450
35	15.130922	75.691565
36	15.116333	75.672946
37	15.140854	75.674017
38	15.139518	75.662619
39	15.114559	75.640961
40	15.124183	75.632222
41	15.133339	75.615506

Sl. No	Latitude	Longitude
42	15.146958	75.611076
43	15.163349	75.597596
44	15.153048	75.573532
45	15.145444	75.555366
46	15.163789	75.555864
47	15.168970	75.547728
48	15.176380	75.516838
49	15.194924	75.526612
50	15.211703	75.540033
51	15.218378	75.559041
52	15.201857	75.573699
53	15.183554	75.591196
54	15.202052	75.610392
55	15.222751	75.623969
56	15.223815	75.650057
57	15.234967	75.660954
58	15.251900	75.661584
59	15.256600	75.639541
60	15.274283	75.641091
61	15.282830	75.638359
62	15.290170	75.623685
63	15.256096	75.792956
64	15.243845	75.808620
65	15.229997	75.803709
66	15.240922	75.787575

Annexure- III

Latitude-Longitude of Prominent Locations of Kappathagudda Wildlife Sanctuary Boundary

Block I GPS Readings

Block I GPS Readings		
Sl. No.	Longitude	Latitude
1	75.629849	15.303308
2	75.657723	15.306806
3	75.664323	15.291123
4	75.652775	15.324246
5	75.714669	15.328753
6	75.719368	15.320551
7	75.703669	15.322921
8	75.707621	15.311934
9	75.691862	15.303298
10	75.679983	15.294763
11	75.700598	15.286297
12	75.684588	15.283064
13	75.681653	15.290175
14	75.688986	15.272825
15	75.700866	15.28381
16	75.718496	15.278375
17	75.72015	15.285591
18	75.734529	15.279694
19	75.739668	15.287872
20	75.750883	15.293867
21	75.75201	15.269507
22	75.754729	15.235773
23	75.729623	15.249515
24	75.739525	15.2274
25	75.756433	15.233414
26	75.77104	15.200074
27	75.806849	15.158153
28	75.805861	15.135948
29	75.801993	15.117743
30	75.819281	15.130269
31	75.853442	15.114093

Block I GPS Readings		
Sl. No.	Longitude	Latitude
32	75.842067	15.08053
33	75.864589	15.079533
34	75.871034	15.055005
35	75.874988	15.042416
36	75.875137	15.039561
37	75.872823	15.036106
38	75.864799	15.036794
39	75.863635	15.046788
40	75.84976	15.054542
41	75.838179	15.07069
42	75.82139	15.066749
43	75.807198	15.081963
44	75.807442	15.071281
45	75.79047	15.071793
46	75.785801	15.069766
47	75.778587	15.07064
48	75.77086	15.073151
49	75.783187	15.07341
50	75.789058	15.082099
51	75.791329	15.089769
52	75.797682	15.085276
53	75.809951	15.096853
54	75.803828	15.115626
55	75.7851	15.112085
56	75.795712	15.124308
57	75.778846	15.123286
58	75.765044	15.134371
59	75.779198	15.140091
60	75.778422	15.154545
61	75.772497	15.156807
62	75.746484	15.147599

Block I GPS Readings		
Sl. No.	Longitude	Latitude
63	75.755782	15.171698
64	75.733195	15.17768
65	75.726067	15.183345
66	75.717394	15.187716
67	75.704911	15.200098
68	75.698632	15.190491
69	75.695586	15.218498
70	75.686341	15.20265
71	75.678591	15.210293
72	75.683806	15.228037

Block I GPS Readings		
Sl. No.	Longitude	Latitude
73	75.665229	15.209456
74	75.673771	15.233291
75	75.666492	15.260873
76	75.656483	15.273448
77	75.670085	15.283774
78	75.651364	15.260925
79	75.649393	15.270187
80	75.64783	15.283508
81	75.640914	15.292858

Block II GPS Readings

Block II GPS Readings		
Sl. No.	Longitude	Latitude
1	75.641174	15.234961
2	75.638006	15.218585
3	75.662626	15.199845
4	75.70271	15.170238
5	75.713177	15.158339
6	75.729084	15.144792
7	75.740871	15.125545
8	75.751242	15.122365
9	75.760247	15.117063
10	75.752882	15.107739
11	75.767077	15.099371
12	75.756447	15.094986
13	75.747838	15.102537
14	75.73381	15.118238

Block II GPS Readings		
Sl. No.	Longitude	Latitude
15	75.70934	15.133077
16	75.695185	15.140584
17	75.705053	15.155492
18	75.691288	15.160334
19	75.686216	15.149296
20	75.686475	15.168822
21	75.671988	15.168698
22	75.647716	15.177165
23	75.644237	15.191409
24	75.635189	15.188109
25	75.640108	15.198365
26	75.617069	15.208507
27	75.627641	15.210328

Block III GPS Readings

Block III GPS Readings		
Sl. No.	Longitude	Latitude
1	75.604449	15.189561
2	75.613593	15.193562
3	75.630306	15.193982
4	75.621284	15.182673
5	75.624602	15.1619
6	75.635899	15.144935
7	75.642159	15.147377
8	75.636907	15.16857
9	75.645605	15.171347
10	75.652032	15.163707

Block III GPS Readings		
Sl. No.	Longitude	Latitude
11	75.650448	15.15868
12	75.664565	15.156115
13	75.663391	15.148527
14	75.653784	15.134621
15	75.645463	15.122596
16	75.633536	15.133632
17	75.629329	15.142994
18	75.619202	15.142552
19	75.619856	15.156245
20	75.614386	15.171777

Block IV GPS Readings

Block IV GPS Readings		
Sl no	Longitude	Latitude
1	75.525802	15.179002
2	75.527057	15.184842
3	75.538128	15.184688
4	75.540113	15.191407
5	75.53626	15.199293
6	75.549315	15.211016
7	75.557574	15.209451
8	75.567744	15.19348


Block IV GPS Readings		
Sl no	Longitude	Latitude
9	75.56585	15.179971
10	75.574844	15.180657
11	75.578388	15.193938
12	75.584347	15.17458
13	75.58714	15.16673
14	75.578092	15.160928
15	75.569368	15.17248
16	75.565738	15.158506

Block IV GPS Readings		
Sl no	Longitude	Latitude
17	75.556173	15.173371
18	75.559337	15.180972


Block IV GPS Readings		
Sl no	Longitude	Latitude
19	75.548329	15.185101
20	75.547471	15.180178

Annexure- IVA


Map showing location of Kappathagudda Wildlife Sanctuary in Gadag District



Block map of the Kappathagudda Wildlife Sanctuary




Village map showing Eco-Sensitive Zone along with forest buffer area and prominent points of Kappathagudda WLS




Annexure- IV D

Google Earth map showing boundaries of Kappathagudda Wildlife Sanctuary and its ESZ




Annexure-IV E

Toposheet map of the Kappathagudda Wildlife Sanctuary and its ESZ



Annexure-IV F

LULC map of Eco-Sensitive Zone along with location of villages inside ESZ



Annexure- V

Geo-coordinates of villages falling within the Eco-Sensitive Zone of Kappathagudda Wildlife Sanctuary

Sl. No.	District	Taluk	Name of the Village	Latitude	Longitude
1	Gadag	Gadag	Adavi Somapura	15°21'10.66"N	75°39'22.07"E
2	Gadag	Shirahatti	Adharahalli	15°07'55.47"N	75°34'48.73"E
3	Gadag	Shirahatti	Akkigundha	15°10'55.86"N	75°30'58.94"E
4	Gadag	Mundaragi	Attikatti	15°16'30.53"N	75°38'54.17"E
5	Gadag	Mundaragi	Bagewadi	15°16'30.53"N	75°38'54.17"E
6	Gadag	Shirahatti	Bannikoppa	15°06'04.24"N	75°43'25.04"E
7	Gadag	Gadag	Beladhadi	15°20'37.72"N	75°37'50.50"E
8	Gadag	Shirahatti	Bhavanura	15°07'31.08"N	75°42'15.64"E
9	Gadag	Mundaragi	Bidanala	15°07'22.56"N	75°51'20.75"E
10	Gadag	Shirahatti	Chabbi	15°09'06.44"N	75°35'55.98"E
11	Gadag	Mundaragi	Chikkavaddatti	15°09'42.89"N	75°45'58.82"E
12	Gadag	Mundaragi	Dambala	15°18'05.40"N	75°45'20.73"E
13	Gadag	Shirahatti	Devihala	15°06'24.92"N	75°36'17.15"E
14	Gadag	Mundaragi	Dhindura	15°17'54.59"N	75°39'52.75"E
15	Gadag	Mundaragi	Doni	15°19'20.95"N	75°43'43.19"E
16	Gadag	Mundaragi	Gangapura	15°05'54.68"N	75°51'58.16"E
17	Gadag	Mundaragi	Guddadha Boodhahala	15°09'39.64"N	75°44'21.20"E
18	Gadag	Shirahatti	Hadagali	15°06'33.51"N	75°42'58.88"E
19	Gadag	Mundaragi	Hammagi	15°03'33.08"N	75°48'58.71"E
20	Gadag	Gadag	Hanganakatte	15°13'22.16"N	75°37'12.87"E
21	Gadag	Mundaragi	Harogeri	15°10'49.99"N	75°47'59.89"E
22	Gadag	Mundaragi	Hirevaddatti	15°14'17.86"N	75°47'18.31"E
23	Gadag	Gadag	InamVenkatapura	15°16'35.82"N	75°38'21.38"E
24	Gadag	Shirahatti	Jalligeri	15°13'07.82"N	75°39'21.38"E
25	Gadag	Mundaragi	Jyalawadagi	15°05'11.99"N	75°46'39.71"E

Sl. No.	District	Taluk	Name of the Village	Latitude	Longitude
26	Gadag	Mundaragi	K. Dhampura	15°21'12.45"N	75°42'03.17"E
27	Gadag	Gadag	Kabalayakatti	15°17'14.12"N	75°37'37.38"E
28	Gadag	Shirahatti	Kadakola	15°11'54.76"N	75°41'12.81"E
29	Gadag	Mundaragi	Kalakeri	15°09'03.88"N	75°49'24.50"E
30	Gadag	Mundaragi	Kelur	15°09'04.60"N	75°45'51.49"E
31	Gadag	Shirahatti	Kerehalli	15°04'22.94"N	75°45'33.54"E
32	Gadag	Mundaragi	Korlahalli	15°06'49.42"N	75°51'48.02"E
33	Gadag	Shirahatti	Kundralli	15°08'46.93"N	75°33'13.68"E
34	Gadag	Shirahatti	Kusalapura	15°10'09.18"N	75°40'24.56"E
35	Gadag	Shirahatti	Machenahalli	15°06'59.69"N	75°40'20.24"E
36	Gadag	Shirahatti	Magadi	15°12'05.95"N	75°31'38.18"E
37	Gadag	Shirahatti	Majjura	15°10'34.69"N	75°38'40.98"E
38	Gadag	Mundaragi	Mallikarjunapura	15°05'12.27"N	75°45'09.71"E
39	Gadag	Mundaragi	Mevundi	15°15'01.93"N	75°48'21.26"E
40	Gadag	Mundaragi	Mundawada	15°03'30.60"N	75°47'41.25"E
41	Gadag	Mundaragi	Muradi	15°07'42.36"N	75°45'54.30"E
42	Gadag	Mundaragi	Mushtikoppa	15°09'55.39"N	75°49'12.90"E
43	Gadag	Gadag	Nabapura	15°18'50.17"N	75°36'58.82"E
44	Gadag	Shirahatti	Nadhighatti	15°08'02.27"N	75°34'48.63"E
45	Vijayanagar	Hoovinahadagali	Navali	15°01'47.89"N	75°52'46.62"E
46	Gadag	Shirahatti	Navebavanura	15°08'12.17"N	75°40'40.60"E
47	Gadag	Gadag	Papanasi	15°21'19.98"N	75°40'37.03"E
48	Gadag	Shirahatti	Parasapura	15°13'07.81"N	75°32'40.68"E
49	Gadag	Shirahatti	Ranatura	15°06'67.67"N	75°38'47.92"E
50	Gadag	Mundaragi	Sheeranahalli	15°05'00.07"N	75°52'24.117"E

Sl. No.	District	Taluk	Name of the Village	Latitude	Longitude
51	Gadag	Shirahatti	Shettygeri	15°10'00.74"N	75°32'18.63"E
52	Gadag	Mundaragi	Shingatalura	15°03'45.66"N	75°52'57.47"E
53	Gadag	Mundaragi	Shingatrayanakeri	15°20'48.21"N	75°41'17.26"E
54	Gadag	Shirahatti	Shirahatti	15°12'06.84"N	75°34'25.26"E
55	Gadag	Gadag	Shirunja	15°08'03.76"N	75°37'04.92"E
56	Gadag	Shirahatti	Sogiwala	15°07'20.92"N	75°35'31.41"E
57	Gadag	Gadag	Soratur	15°15'22.26"N	75°37'57.97"E
58	Gadag	Shirahatti	Suganahalli	15°06'54.81"N	75°41'11.42"E
59	Gadag	Shirahatti	Thegginabhavanuru	15°08'27.69"N	75°41'28.46"E
60	Vijayanagar	Hoovinahadagali	Thimmalapura	15°01'44.24"N	75°51'36.59"E
61	Gadag	Shirahatti	Varavi	15°12'07.66"N	75°36'37.80"E
62	Gadag	Mundaragi	Virupapura	15°08'15.42"N	75°49'28.90"E

Annexure- VI**Detailed status of villages falling within the Eco-Sensitive Zone of Kappathagudda Wildlife Sanctuary**

Sl. No.	Village	Section	Range	Taluk	Hobli	Name of the GP	Assembly	Remarks
1	Adavi Somapura	Gadag	Gadag	Gadag	Betageri	Hatalageri	Nargund	Part village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
2	Adharahalli	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Laxmeswar	Adralli	Shirahatti	Only Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
3	Akkigundha	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Laxmeswar	Gojanur	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
4	Attikatti	Doni	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Shivajinagar	Ron	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
5	Bagewadi	Bagewadi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Bagewadi	Shirahatti	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
6	Bannikoppa	Bannikoppa	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Bannikoppa	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
7	Beladhadi	Soratur	Gadag	Gadag	Gadag	Beladadi	Gadag	Only Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
8	Bhavanura	Bannikoppa	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Machenhalli	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
9	Bidanala	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Bidanala	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
10	Chabbi	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Chabbi	Shirahatti	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
11	Chikkavaddatti	Hirevaddatti	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Murudi	Ron	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
12	Dambala	Doni	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Dambal	Ron	Part village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
13	Devihala	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Ranatur	Shirahatti	Part village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
14	Dhindura	Doni	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Shivajinagar	Ron	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
15	Doni	Doni	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Doni	Ron	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
16	Gangapura	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Singatalur	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
17	Guddadha Boodhihala	Bagewadi	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Murudi	Shirahatti	Full Village and list of Sy.Nos Annexed

Sl. No.	Village	Section	Range	Taluk	Hobli	Name of the GP	Assembly	Remarks
18	Hadagali	Bannikoppa	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Bannikoppa	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
19	Hammagi	Bagewadi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Hammagi	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
20	Hanganakatte	Soratur	Gadag	Gadag	Gadag	Soratur	Gadag	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
21	Harogeri	Hirevaddatti	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Harogeri	Ron	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
22	Hirevaddatti	Hirevaddatti	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Hirevaddatti	Ron	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
23	Inam Venkatapura	Soratur	Gadag	Gadag	Gadag	Yalishirur	Gadag	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
24	Jalligeri	Kadakola	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Kadkol	Shirahatti	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
25	Jyalawadagi	Bagewadi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Bagewadi	Shirahatti	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
26	K. Dhampura	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	K. Dhampura	Ron	Part village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
27	Kabalayakatti	Soratur	Gadag	Gadag	Gadag	Beladadi	Gadag	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
28	Kadakola	Kadakola	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Kadkol	Shirahatti	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
29	Kalakeri	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Kalakeri	Shirahatti	Part Village and Buffer forest list of Sy.Nos Annexed
30	Kelur	Bagewadi	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Harogeri	Ron	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
31	Kerehalli	Bannikoppa	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Tarikoppa	Shirahatti	Part village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
32	Korlahalli	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Korlahalli	Shirahatti	Part village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
33	Kundralli	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Laxmeswar	Battur	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
34	Kusalapura	Kadakola	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Majjur	Shirahatti	Part village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
35	Machenahalli	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Machenahalli	Shirahatti	Part village and Forest Sy.Nos

Sl. No.	Village	Section	Range	Taluk	Hobli	Name of the GP	Assembly	Remarks
								(Buffer) and list annexed
36	Magadi	Laxmeshwar	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Magadi	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
37	Majjura	Kadakola	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Majjura	Shirahatti	Full Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
38	Mallikarjunapura	Bagewadi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Bagewadi	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
39	Mevundi	Doni	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Mevundi	Ron	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
40	Mundawada	Bagewadi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Bidaralli	Shirahatti	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
41	Muradi	Bagewadi	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Muradi	Ron	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
42	Mushtikoppa	Hirevaddatti	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Kalkeri	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
43	Nabapura	Soratur	Gadag	Gadag	Gadag	Beladadi	Gadag	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
44	Nadhighatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Laxmeswar	Adralli	Shirahatti	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
45	Navali	Hoovinahada gali	Hoovinaha dagali	Hoovinahada gali	Hoovinahada gali	Navali	Hoovinahada gali	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
46	Navebavanura	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Machenhalli	Shirahatti	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
47	Papanasi	Gadag	Gadag	Gadag	Betageri	Adavisomapur	Nargund	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
48	Parasapura	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Magadi	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
49	Ranatura	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Ranathura	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
50	Sheeranahalli	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	singatlur	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
51	Shettygeri	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Laxmeswar	Battur	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed

Sl. No.	Village	Section	Range	Taluk	Hobli	Name of the GP	Assembly	Remarks
52	Shingatalura	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	singatlur	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
53	Shingatrayanakeri	Doni	Mundaragi	Mundaragi	Dambal	Shivajinagar	Ron	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
54	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	City	Shirahatti	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
55	Shirunja	Sortur	Gadag	Gadag	Gadag	Yalishirur	Gadag	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
56	Sogiwala	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Laxmeswar	Adralli	Shirahatti	Only Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
57	Soratur	Soratur	Gadag	Gadag	Gadag	Soratur	Gadag	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
58	Suganahalli	Bannikoppa	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Bannikoppa	Shirahatti	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
59	Thegginabhavanuru	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Machenahalli	Shirahatti	Full Village and list of Sy.Nos Annexed
60	Thimmalapura	Hoovinahada gali	Hoovinaha dagali	Hoovinahada gali	Hoovinahada gali	Inalli	Hoovinahada gali	Part Village and list of Sy.Nos Annexed
61	Varavi	Kadakola	Shirahatti	Shirahatti	Shirahatti	Chabbi	Shirahatti	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed
62	Virupapura	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Mundaragi	Kalakeri	Shirahatti	Part Village and Forest Sy.Nos (Buffer) and list annexed

Abstract		
Serial Number	Status of villages falling within the ESZ	Nos
1	Full Villages	14
2	Part Villages	25
3	Only Forest Sy. Nos (Buffer)	3
4	Part Village and Buffer forest	20
	Total	62

ANNEXURE- VII

Survey number of villages falling in the Eco Sensitive Zone of Kappathagudda Wildlife Sanctuary

VILLAGE S. NO	S.NO	TALUKA NAME	HOBLI NAME	VILLAGE NAME	SY NO.	AREA (HA)
1	1	GADAG	BETAGERI	ADAVISOMAPUR	107	4.844501
					TOTAL	4.844501
2	2	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	6	4.226135
	3	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	7	2.950617
	4	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	4	1.835005
	5	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	3	1.20617
	6	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	120	4.187509
	7	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	119	0.065493
	8	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	10	2.689441
	9	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	11	4.866736
	10	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	12	6.713838
	11	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	22	8.990865
	12	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.07314
	13	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	21	13.927456
	14	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	12	0.262586
	15	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	23	9.8402
	16	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	26	14.721276
	17	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	27	12.063875
	18	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	ROAD	1.468017
	19	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.33529
	20	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	21	0.67618
	21	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.39622
	22	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	12	0.204471
	23	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	28	9.630632
	24	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	31	11.944717
	25	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	19	13.47854
	26	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	5	1.671049
	27	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	21	0.319071
	28	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	24	8.170907

	29	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	25	11.057013
	30	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	20	4.787595
	31	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	44994	4.937068
	32	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	44966	2.713587
	33	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	44935	2.117874
	34	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	13	6.376881
	35	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	8	5.42219
	36	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	20	2.220495
	37	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.620313
	38	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	18	6.524116
	39	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	17	3.570372
	40	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	29	1.252447
	41	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	2	6.688088
	42	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	30	11.156402
	43	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	16	8.900037
	44	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	15	0.178089
	45	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.128248
	46	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	15	1.579273
	47	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	14	0.4167
	48	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	110	3.148852
	49	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.229041
	50	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	14	1.441137
	51	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.205528
	52	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	44994	0.347751
	53	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	1	7.096872
	54	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.136716
	55	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	66	6.510068
	56	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	44966	0.024713
	57	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.077064
	58	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	6.866035
	59	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	68	5.562694
	60	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	67	1.759202
	61	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	64	4.09236

	62	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	65	3.346
	63	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	108	0.692284
	64	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	SETTLEMENT	5.392379
	65	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	107	0.564407
	66	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	106	2.082996
	67	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	105	8.998365
	68	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	69	10.928671
	69	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	61	5.712822
	70	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	83	5.215259
	71	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	ROAD	2.151028
	72	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	62	3.378614
	73	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	63	0.857598
	74	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	ROAD	0.618348
	75	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	84	3.165726
	76	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	82	3.657521
	77	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	81	4.282803
	78	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	60/1	3.601191
	79	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	59	5.490204
	80	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	45	10.232112
	81	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	43	9.512468
	82	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	46	6.530343
	83	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	70	0.742601
	84	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	36	6.260889
	85	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	85	1.590531
	86	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	79	8.48176
	87	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	80	2.542659
	88	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	60/2	2.696245
	89	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	77	6.445033
	90	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	42	10.031195
	91	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	71	0.658769
	92	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	57	0.902784
	93	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	72	1.892598
	94	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	56	1.494085
	95	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	47	12.028135

	96	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	58	4.124681
	97	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	55	2.680204
	98	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	76	3.088743
	99	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	73	4.737617
	100	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	44	8.377726
	101	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	52/1	7.34948
	102	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	54/1	2.837078
	103	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	37	2.595321
	104	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	53	3.09216
	105	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.850502
	106	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	47	1.49662
	107	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	41	5.129839
	108	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	38	7.185378
	109	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	74	3.369508
	110	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	48	2.654772
	111	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	1.349199
	112	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	48	8.886902
	113	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	40	4.908369
	114	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	39	5.123872
	115	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	STREAM	0.196273
	116	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	40	0.040512
	117	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	AKKIGUNDA	49	0.227209
					TOTAL	487.540645
3	118	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	ROAD	1.61765
	119	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	27	2.609465
	120	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	28	4.82291
	121	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	32/A	36.642838
	122	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	29	3.996264
	123	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	26	0.354584
	124	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	26	5.401608
	125	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	20	10.268755
	126	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	14	4.652669
	127	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	25	1.000149

	128	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	25	5.958192
	129	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	30	7.067231
	130	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	32/B	4.05996
	131	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	17	1.323033
	132	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	21	5.664229
	133	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	23	1.208395
	134	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	23	6.713273
	135	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	24	6.104368
	136	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	2	3.908045
	137	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	STREAM	1.824709
	138	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	5	3.093656
	139	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	6	2.862444
	140	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	8	2.881807
	141	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	9	3.153777
	142	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	13	4.775413
	143	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	1	2.197089
	144	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	31	6.60626
	145	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	22	6.701822
	146	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	22	0.056602
	147	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	21	0.623561
	148	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	56	1.649726
	149	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	ROAD	0.981729
	150	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	40	10.48319
	151	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	42	8.922909
	152	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	43	3.903112
	153	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	ROAD	0.751894
	154	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	7	4.095979
	155	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	54	1.284746
	156	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	10	5.480995
	157	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	12	4.932943
	158	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	53	5.756355
	159	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	SETTLEMENT NEW	4.658795
	160	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	SETTLEMENT NEW	0.032379

	161	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	ROAD	0.10875
	162	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	ROAD	2.057076
	163	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	39	4.628104
	164	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	53	0.21059
	165	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	11	7.403723
	166	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	52	0.921498
	167	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	52	6.723104
	168	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	41	7.674063
	169	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	38	6.4263
	170	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	35	11.12879
	171	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	37	6.535655
	172	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	50	6.045333
	173	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	51	2.705651
	174	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	51	3.819817
	175	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	49	9.584433
	176	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	36	6.739824
	177	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	34	10.672608
	178	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	50	2.061727
	179	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	46	12.007221
	180	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	47	0.193965
	181	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	48	2.552368
	182	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	47	4.522448
	183	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	48	1.700386
	184	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	33	10.702428
	185	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	27	1.777934
	186	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	ROAD	0.200193
	187	MUNDARGI	DAMBALA	ATTIKATTI	ROAD	0.586037
					TOTAL	330.775536
4	188	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	76	12.047725
	189	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	21	13.684597
	190	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	11.070477
	191	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	20	11.258365
	192	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	27	9.881356

	193	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	18	15.048367
	194	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	28	10.016874
	195	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	15	14.4216
	196	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	26	12.823879
	197	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	4.36202
	198	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	14	5.484597
	199	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	17	11.883635
	200	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	13	7.396472
	201	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	12	7.327929
	202	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.00006
	203	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	77	0.002981
	204	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	6.238906
	205	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	195	6.027246
	206	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	16	12.441629
	207	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	11	6.9088
	208	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	2.880844
	209	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	29	13.244581
	210	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	79	9.519168
	211	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	196	7.394292
	212	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	10	6.419825
	213	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	194	9.59691
	214	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.899594
	215	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	9	11.164712
	216	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	193	11.401407
	217	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	79	0.399087
	218	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	32	9.355768
	219	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	197/1	4.556362
	220	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	30	9.791209
	221	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	191	11.628496
	222	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	197/2	2.293565
	223	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	8	5.466998
	224	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	82	11.573529
	225	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	33	13.214439
	226	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	198	7.92283

	227	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	79	0.30081
	228	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	7	5.05911
	229	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	31	11.449953
	230	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.737378
	231	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.222171
	232	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	6	3.294358
	233	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	82	0.268125
	234	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	5	2.281705
	235	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	199	13.613068
	236	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	190	6.167895
	237	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	4	5.513247
	238	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	37	11.204212
	239	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.000205
	240	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	81	0.000381
	241	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	36	3.888
	242	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	3	9.078756
	243	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.383919
	244	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	83	0.480046
	245	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	85	5.125732
	246	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.221648
	247	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	38	10.797107
	248	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	02-FEB	6.021134
	249	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	01-FEB	4.988061
	250	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	189	7.208672
	251	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	85	0.695727
	252	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	35	5.063327
	253	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	54	9.295258
	254	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	84	0.685247
	255	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.596516
	256	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	151	7.568054
	257	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	39	11.501951
	258	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	90	1.563147
	259	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	34	12.425648

	260	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	3.297725
	261	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	51	11.67981
	262	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	1	6.914486
	263	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	91	9.871182
	264	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.02981
	265	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.346743
	266	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	84	0.626049
	267	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.258634
	268	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	85	1.63014
	269	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	40	10.798904
	270	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	88	0.15812
	271	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.281095
	272	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.194489
	273	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	2.341918
	274	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	87	1.045963
	275	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	180	5.242695
	276	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	87	10.872263
	277	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	41	7.666982
	278	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	47	5.699788
	279	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.552904
	280	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	50	10.540053
	281	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	188	12.655738
	282	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	48	3.824435
	283	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	187	13.089963
	284	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	46	5.967483
	285	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	42	4.743072
	286	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	SETTLEMENT	10.88316
	287	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	45	5.254388
	288	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	43	10.508964
	289	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	44	6.494933
	290	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	125	0.984324
	291	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	49	1.790652
	292	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	126	0.997929
	293	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	93	7.641054

	294	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	131	0.759432
	295	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	3.874347
	296	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	132	0.338549
	297	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	135	0.286514
	298	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	124	8.291461
	299	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	136	0.505358
	300	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	186	14.261054
	301	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	127	5.241503
	302	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	146	1.179003
	303	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	143	0.558028
	304	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	130	5.261979
	305	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	133	5.431082
	306	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	134	5.986508
	307	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	137/1	4.823148
	308	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	94	6.649087
	309	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	142	6.027912
	310	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	5.801979
	311	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	144	0.22312
	312	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	147	8.039858
	313	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	185	6.072972
	314	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	145	10.434918
	315	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	141	6.010093
	316	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.660953
	317	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	123	14.849097
	318	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	148	2.840205
	319	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	149	1.205422
	320	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	140	3.426821
	321	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	175	13.654597
	322	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	128	6.716349
	323	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	184	6.365321
	324	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	173	6.751812
	325	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	129	6.693906
	326	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	150	0.273395

	327	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	137/2	1.02855
	328	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	139	3.278928
	329	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	174	0.257378
	330	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	1.895696
	331	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	138	7.359663
	332	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	172	7.440582
	333	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	171	13.638665
	334	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	152	6.42885
	335	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	176	0.271416
	336	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	179	7.978525
	337	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	178	6.759724
	338	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	182	7.116766
	339	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	177	6.775834
	340	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	153	8.930877
	341	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.000113
	342	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	122	7.36559
	343	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	154	4.733274
	344	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	121	5.299391
	345	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	107	11.986369
	346	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	119	7.894489
	347	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	120	6.477062
	348	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	155	4.205532
	349	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	170	11.82045
	350	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	169	7.993293
	351	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	163	15.28425
	352	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	118	6.13061
	353	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	155	1.818245
	354	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.987722
	355	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	164	5.220141
	356	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	117	6.743593
	357	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	0.791043
	358	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	181	1.315413
	359	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	165	4.327496
	360	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	166	13.554066

	361	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	105	1.002263
	362	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	116	10.884783
	363	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	115	5.569855
	364	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	STREAM	3.652063
	365	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	167	12.852745
	366	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	113	12.492931
	367	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	156	8.784796
	368	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	168	0.055378
	369	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	114	3.956946
	370	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	107	0.484375
	371	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	ROAD	0.087911
	372	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	162	13.152965
	373	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	112	13.346995
	374	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	157	8.14608
	375	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	111	4.796902
	376	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	108	9.670414
	377	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	109	11.53033
	378	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	110	11.616393
	379	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	158	9.49951
	380	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	160	4.956032
	381	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	161	6.188667
	382	MUNDARGI	MUNDARAGI	BAGEVADI	159	13.75042
					TOTAL	1198.72168
5	383	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	STREAM	0.741775
	384	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	276	1.652148
	385	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	278	1.629221
	386	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	279	2.449759
	387	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	277	0.428477
	388	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	SETTLEMENT	2.209864
	389	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	101	5.897186
	390	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	100	2.502487
	391	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	ROAD	0.77947
	392	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	106	3.148168

	393	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	102A	0.000313
	394	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	107	4.161841
	395	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	ROAD	1.56865
	396	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	108	6.695598
	397	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	109	3.177929
	398	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	111	3.438345
	399	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	110	2.961075
	400	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	112	8.81108
	401	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	113	7.942392
	402	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	114	2.904061
	403	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	116	9.976767
	404	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	118	11.017034
	405	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	117	9.656407
	406	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	115	4.424704
	407	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	130	0.051882
	408	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	129	0.165199
	409	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	128	0.386404
	410	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	127	0.716265
	411	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	126	1.394676
	412	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	123	2.614978
	413	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	122	2.680493
	414	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	121	1.593151
	415	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	119	1.052947
	416	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	120	4.98044
	417	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	25	8.692963
	418	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	23	8.901343
	419	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	26	6.588687
	420	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	20	8.831302
	421	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	19	6.802206
	422	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	22	7.393256
	423	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	18	7.730858
	424	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	21	9.85501
	425	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	11	11.105415
	426	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	14	12.806518

	427	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	12	8.752518
	428	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	ROAD	2.876787
	429	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	17	12.233126
	430	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	28	12.684989
	431	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	13	5.588918
	432	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	10	9.626869
	433	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	16	5.334934
	434	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	29	3.687572
	435	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	9	7.804992
	436	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	15	8.236296
	437	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	6	6.365865
	438	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	35	8.105298
	439	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	36	13.374059
	440	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	30	10.069821
	441	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	39	6.691315
	442	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	31	2.258449
	443	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	5	11.476826
	444	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	40	9.077073
	445	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	4	7.268014
	446	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	8	8.949115
	447	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	32	7.324305
	448	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	7	7.266467
	449	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	45	6.151557
	450	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	34	7.719026
	451	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	33	9.430612
	452	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	ROAD	1.560196
	453	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	44	5.357254
	454	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	97	5.261615
	455	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	43	2.762257
	456	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	46	9.45975
	457	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	96	1.002955
	458	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	95	3.83138
	459	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	90	4.545844

	460	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	41	3.598893
	461	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	89	3.960147
	462	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	86	5.434098
	463	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	52	9.124317
	464	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	47	4.832264
	465	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	69	12.342723
	466	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	83	2.982771
	467	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	42	8.563347
	468	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	3	4.39355
	469	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	84	0.555316
	470	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	STREAM	19.976178
	471	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	51	7.347267
	472	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	53	1.650627
	473	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	74	6.76174
	474	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	48	4.643229
	475	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	98	3.899159
	476	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	2	0.839174
	477	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	82	1.392397
	478	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	70	3.680388
	479	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	280	0.801103
	480	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	54	5.667887
	481	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	1	2.451987
	482	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	68	3.958121
	483	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	73	1.792599
	484	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	93	0.322099
	485	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	ROAD	5.559203
	486	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	75	2.319883
	487	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	72	9.673495
	488	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	81	1.658985
	489	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	77	1.352522
	490	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	80	1.488175
	491	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	71	0.622597
	492	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	66	6.355684
	493	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	87	2.983821

	494	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	67	7.678317
	495	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	76	1.878035
	496	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	88	3.560284
	497	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	55	4.956648
	498	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	91	0.60824
	499	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	92	0.577409
	500	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	94	0.663137
	501	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	50	2.69868
	502	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	49	0.899432
	503	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	99	0.960068
	504	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	56	9.453683
	505	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	79	2.400879
	506	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	78	11.382965
	507	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	65	10.011256
	508	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	57	5.029862
	509	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	64	9.110639
	510	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	61	3.59065
	511	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	59	11.640839
	512	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	63	3.54333
	513	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	62	2.461916
	514	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BANNIKOPPA	60	3.115821
					TOTAL	683.862634
	515	GADAG	GADAGA	BELADADI	MISSING	0.030082
	516	GADAG	GADAGA	BELADADI	MISSING	0.05797
	517	GADAG	GADAGA	BELADADI	MISSING	13.564554
					TOTAL	13.652606
	518	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	142	5.40502
	519	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	124	5.434368
	520	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	49	3.156846
	521	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	154	3.788986
	522	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	123	5.735323
	523	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	153	0.056064
	524	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	122	5.687209

	525	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	141	2.403467
	526	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	121	8.556923
	527	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	147	3.927374
	528	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	125	10.353174
	529	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	126	10.879582
	530	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	120	8.947223
	531	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	148	5.871692
	532	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	51	5.776287
	533	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	127	8.334499
	534	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	50	8.496469
	535	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	140	7.147092
	536	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	152	7.238702
	537	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	128	10.744436
	538	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	139	8.595414
	539	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	137	6.793415
	540	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	54	1.078099
	541	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	136	11.426771
	542	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	55	2.638667
	543	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	129	8.558382
	544	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	23	0.498167
	545	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	22	0.190946
	546	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	21	0.001064
	547	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	29	0.65633
	548	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	150	6.832468
	549	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	24	1.818961
	550	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	132	10.363571
	551	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	149	7.657715
	552	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	25	2.154628
	553	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	131	6.377168
	554	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	62	2.667455
	555	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	130	6.976902
	556	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	151	7.378031
	557	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	61	4.116107
	558	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	60	9.119464

	559	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	59	8.033617
	560	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	58	7.300417
	561	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	138	7.546931
	562	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	57	2.5099
	563	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	135	6.429146
	564	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	56	1.248456
	565	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	81	4.517006
	566	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	82	8.623561
	567	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	83	8.576729
	568	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	16	0.017877
	569	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	8	0.250585
	570	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	133	7.398827
	571	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	134	5.27897
	572	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	78	8.699165
	573	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	15	0.407694
	574	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	11	3.905834
	575	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	12	1.835213
	576	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	13	1.258724
	577	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	14	0.506157
	578	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	80	4.906337
	579	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	84	7.737263
	580	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	77	3.575044
	581	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	10	2.431105
	582	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	9	7.090578
	583	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	92	9.994221
	584	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	62	5.846557
	585	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	75	2.794924
	586	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	64	0.426119
	587	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	74	1.103172
	588	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	65	7.21796
	589	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	74	0.662541
	590	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	91	2.874726
	591	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	90	7.867476

	592	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	73	9.978985
	593	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	76	0.931379
	594	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	79	5.367822
	595	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	95	3.993901
	596	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	72	5.383618
	597	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	71	6.469081
	598	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	66	6.215148
	599	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	69	10.504204
	600	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	93	5.145132
	601	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	67	7.567065
	602	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	68	6.683971
	603	MUNDARGI	MUNDARAGI	BEEDANALA	STREAM	1.731831
					TOTAL	479.990642
7	604	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	38	6.2239
	605	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	33	3.756679
	606	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	46	7.568292
	607	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	39	10.687631
	608	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	45	12.633554
	609	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	32	9.906389
	610	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	41	7.330006
	611	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	STREAM	5.41839
	612	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	25	8.309636
	613	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	31	8.890165
	614	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	47	7.866668
	615	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	24	5.293316
	616	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	49	5.882581
	617	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	27	8.343246
	618	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	30	11.267957
	619	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	23	8.533276
	620	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	48	9.236649
	621	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	STREAM	0.835852
	622	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	25	5.899942
	623	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	STREAM	0.262364
	624	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	50	10.49734

	625	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	STREAM	0.966149
	626	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	24	0.097244
	627	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	26	14.427511
	628	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	23	4.666873
	629	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	28	9.087384
	630	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	51	5.850932
	631	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	52	9.072558
	632	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	22	9.453887
	633	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	STREAM	2.646691
	634	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	21	8.502017
	635	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	53	5.606844
	636	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	29	6.471297
	637	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	54	10.536292
	638	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	20	3.291278
	639	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	19	2.802625
	640	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	18	5.084014
	641	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	16	1.969833
	642	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	15	1.671216
	643	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	7	0.824966
	644	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	14	2.640198
	645	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	55	0.473586
	646	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	56	0.188349
	647	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	13	4.567445
	648	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	12-JAN	1.981731
	649	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	12-FEB	0.613346
	650	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	BHAVANURA	11	0.243523
					TOTAL	268.381622
8	651	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	214	4.57371
	652	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	215	0.296301
	653	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	213	5.25764
	654	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	211	13.60474
	655	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	212	5.672737
	656	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	153	5.274473

	657	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	400	0.153047
	658	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	399	0.179031
	659	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	ROAD	4.870185
	660	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	151	0.357692
	661	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	152	5.281242
	662	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	209	8.824046
	663	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	154	9.748545
	664	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	155	12.652679
	665	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	156	8.133637
	666	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	158	11.799978
	667	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	157	7.177781
	668	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	159	7.304959
	669	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	179	8.322135
	670	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	160	7.308439
	671	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	139	2.332346
	672	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	197	8.47509
	673	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	198	8.669582
	674	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	176	3.144179
	675	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	199	10.606603
	676	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	178	2.810092
	677	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	161	5.297718
	678	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	177	5.05925
	679	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	175	5.053714
	680	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	174/4	0.898574
	681	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	174/2	1.063924
	682	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	174/1	0.69606
	683	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	173/1	0.731176
	684	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	173/2	0.415297
	685	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	173/3	0.733414
	686	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	173/4	1.007392
	687	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	172	0.515912
	688	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	180	10.90673
	689	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	162	2.209407
	690	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	174/3	0.95009

	691	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	163	4.428267
	692	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	181	5.869064
	693	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	196	8.872247
	694	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	182	4.849221
	695	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	171	0.16028
	696	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	192	11.156034
	697	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	195	7.933023
	698	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	164	10.824816
	699	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	138	1.600328
	700	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	165	0.132906
	701	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	193	8.809396
	702	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	194	9.071197
	703	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	183	1.324574
	704	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	191	5.863227
	705	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	134	1.098714
	706	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	189	1.761815
	707	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	398	2.086732
	708	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	188	0.034614
	709	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	133	8.270939
	710	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	132	5.420303
	711	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	131	3.021464
	712	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	130	0.288819
	713	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	116	6.24349
	714	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	117	1.640894
	715	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	118	0.008713
	716	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	20	0.004601
	717	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	ROAD	0.630828
	718	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	13	6.625613
	719	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	10	10.108096
	720	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	SETTLEMENT	9.272392
	721	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	ROAD	1.896381
	722	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	1	1.044635
	723	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	2	4.976526

	724	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	4	9.449422
	725	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	9	13.860352
	726	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	148	5.194204
	727	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	147	5.354301
	728	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	5	3.092971
	729	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	6	7.528399
	730	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	149	7.364201
	731	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	11	8.140158
	732	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	8	10.150613
	733	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	150	1.21785
	734	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	151/B	3.107408
	735	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	7	9.438329
	736	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	145	3.458408
	737	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	33	11.265166
	738	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	3	1.130718
	739	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	146	10.092809
	740	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	144	10.041738
	741	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	34	10.183933
	742	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	143	7.373865
	743	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	35	12.032405
	744	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	41	10.011067
	745	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	142	11.272701
	746	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	40	11.300006
	747	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	140	6.332047
	748	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	36	10.566482
	749	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	39	11.997868
	750	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	47	12.269834
	751	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	141	5.223001
	752	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	137	5.714234
	753	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	37	6.502559
	754	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	136	10.693113
	755	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	48	6.921925
	756	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	49	9.807077
	757	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	135	3.429907

	758	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	113	5.286172
	759	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	112	9.951617
	760	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	50	7.451319
	761	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	51	11.776394
	762	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	52	8.798111
	763	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	114	8.696247
	764	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	111	8.770896
	765	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	110	7.650095
	766	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	115	7.536943
	767	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	61	11.070763
	768	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	64	7.758215
	769	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	65	7.167819
	770	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	58	4.43364
	771	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	109	6.64092
	772	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	108	8.177303
	773	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	63	6.033816
	774	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	59	8.082693
	775	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	66	6.226512
	776	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	60	8.043902
	777	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	106	6.703452
	778	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	62	8.22417
	779	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	107	2.585745
	780	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	71	7.744939
	781	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	67	8.222305
	782	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	70	7.825523
	783	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	105	3.734822
	784	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	69	8.007699
	785	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	78	7.918797
	786	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	68	8.034916
	787	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	79	8.165037
	788	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	97	7.909919
	789	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	80	8.09927
	790	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	98	1.497316

	791	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	81	7.836496
	792	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	96	8.116452
	793	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	82	17.11257
	794	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	95	4.083221
	795	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	84	19.031588
	796	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	83	22.144162
	797	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	85	3.58198
	798	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	315	5.516903
	799	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	319	9.085126
	800	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	316	4.662554
	801	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	321	11.365866
	802	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	317	4.909383
	803	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	322	6.737141
	804	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	318	5.350265
	805	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	336	6.311606
	806	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	320	10.450823
	807	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	ROAD	0.75698
	808	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	307	3.190184
	809	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	306	13.491787
	810	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	323	6.489005
	811	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	305	2.744617
	812	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	335	8.517307
	813	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	325	9.222016
	814	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	304	1.846035
	815	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	381	17.999777
	816	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	324	10.071738
	817	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	300	1.64858
	818	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	334	8.453682
	819	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	299/1	4.878407
	820	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	326	6.607266
	821	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	333	8.582503
	822	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	298	2.170474
	823	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	327	8.720038
	824	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	297	1.416568

	825	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	299/2	2.865488
	826	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	382	2.157867
	827	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	380	6.688611
	828	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	379	9.950254
	829	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	383	1.71061
	830	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	378	8.228133
	831	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	384	6.405637
	832	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	385	8.41396
	833	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	371	8.380495
	834	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	372	5.088054
	835	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	377	9.738682
	836	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	386	5.189882
	837	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	387	8.160069
	838	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	370	8.452516
	839	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	293	3.999707
	840	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	373	10.106506
	841	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	374	7.479287
	842	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	376	8.362173
	843	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	ROAD	1.790702
	844	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	294	0.12537
	845	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	388	2.303188
	846	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	368	4.498529
	847	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	291	2.601498
	848	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	369	3.257314
	849	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	292	1.065873
	850	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	390	5.020445
	851	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	389/1	5.411693
	852	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	366/1	1.041145
	853	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	367	0.973625
	854	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	375	7.891618
	855	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	366/2	1.016773
	856	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	391	2.967548
	857	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	365	5.44308

	858	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	366/3	4.076491
	859	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	389/2	4.896942
	860	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	392	2.744013
	861	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	363/4	0.729926
	862	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	346	0.002367
	863	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	363/3	0.490629
	864	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	363/2	3.358783
	865	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	362	2.594669
	866	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	364	3.976594
	867	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	363/1	3.469901
	868	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	394	1.051002
	869	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	358	8.456487
	870	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	278	8.923701
	871	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	395/2	0.801249
	872	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	395/1	2.234507
	873	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	396/1	2.119264
	874	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	396/2	1.262902
	875	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	396/3	1.147477
	876	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	397	2.106625
	877	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	218	1.253769
	878	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	361	12.870084
	879	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	359	10.821789
	880	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	217	1.342037
	881	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	360	12.32865
	882	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	216	1.372318
	883	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	401	1.06696
	884	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	1	0.150005
	885	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	2	0.157454
	886	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	3	0.119289
	887	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	XX	272.027173
	888	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	CHABBI	XX	137.529729
					TOTAL	1794.818272
9	889	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	124	8.076529
	890	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	123	3.443137

	891	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	122	6.958443
	892	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	125	7.486215
	893	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	166	8.188159
	894	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	165	4.681073
	895	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	ROAD	1.883309
	896	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	121	4.256755
	897	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	120	9.106743
	898	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	171	2.581458
	899	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	164	7.86629
	900	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	173	9.439342
	901	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	172	11.426475
	902	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	12	8.837749
	903	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	174	5.386467
	904	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	119	4.681479
	905	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	13	8.083384
	906	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	118	9.868509
	907	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	117	6.174574
	908	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	115	3.044129
	909	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	114	5.67596
	910	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	113	3.849633
	911	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	14	7.190136
	912	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	11	11.086207
	913	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	9	11.155368
	914	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	15	7.881137
	915	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	16	5.767565
	916	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	18	10.696111
	917	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	3	5.776339
	918	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	1	8.454881
	919	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	2	5.057839
	920	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	ROAD	1.415124
	921	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	100	5.940482
	922	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	4	5.367267
	923	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	116	2.858564

	924	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	176	0.285935
	925	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	17	6.224868
	926	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	22	6.680795
	927	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	19	7.222843
	928	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	10	1.555444
	929	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	99	6.762945
	930	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	5/A/1	4.921996
	931	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	6	5.402918
	932	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	101	5.644858
	933	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	21	8.77658
	934	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	20	7.855293
	935	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	8	10.851076
	936	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	175_TANK	1.955289
	937	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	7	8.359286
	938	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	8	0.269623
	939	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	97	2.824609
	940	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	24	8.738278
	941	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	98	5.271382
	942	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	SETTLEMENT	4.268874
	943	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	3/A/1	0.118343
	944	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	5/A/2	0.084416
	945	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	5/A	0.154083
	946	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	ROAD	1.291808
	947	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	72	7.559568
	948	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	ROAD	0.659116
	949	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	66	2.190194
	950	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	67	8.513083
	951	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	96	8.408886
	952	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	69	5.152097
	953	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	68	1.824092
	954	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	73	9.414928
	955	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	70	9.210019
	956	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	51	6.573155
	957	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	62	11.280449

	958	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	XX	0.494349
	959	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	61	4.124505
	960	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	93	1.007985
	961	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	50	2.444438
	962	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	52	8.651506
	963	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	60	5.344865
	964	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	94	5.544717
	965	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	46	0.000374
	966	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	STREAM	1.66046
	967	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	53	5.977013
	968	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	29	11.155511
	969	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	49	7.210906
	970	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	ROAD	1.306242
	971	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	59	7.333483
	972	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	92	1.305883
	973	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	91	1.849664
	974	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	33	7.647161
	975	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	90	2.014152
	976	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	48	6.497863
	977	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	88	1.662097
	978	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	54	11.879023
	979	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	89	3.191348
	980	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	43	12.386603
	981	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	44	7.099136
	982	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	55	9.968908
	983	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	35	6.333339
	984	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	87	2.293358
	985	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	86	2.728566
	986	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	34	6.893445
	987	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	42	6.281548
	988	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	32	7.793432
	989	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	63	5.019236
	990	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	84	2.519126

	991	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	85	3.367285
	992	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	65	2.323083
	993	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	83	5.049977
	994	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	41	7.687366
	995	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	82	4.923675
	996	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	56	8.344843
	997	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	58	7.750354
	998	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	40	12.072657
	999	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	79	8.673042
	1000	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	64	4.556563
	1001	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	39	7.354143
	1002	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	36	9.213194
	1003	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	57	10.229131
	1004	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	31	9.994396
	1005	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	30	10.843134
	1006	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	74	4.067924
	1007	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	71	4.41631
	1008	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	78	4.977459
	1009	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	77	4.794553
	1010	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	38	5.248195
	1011	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	76	5.076961
	1012	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	37	9.445658
	1013	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	STREAM	2.879759
	1014	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	75	3.702727
	1015	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	107	9.839965
	1016	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	108	7.326831
	1017	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	106	5.333379
	1018	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	105	7.667849
	1019	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	109	4.815308
	1020	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	110	4.395031
	1021	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	111	4.306006
	1022	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	112	4.130171
	1023	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	104	8.578361
	1024	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	103	8.687473

	1025	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	102	2.682294
	1026	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	95	6.023345
	1027	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	81	0.495399
	1028	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	80	0.673039
	1029	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	STREAM	5.315297
	1030	MUNDARGI	DAMBALA	CHIKKAVADDATTI	STREAM	0.36437
					TOTAL	811.19671
10	1031	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	STREAM	1.331684
	1032	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	ROAD	2.528716
	1033	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	384	2.542335
	1034	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	385	4.312795
	1035	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	389	6.084249
	1036	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	404	6.599909
	1037	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	405	9.059921
	1038	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	407	9.340021
	1039	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	408	9.194637
	1040	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	409	2.567311
	1041	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	151	0.279942
	1042	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	152	3.277127
	1043	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	153	2.057083
	1044	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	156	2.14987
	1045	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	157	1.24836
	1046	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	STREAM	0.691009
	1047	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	162	0.277381
	1048	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	390	11.734553
	1049	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	397	0.887795
	1050	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	394	6.395003
	1051	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	396	7.054712
	1052	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	395	7.077598
	1053	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	386	2.39854
	1054	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	393	7.787663
	1055	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	386	5.293565
	1056	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	380	9.810308

	1057	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	STREAM	4.061724
	1058	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	383	8.598897
	1059	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	388	8.955566
	1060	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	391	2.952136
	1061	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	387	8.838489
	1062	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	ROAD	4.390503
	1063	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	382	4.200733
	1064	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	392	3.124788
	1065	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	379	0.444197
	1066	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	379	7.008315
	1067	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	381	10.669898
	1068	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	343	4.352492
	1069	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	339	3.27711
	1070	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	342	4.32155
	1071	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	340	2.127047
	1072	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	XX	9.124408
	1073	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	220	2.823541
	1074	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	221	0.0777
	1075	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	222	4.88487
	1076	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	STREAM	1.588245
	1077	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	338	4.554729
	1078	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	224	8.548193
	1079	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	223	5.468434
	1080	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	369	0.583049
	1081	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	372	0.041133
	1082	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	370	0.516365
	1083	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	371	0.360246
	1084	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	372	2.061634
	1085	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	341	0.813194
	1086	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	345	3.347803
	1087	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	344	3.902396
	1088	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	372	0.88195
	1089	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	337	5.141949
	1090	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	371	5.937118

	1091	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	370	5.158371
	1092	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	369	9.574853
	1093	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	335	9.742053
	1094	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	377	1.144836
	1095	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	342	0.363335
	1096	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	336	7.636911
	1097	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	344	2.082803
	1098	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	376	6.186392
	1099	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	225	4.990921
	1100	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	373	4.028395
	1101	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	367	6.478456
	1102	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	375	7.078139
	1103	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	373	0.061884
	1104	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	368	2.256383
	1105	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	218	7.240607
	1106	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	226	9.04
	1107	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	TANK	0.10632
	1108	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	334	2.162793
	1109	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	333	8.612493
	1110	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	374	7.730808
	1111	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	366	3.39872
	1112	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	365	6.0814
	1113	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	363	8.076866
	1114	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	217	5.477212
	1115	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	227	5.694428
	1116	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	332	6.230761
	1117	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	364	8.461683
	1118	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	228	6.445211
	1119	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	362	7.471546
	1120	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	331	5.313018
	1121	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	230	3.552758
	1122	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	229	9.532512
	1123	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	ROAD	0.602178

	1124	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	359	9.4319
	1125	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	330	4.549645
	1126	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	STREAM	4.438537
	1127	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	360	6.19175
	1128	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	361	6.354306
	1129	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	325	7.724663
	1130	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	326	10.153555
	1131	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	324	10.513536
	1132	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	231	4.459748
	1133	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	895	0.419176
	1134	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	329	5.000875
	1135	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	358	7.914427
	1136	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	357	3.433501
	1137	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	356	7.76561
	1138	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	328	4.802173
	1139	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	327	5.220221
	1140	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	313	4.024677
	1141	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	323	3.792158
	1142	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	354	8.321493
	1143	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	355	8.661956
	1144	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	312	5.785282
	1145	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	322	1.781701
	1146	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	314	1.980917
	1147	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	309	2.828483
	1148	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	310	2.51771
	1149	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	315	4.29624
	1150	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	319	0.201723
	1151	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	311	5.644082
	1152	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	308	3.129104
	1153	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	317	3.64149
	1154	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	316	3.598333
	1155	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	305	3.853386
	1156	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	304	6.077055
	1157	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	243	0.000082

	1158	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	318	3.712887
	1159	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	307	1.478509
	1160	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	306	1.734253
	1161	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	256	9.597544
	1162	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	299	8.3441
	1163	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	255	2.632824
	1164	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	300	3.156068
	1165	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	303	4.156709
	1166	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	351	6.478218
	1167	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	298	6.018219
	1168	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	301	2.720079
	1169	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	302	3.150698
	1170	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	347B	0.793499
	1171	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	350	5.991247
	1172	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	296	3.382161
	1173	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	297	7.705998
	1174	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	253	1.459143
	1175	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	257	6.964613
	1176	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	294	9.238159
	1177	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	295	7.736921
	1178	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	252	1.40448
	1179	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	259	5.24785
	1180	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	258	10.507487
	1181	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	293	10.251015
	1182	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	265	0.490903
	1183	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	292	8.423662
	1184	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	266	7.455736
	1185	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	267	9.10986
	1186	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	291	6.51028
	1187	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	268	8.851751
	1188	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	289	6.222117
	1189	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	290	6.113965
	1190	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	281	8.76179

	1191	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	TANK	0.214323
	1192	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	280	8.110412
	1193	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	282	1.200798
	1194	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	ROAD	0.334308
	1195	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	283	7.557473
	1196	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	288	8.468496
	1197	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	279	4.434133
	1198	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	284	7.949416
	1199	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	287	5.497543
	1200	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	278	5.437016
	1201	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	285	8.485662
	1202	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	276	1.808669
	1203	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	286	7.288958
	1204	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	277	2.716815
	1205	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	402_TANK	45.615839
	1206	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	420	0.014242
	1207	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	417	0.496148
	1208	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	421	0.078624
	1209	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	402_TANK	1.844816
	1210	MUNDARGI	DAMBALA	DAMBALA	STREAM	0.530336
					TOTAL	910.373802
11	1211	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	88	5.443636
	1212	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	87	4.661823
	1213	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	89	3.442343
	1214	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	90	10.3938
	1215	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	71	6.411035
	1216	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	86	8.200948
	1217	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	70	7.738748
	1218	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	91	5.143753
	1219	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	65	6.637607
	1220	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	85	12.931864
	1221	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	72	6.778987
	1222	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	64	5.188918
	1223	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	53	6.085446

	1224	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	69	4.925527
	1225	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	66	7.539345
	1226	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	52	0.259441
	1227	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	63	4.779001
	1228	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	73	7.466671
	1229	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	84	11.328408
	1230	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	92	4.335655
	1231	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	68	8.47826
	1232	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	67	7.848627
	1233	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	62	5.955783
	1234	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	54	0.408419
	1235	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	94	9.509223
	1236	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	83	5.078984
	1237	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	93	0.834039
	1238	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	74	7.700006
	1239	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	60	3.00664
	1240	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	61	0.042452
	1241	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	82	7.477501
	1242	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	75	2.349352
	1243	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	95	9.498556
	1244	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	96	6.924656
	1245	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	81	2.771948
	1246	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	80	0.001203
	1247	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	DEVIHALA	97	0.078269
					TOTAL	207.656874
12	1248	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	20	6.620384
	1249	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	STREAM	1.246197
	1250	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	20	2.121851
	1251	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	21	1.827656
	1252	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	STREAM	7.811607
	1253	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	21	4.202427
	1254	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	19	9.379098
	1255	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	25	9.700196

	1256	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	18	11.138295
	1257	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	26	7.873966
	1258	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	24	5.351184
	1259	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	23	5.251518
	1260	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	17	11.719418
	1261	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	27	5.715051
	1262	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	2	6.777142
	1263	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	1	10.032905
	1264	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	16	8.368995
	1265	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	3	6.986836
	1266	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	28	7.273654
	1267	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	29_SETTLEMENT	1.042326
	1268	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	14	9.078604
	1269	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	4	9.621808
	1270	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	13	9.34068
	1271	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	6	8.267248
	1272	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	5	7.980473
	1273	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	7	4.074478
	1274	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	8	7.254848
	1275	MUNDARGI	DAMBALA	DINDURA	9	5.433696
					TOTAL	191.492541
13	1276	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	9.442824
	1277	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	ROAD	1.792239
	1278	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.693345
	1279	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	97	6.548743
	1280	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	99	4.675838
	1281	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	101	4.564208
	1282	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	102	5.223982
	1283	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	103	11.741101
	1284	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	104	2.852911
	1285	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	104	1.004132
	1286	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	105	10.947553
	1287	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	106	4.458543
	1288	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	107	7.786605

	1289	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	108	8.92695
	1290	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	109	10.294283
	1291	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	110	6.282748
	1292	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	113	7.826591
	1293	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	114	10.393146
	1294	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	115	10.24968
	1295	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	116	6.60034
	1296	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	117	4.471885
	1297	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	118	10.732409
	1298	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	119	6.53541
	1299	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	120	10.600538
	1300	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	121	2.341014
	1301	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	131	5.07409
	1302	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	132	5.01727
	1303	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	133	3.086027
	1304	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	134	4.351438
	1305	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	135	10.707567
	1306	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	136	6.464124
	1307	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	137	3.95707
	1308	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	138	8.572819
	1309	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	122	1.337861
	1310	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	100	1.427127
	1311	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	98	1.162705
	1312	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	140	5.969742
	1313	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.000604
	1314	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	139	5.110296
	1315	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	216	7.567731
	1316	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	1.509389
	1317	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	213/A	0.661927
	1318	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	215	4.40645
	1319	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	214	1.839237
	1320	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	219	0.105754
	1321	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.523436

	1322	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	214	6.560988
	1323	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	215	3.407586
	1324	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	215	2.166277
	1325	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	4.708683
	1326	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	212	9.313812
	1327	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	175	3.971677
	1328	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	209	4.688726
	1329	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	176	6.551109
	1330	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	170	2.97168
	1331	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	210	1.770411
	1332	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	185	4.273365
	1333	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	184	5.185652
	1334	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	183	8.448317
	1335	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	174	4.514548
	1336	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	186	4.137158
	1337	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	171	7.147522
	1338	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	177	5.38567
	1339	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	187	11.920411
	1340	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	173	5.322294
	1341	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	172	6.316841
	1342	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	205	3.975054
	1343	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	182	6.491694
	1344	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	203	6.403192
	1345	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	202	8.766654
	1346	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	178	3.619141
	1347	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	181	5.60976
	1348	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	180	7.497193
	1349	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	179	5.01215
	1350	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	204	7.027263
	1351	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	168	5.983207
	1352	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	201	3.291797
	1353	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	188	5.062442
	1354	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	189	4.434381
	1355	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	200	6.740912

	1356	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	167	6.845337
	1357	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	166	8.207793
	1358	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	329	3.345503
	1359	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	328	8.279362
	1360	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	326	5.528282
	1361	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	330	6.38917
	1362	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	325	7.239199
	1363	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	323	2.083983
	1364	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	327	7.975419
	1365	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.695054
	1366	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	323	4.855508
	1367	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	220	6.214837
	1368	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	324	3.042825
	1369	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	8.71792
	1370	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	332	9.855628
	1371	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	331	0.600596
	1372	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	310	4.946961
	1373	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	221	7.09005
	1374	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	1.073328
	1375	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	309	3.274795
	1376	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	327	0.161498
	1377	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	324	6.013222
	1378	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	333	1.993254
	1379	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	312	6.29623
	1380	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	307	3.058772
	1381	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	322	7.630425
	1382	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	308	7.358242
	1383	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	311	6.732865
	1384	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	321	4.826013
	1385	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	222	10.152774
	1386	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	306	1.05508
	1387	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	223	11.619618
	1388	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	304	2.584848

	1389	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	313	2.325392
	1390	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	303	0.854357
	1391	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	320	6.332842
	1392	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	314	3.20388
	1393	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	302	0.069758
	1394	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	316	6.466381
	1395	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	318	8.032201
	1396	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	319	6.699187
	1397	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	224	6.927238
	1398	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	315	1.327517
	1399	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	300	0.104022
	1400	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	225	6.656798
	1401	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	317	6.025983
	1402	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	SETTLEMENT	0.076958
	1403	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	272	1.080426
	1404	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	271	2.503431
	1405	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.671318
	1406	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	270	7.219354
	1407	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	226	8.944257
	1408	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	273	3.406958
	1409	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	284	0.348923
	1410	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	227	8.163698
	1411	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	282	1.1592
	1412	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	275	0.560073
	1413	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	274	9.091267
	1414	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	269	6.955248
	1415	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	283	3.264666
	1416	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	279	0.397189
	1417	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	ROAD	1.509451
	1418	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	258	7.322054
	1419	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	228	7.920449
	1420	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	259	3.418727
	1421	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	276	0.101909
	1422	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	268	10.295576

	1423	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	229	11.812346
	1424	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	277	4.491078
	1425	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	261	6.776351
	1426	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	260	5.343363
	1427	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	262	10.583464
	1428	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	264	9.234113
	1429	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	267	7.731044
	1430	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	230	7.615008
	1431	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	266	9.171332
	1432	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	232	1.230184
	1433	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	257	11.848512
	1434	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	256	3.046939
	1435	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	231	2.804535
	1436	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	263	7.687548
	1437	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	347	1.864544
	1438	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	265	9.318801
	1439	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	233	8.147615
	1440	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	254	11.253095
	1441	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	255	4.645265
	1442	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	7.583944
	1443	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	235	4.728585
	1444	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	234	3.129409
	1445	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	248	5.352621
	1446	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	247	10.733482
	1447	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	236	6.381562
	1448	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	ROAD	0.472772
	1449	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	253	6.590997
	1450	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	243	11.719881
	1451	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	242	9.683206
	1452	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	252	10.91145
	1453	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	237	10.115497
	1454	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	249	5.625402
	1455	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	246	8.105411

	1456	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	245	7.077153
	1457	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	239	6.242245
	1458	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	250	10.781961
	1459	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	241	5.252114
	1460	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	238	5.433138
	1461	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	244	11.751288
	1462	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	251	11.782752
	1463	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	240	12.533627
	1464	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	432	3.346154
	1465	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	416	9.520478
	1466	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	415	8.969543
	1467	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	414	8.684557
	1468	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	417	8.601944
	1469	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	431	7.391616
	1470	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	418	10.579904
	1471	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	419	6.940393
	1472	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	430	6.381829
	1473	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	428	4.032327
	1474	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	420	7.985228
	1475	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	424	8.467572
	1476	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	429	5.913596
	1477	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	423	5.082459
	1478	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	385	6.972651
	1479	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	413A	0.000377
	1480	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	386	7.2371
	1481	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	389	6.135963
	1482	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	425	9.897717
	1483	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	426	8.737983
	1484	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	427	2.439186
	1485	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.000023
	1486	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	363	2.286689
	1487	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	1.492623
	1488	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	363	1.881302
	1489	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	422	8.154082

	1490	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	362	1.866296
	1491	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.669975
	1492	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	362	7.5417
	1493	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	363	4.081465
	1494	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	384	10.09671
	1495	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	387	5.313267
	1496	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	388	9.436375
	1497	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.48741
	1498	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	361	1.012498
	1499	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	453	11.867572
	1500	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.450958
	1501	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	449	1.761817
	1502	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	361	4.692192
	1503	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	1.091667
	1504	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	364	10.572515
	1505	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	360	10.572604
	1506	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	452	5.515519
	1507	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	365	8.209358
	1508	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	348	7.96683
	1509	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	366	6.427579
	1510	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	349	10.306378
	1511	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	382	7.862366
	1512	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	383	9.163113
	1513	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	ROAD	0.741067
	1514	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	451	1.88121
	1515	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	375	9.522091
	1516	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	374	8.671307
	1517	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	373	11.485213
	1518	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	367	7.74572
	1519	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	350	5.230052
	1520	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	359	9.873911
	1521	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	381	3.464824
	1522	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	380	7.776007

	1523	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.467624
	1524	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	351	3.58691
	1525	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	358	8.365262
	1526	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	398	8.924397
	1527	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	379	4.47316
	1528	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	378	7.087384
	1529	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	352	0.312864
	1530	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	368	2.727033
	1531	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	377	6.973991
	1532	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	357	4.499288
	1533	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	376	8.298498
	1534	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	372	8.346263
	1535	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	0.346185
	1536	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	371	7.055085
	1537	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	395	0.225779
	1538	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	397	7.263533
	1539	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	370	3.124136
	1540	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	ROAD	0.358528
	1541	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	1.731537
	1542	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	152	4.73024
	1543	MUNDARGI	DAMBALA	DONI	STREAM	1.775142
					TOTAL	1507.455663
15	1547	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	STREAM	0.325936
	1548	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	4	1.467981
	1549	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	35/2	4.589298
	1550	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	36	6.334352
	1551	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	36	2.292062
	1552	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	37	5.412743
	1553	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	38	4.070445
	1554	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	39	6.173099
	1555	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	40/4	0.998932
	1556	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	40/3	1.408166
	1557	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	40/2	0.920247
	1558	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	40/5	1.133328

	1559	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	40/1	2.923605
	1560	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	43/3	0.823057
	1561	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	43/2	1.694092
	1562	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	43/1	1.016422
	1563	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	47	2.186319
	1564	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	48	3.815794
	1565	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	48	1.938948
	1566	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	49	1.940737
	1567	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	50	3.787222
	1568	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	51	1.361204
	1569	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	52	3.160878
	1570	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	53	2.656987
	1571	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	54	7.206526
	1572	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	55/6	2.956092
	1573	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	55/5	0.891402
	1574	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	55/4	0.574335
	1575	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	55/3	0.963233
	1576	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	55/1	5.603577
	1577	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	55/7	0.691636
	1578	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	55/8	0.298368
	1579	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	55/2	1.799837
	1580	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	56	138.780831
	1581	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	57	2.911175
	1582	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	58/2	2.481821
	1583	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	58	4.439223
	1584	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	59	4.597657
	1585	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	60	3.955735
	1586	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	61/1	5.721451
	1587	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	61/3	4.089301
	1588	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	61/2	0.994292
	1589	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	61/4	0.560837
	1590	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	61/5	0.736684
	1591	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	62/2	2.151436

	1592	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	62/1	0.923894
	1593	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	62/3	0.858734
	1594	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	63	10.745705
	1595	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	64/4	0.61349
	1596	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	64/3	1.912097
	1597	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	64/2	2.152211
	1598	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	64/1	4.502766
	1599	MUNDARGI	MUNDARAGI	GANGAPURA	65/1	0.752513
					TOTAL	277.298713
16	1600	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	STREAM	0.390553
	1601	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	7	11.66189
	1602	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	8	4.979855
	1603	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	4	6.160706
	1604	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	3	1.216836
	1605	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	92	8.480757
	1606	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	2	0.061044
	1607	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	STREAM	0.051699
	1608	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	2	0.054293
	1609	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	86	6.156638
	1610	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	9	5.079933
	1611	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	15	7.940243
	1612	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	5	4.972571
	1613	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	97	2.696641
	1614	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	96	4.853587
	1615	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	6	6.164274
	1616	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	95	6.874026
	1617	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	94	5.962631
	1618	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	93	5.859778
	1619	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	87	6.547958
	1620	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	14	6.61964
	1621	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	10	1.829712
	1622	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	11	2.082097
	1623	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	STREAM	0.590747
	1624	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	89	3.471075

	1625	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	2	0.246344
	1626	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	97	0.576858
	1627	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	16	5.559432
	1628	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	STREAM	0.363475
	1629	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	13	2.020875
	1630	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	97	1.915003
	1631	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	96	3.1427
	1632	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	STREAM	0.580757
	1633	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	STREAM	0.512711
	1634	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	95	2.776915
	1635	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	93	4.718731
	1636	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	12	1.69724
	1637	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	88	7.644111
	1638	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	STREAM	8.093751
	1639	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	1	0.405187
	1640	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	STREAM	0.432298
	1641	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	94	2.174655
	1642	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	1	2.369277
	1643	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	31	10.532907
	1644	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	32	6.226754
	1645	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	ROAD	0.461802
	1646	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	68	0.384217
	1647	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	SETTLEMENT	2.031189
	1648	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	ROAD	0.315852
	1649	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	69	5.725877
	1650	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	71	8.888842
	1651	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	70	7.382706
	1652	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	30	4.415143
	1653	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	67	4.14369
	1654	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	29	8.424584
	1655	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	33/2	4.235844
	1656	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	33/1	2.274253
	1657	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	28	8.322551

	1658	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	66	5.021662
	1659	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	72	5.605596
	1660	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	24	7.118464
	1661	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	27	9.338798
	1662	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	73	11.721657
	1663	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	26	8.41814
	1664	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	74	12.796032
	1665	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	25	9.847811
	1666	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	83	12.894725
	1667	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	34	10.468641
	1668	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	37	5.004557
	1669	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	98	4.903511
	1670	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	36	10.234075
	1671	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	38	4.593571
	1672	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	75	5.983772
	1673	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	65	7.230649
	1674	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	100	3.868683
	1675	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	81	9.704363
	1676	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	39	7.930454
	1677	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	99	3.01674
	1678	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	41	4.538862
	1679	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	64	14.500821
	1680	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	35	9.777995
	1681	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	42	8.551195
	1682	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	43	10.78431
	1683	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	49	9.411796
	1684	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	44	8.702499
	1685	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	47	11.391353
	1686	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	50	15.328857
	1687	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	56	9.955396
	1688	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	48	12.254197
	1689	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	61	10.593717
	1690	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	63	4.358491
	1691	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	62	9.253804

	1692	MUNDARGI	DAMBALA	GUDDADABUDIHALA	51	13.081193
					TOTAL	537.942102
17	1693	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	6	8.064509
	1694	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	13	7.645092
	1695	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	14	8.004029
	1696	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	15	6.971948
	1697	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	16	6.963539
	1698	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	5	7.75832
	1699	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	18	6.831298
	1700	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	17	4.14239
	1701	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	4	7.781651
	1702	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	19	11.697914
	1703	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	3	4.974738
	1704	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	STREAM	2.359038
	1705	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	20	5.075673
	1706	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	2	0.141663
	1707	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	21	2.953044
	1708	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	22	3.449492
	1709	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	23	5.107053
	1710	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	24	6.600376
	1711	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	25	11.041389
	1712	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	26	6.130734
	1713	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	28	0.274107
	1714	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	HADAGALI	27	2.965708
					TOTAL	126.933705
18	1715	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	343	2.518709
	1716	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	346	5.405339
	1717	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	342	1.570787
	1718	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	340	4.835188
	1719	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	341	1.339026
	1720	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	349	6.121811
	1721	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	347	1.961851
	1722	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	348	1.867681

	1723	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	338	1.33347
	1724	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	351	3.842431
	1725	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	339	4.935217
	1726	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	352	1.63688
	1727	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	353	1.069354
	1728	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	337	1.559922
	1729	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	354	1.151457
	1730	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	358	5.549835
	1731	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	ROAD	6.309013
	1732	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	357	5.888516
	1733	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	356	3.693735
	1734	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	355	6.039589
	1735	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	336	1.175426
	1736	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	333	4.556652
	1737	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	332	9.570757
	1738	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	359	8.829096
	1739	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	335	1.033852
	1740	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	363	2.542962
	1741	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	360	7.330551
	1742	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	366	1.66462
	1743	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	367	1.941719
	1744	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	362	1.258258
	1745	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	334	2.304348
	1746	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	364	1.613909
	1747	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	361	1.530685
	1748	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	368	1.061162
	1749	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	365	1.826373
	1750	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	374	3.188717
	1751	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	369	1.506473
	1752	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	375	6.480575
	1753	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	373	3.789081
	1754	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	393	7.270424
	1755	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	391	5.530177
	1756	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	372	3.684382

	1757	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	370	1.518591
	1758	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	394	6.936787
	1759	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	384	4.076544
	1760	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	371	3.784428
	1761	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	385	3.812412
	1762	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	392	6.249994
	1763	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	376	8.028118
	1764	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	388	3.609152
	1765	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	383	3.969271
	1766	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	389	2.861092
	1767	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	386	3.210298
	1768	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	395	6.14622
	1769	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	255	7.396663
	1770	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	396	6.661942
	1771	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	XX	0.042004
	1772	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	390	0.966801
	1773	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	382	4.087349
	1774	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	387	3.020007
	1775	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	397	6.110484
	1776	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	406	4.447493
	1777	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	381	3.212139
	1778	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	398	6.126777
	1779	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	252	6.809638
	1780	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	407	5.478228
	1781	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	253	8.152965
	1782	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	380	1.414092
	1783	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	400	8.96824
	1784	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	377	3.768242
	1785	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	405	1.675389
	1786	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	254	0.593647
	1787	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	399	12.456032
	1788	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	379	1.969228
	1789	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	242	8.570623

	1790	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	408	4.961402
	1791	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	378	1.60814
	1792	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	404	3.011714
	1793	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	249	1.842829
	1794	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	243	5.794801
	1795	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	250	3.565898
	1796	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	411	4.687681
	1797	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	403	6.936205
	1798	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	251	4.702408
	1799	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	401	3.644888
	1800	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	409	6.201393
	1801	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	244	4.062312
	1802	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	241	6.906774
	1803	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	248	6.426117
	1804	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	412	0.968782
	1805	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	245	4.971869
	1806	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	413	0.435683
	1807	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	410	3.636656
	1808	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	247	1.167425
	1809	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	240	2.571383
	1810	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	429	0.026375
	1811	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	239	0.766004
	1812	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	246	0.001683
	1813	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	ROAD	2.174511
	1814	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	89	0.000006
	1815	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	80	8.751594
	1816	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	79	5.871103
	1817	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	78	7.063342
	1818	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	76	7.389432
	1819	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	75	9.098272
	1820	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	77	8.501473
	1821	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	74	8.926253
	1822	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	64	7.171554
	1823	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	71	5.89739

	1824	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	72	3.736826
	1825	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	65	7.376019
	1826	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	73	2.959764
	1827	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	70	4.744577
	1828	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	69	5.46771
	1829	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	67	3.640723
	1830	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	53	2.807945
	1831	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	68	5.925111
	1832	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	52	5.279438
	1833	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	51	4.969337
	1834	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	54	1.552345
	1835	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	50	2.629432
	1836	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	58	1.703853
	1837	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	212	0.630673
	1838	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	213	0.128782
	1839	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	101	7.926189
	1840	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	102	6.631791
	1841	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	106	6.346664
	1842	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	107	6.684116
	1843	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	61	3.655419
	1844	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	112	7.32821
	1845	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	115	5.575186
	1846	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	116	9.242501
	1847	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	125	7.960348
	1848	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	111	4.394784
	1849	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	60	9.643795
	1850	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	109	4.049981
	1851	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	108	5.176625
	1852	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	110	4.481096
	1853	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	114	5.311123
	1854	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	133	4.841411
	1855	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	132	5.331942
	1856	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	131	7.291788

	1857	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	113	8.519395
	1858	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	146	8.236872
	1859	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	130	3.466829
	1860	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	208	4.362636
	1861	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	135	6.576913
	1862	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	136	4.774037
	1863	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	207	1.832148
	1864	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	140	8.804069
	1865	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	154	5.204667
	1866	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	139	4.299133
	1867	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	134	6.110055
	1868	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	206	4.285328
	1869	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	145	6.341047
	1870	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	144	7.275752
	1871	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	141	7.171045
	1872	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	204	8.599619
	1873	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	155	6.097317
	1874	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	156	7.106659
	1875	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	157	3.307272
	1876	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	142	7.419943
	1877	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	143	6.934216
	1878	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	137	6.389933
	1879	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	138	8.84507
	1880	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	ROAD	3.775367
	1881	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	173	6.013855
	1882	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	203	1.269591
	1883	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	174	8.222705
	1884	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	175	7.732057
	1885	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	202	1.422673
	1886	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	197	5.376026
	1887	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	192	6.1605
	1888	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	199	4.725947
	1889	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	176	6.620494
	1890	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	205	0.127327

	1891	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	202	0.246148
	1892	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	191	2.204506
	1893	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	177	7.218361
	1894	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	187	9.257001
	1895	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	178	8.260691
	1896	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	186	4.768891
	1897	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	179	4.399941
	1898	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	196	6.325968
	1899	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	182	6.569433
	1900	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	183	6.502898
	1901	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	195	4.438934
	1902	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	STREAM	0.679214
	1903	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	193	4.388974
	1904	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	198	2.320847
	1905	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	200	0.155959
	1906	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	190	5.841433
	1907	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	172	7.316261
	1908	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	194	3.160995
	1909	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	162	6.704699
	1910	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	RIVER	0.135137
	1911	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	161	0.141424
	1912	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	171	6.716963
	1913	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	RIVER	0.000789
	1914	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	170	8.760965
	1915	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	169	8.050971
	1916	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	168	6.840697
	1917	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	189	5.072341
	1918	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	188	4.703828
	1919	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	167	9.269345
	1920	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	185	5.745249
	1921	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	184	9.998024
	1922	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	181	9.482749
	1923	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	180	6.633652

	1924	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	81	8.931474
	1925	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	100	10.644202
	1926	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	62	7.821954
	1927	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	63	10.668605
	1928	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	66	8.036436
	1929	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	59	7.236883
	1930	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	STREAM	5.217561
	1931	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	210	2.440749
	1932	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	211	2.589073
	1933	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	ROAD	0.288669
	1934	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	RIVER THUGABHADRA	133.752914
	1935	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	RIVER THUGABHADRA	1.345618
	1936	MUNDARGI	MUNDARAGI	HAMMIGI	RIVER THUGABHADRA	1.591889
					TOTAL	1185.905568
19	1937	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	STREAM	0.877844
	1938	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	STREAM	1.778452
	1939	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	STREAM	1.063384
	1940	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	13	8.311463
	1941	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	17	79.181381
	1942	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	20	10.161832
	1943	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	21	9.762294
	1944	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	22	11.200579
	1945	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	23/B	25.619325
	1946	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	23/B	43.419663
	1947	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	23/A	3.381269
	1948	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	24	2.944821
	1949	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	25	4.976743
	1950	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	25	1.833583
	1951	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	26	9.585789
	1952	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	27	2.64338
	1953	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	28	6.984021
	1954	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	29	6.217577

	1955	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	30	6.850333
	1956	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	31	3.080118
	1957	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	37	0.62054
	1958	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	38	2.053353
	1959	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	16	2.615202
	1960	GADAG	GADAGA	HANGANAKATTE	19	2.526335
					TOTAL	247.689281
20	1961	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	224	2.470559
	1962	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	223	2.346848
	1963	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	221	2.624001
	1964	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	219	9.25783
	1965	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	220	7.553694
	1966	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	STREAM	4.308673
	1967	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	STREAM	4.45887
	1968	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	218	4.255658
	1969	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	210	7.316004
	1970	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	208	6.822122
	1971	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	209	8.279913
	1972	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	217	3.834132
	1973	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	216	3.279564
	1974	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	215	3.65382
	1975	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	211	7.11743
	1976	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	214	7.860745
	1977	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	226	1.964308
	1978	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	ROAD	0.857759
	1979	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	212	12.074046
	1980	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	253	7.75073
	1981	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	222	0.445936
	1982	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	235	0.227216
	1983	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	213	0.987572
	1984	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	ROAD	0.177099
	1985	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	198	10.789333
	1986	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	228	1.093388

	1987	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	ROAD	1.025718
	1988	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	197	5.449353
	1989	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	200	7.123057
	1990	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	196	6.660246
	1991	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	199	4.68184
	1992	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	195	6.076538
	1993	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	169	5.368715
	1994	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	170	3.592412
	1995	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	171	0.4909
	1996	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	194	2.590006
	1997	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	173	3.226315
	1998	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	192	5.719598
	1999	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	174	3.242561
	2000	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	172	3.233356
	2001	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	175	4.066152
	2002	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	193	9.187739
	2003	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	176	4.52737
	2004	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	177	3.554485
	2005	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	191	7.119242
	2006	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	178	3.35923
	2007	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	179	2.934688
	2008	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	133	7.790882
	2009	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	ROAD	0.069115
	2010	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	121	3.551412
	2011	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	120	2.035907
	2012	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	122	4.532116
	2013	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	132	7.581302
	2014	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	129	3.078761
	2015	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	130	3.325242
	2016	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	131	6.565689
	2017	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	160	2.281977
	2018	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	134	9.107273
	2019	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	108	0.02087
	2020	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	180	2.286092

	2021	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	109	0.61118
	2022	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	161	0.946784
	2023	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	182	6.484499
	2024	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	181	2.382494
	2025	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	159	4.794389
	2026	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	157	11.164759
	2027	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	158	2.994591
	2028	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	147	4.79367
	2029	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	146	1.196159
	2030	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	145	0.993548
	2031	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	148	3.167377
	2032	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	183	7.096765
	2033	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	156	3.259316
	2034	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	155	6.300775
	2035	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	ROAD	0.792618
	2036	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	139	3.307905
	2037	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	149	9.96347
	2038	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	154	6.310457
	2039	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	184	7.553172
	2040	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	143	0.551633
	2041	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	144	1.357501
	2042	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	142	0.700754
	2043	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	153	4.296881
	2044	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	150	4.967087
	2045	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	141	2.077913
	2046	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	152	5.79815
	2047	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	140	2.035728
	2048	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	137	2.703238
	2049	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	151	11.823896
	2050	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	138	0.407501
	2051	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	135	5.317165
	2052	MUNDARGI	DAMBALA	HAROGERI	136	1.710621
					TOTAL	395.125405

21	2053	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	59	5.867862
	2054	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	60	6.608697
	2055	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	48	5.323286
	2056	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	54	6.073475
	2057	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	52	4.54643
	2058	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	47	4.559171
	2059	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	39	8.481281
	2060	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	36	0.262026
	2061	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	53	5.141962
	2062	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	61	5.481348
	2063	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	46	6.66952
	2064	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	62	5.768963
	2065	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	64	4.833373
	2066	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	44	8.501939
	2067	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	63	5.22882
	2068	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	45	3.842159
	2069	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	41	7.6338
	2070	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	40	4.190854
	2071	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	35	1.942797
	2072	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	65	6.735381
	2073	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	66	6.340551
	2074	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	68	7.58801
	2075	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	67	5.506918
	2076	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	43	9.413181
	2077	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	42	3.929455
	2078	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	69	12.477572
	2079	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	97	9.305051
	2080	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	71	9.823021
	2081	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	106	7.051785
	2082	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	83	4.888964
	2083	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	105	7.356197
	2084	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	98	4.748008
	2085	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	99	8.149546
	2086	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	84	10.731632

	2087	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	72	6.151965
	2088	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	9	1.14745
	2089	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	96	6.604574
	2090	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	82	12.694291
	2091	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	94	6.84635
	2092	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	107	0.070358
	2093	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	73	3.732125
	2094	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	95	9.77751
	2095	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	104	3.050585
	2096	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	100	6.085425
	2097	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	85	3.122557
	2098	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	74	4.118159
	2099	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	86	6.791576
	2100	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	75	0.02357
	2101	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	101	0.84316
	2102	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	90	2.524181
	2103	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	93	5.534491
	2104	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	89	2.600413
	2105	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	88	2.178438
	2106	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	87	2.607501
	2107	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	81	1.521457
	2108	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	79	0.163388
	2109	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	8.927239
	2110	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	384 TANK	9.369168
	2111	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	ROAD	0.212475
	2112	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	246	0.003618
	2113	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	357	4.035371
	2114	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	382	4.470067
	2115	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	349	5.974105
	2116	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	346	5.159844
	2117	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	359	6.652925
	2118	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	350	6.725532
	2119	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	356	10.197818

	2120	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	373	3.821906
	2121	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	374	6.984947
	2122	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	361	8.200135
	2123	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	260	1.282994
	2124	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	377	3.72083
	2125	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	381	7.653457
	2126	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	261/B	0.237799
	2127	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	376	4.007233
	2128	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	380	11.439864
	2129	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	259	0.124996
	2130	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	375	11.383753
	2131	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	379	4.050532
	2132	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	265	6.754305
	2133	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	264	4.490174
	2134	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	263	3.323424
	2135	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	262	1.945543
	2136	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	261/A	1.968544
	2137	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	351	11.158595
	2138	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	ROAD	3.82016
	2139	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	345	2.782446
	2140	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	344	4.012873
	2141	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	343	5.737946
	2142	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	360	3.269342
	2143	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	352	6.714127
	2144	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	362	5.564836
	2145	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	353	5.96306
	2146	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	363	4.611021
	2147	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	355	3.352379
	2148	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	364	5.004625
	2149	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	354	3.687367
	2150	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	341	2.409698
	2151	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	340	6.559009
	2152	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	365	3.73895
	2153	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	333	9.280159

	2154	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	366	4.108866
	2155	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	367	5.048791
	2156	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	334	3.360431
	2157	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	339	3.820023
	2158	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	338	3.281229
	2159	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	368	4.445019
	2160	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	378	4.054415
	2161	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	266	0.250635
	2162	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	372	10.872095
	2163	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	331	3.218252
	2164	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	369	6.794909
	2165	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	335	4.007367
	2166	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	337	2.481034
	2167	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	371	3.422517
	2168	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	332	2.973094
	2169	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	330	4.417178
	2170	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	336	9.304846
	2171	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	370	6.82604
	2172	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	329	5.520164
	2173	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	285	0.384637
	2174	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	286	0.882521
	2175	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	287	1.184072
	2176	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	328	8.215766
	2177	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	306	1.83257
	2178	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	307	4.953527
	2179	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	327	3.399906
	2180	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	308	2.411465
	2181	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	326	5.067289
	2182	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	309	5.309893
	2183	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	305	7.578147
	2184	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	310	7.528575
	2185	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	303	4.079926
	2186	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	302	5.113337

	2187	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	311	7.784015
	2188	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	312	6.2006
	2189	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	288	3.970157
	2190	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	304	5.808251
	2191	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	276	2.338862
	2192	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	279	2.109409
	2193	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	281	3.16483
	2194	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	313	6.342574
	2195	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	ROAD	0.47021
	2196	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	289	8.475316
	2197	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	301	1.103918
	2198	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	315	4.748748
	2199	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	290	6.31169
	2200	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	317	5.316711
	2201	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	300	2.400704
	2202	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	318	2.548555
	2203	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	299	11.515186
	2204	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	291	10.369999
	2205	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	319	7.56473
	2206	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	314	3.989671
	2207	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	316	3.444169
	2208	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	320	4.363362
	2209	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	292	7.672567
	2210	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	293	1.771501
	2211	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	280	5.208944
	2212	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	298	4.973336
	2213	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	296	4.795562
	2214	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	294	6.217553
	2215	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	295	4.748764
	2216	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	297	4.414074
	2217	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	347	8.527926
	2218	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	348	11.43068
	2219	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	383	2.144042
	2220	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	385	1.148165

	2221	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	386	4.000711
	2222	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	SETTLEMENT	11.880064
	2223	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.023611
	2224	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	515	2.350539
	2225	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	491	5.597439
	2226	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	492	5.770984
	2227	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	493	4.983641
	2228	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	488	2.488859
	2229	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	494	6.283176
	2230	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	495	6.156118
	2231	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	514	0.026952
	2232	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	496	5.25338
	2233	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	498	11.176421
	2234	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	499	9.312463
	2235	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	500	6.5736
	2236	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	442	0.083564
	2237	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	501	2.136536
	2238	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	502	5.86468
	2239	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	497	3.450435
	2240	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	503	8.176165
	2241	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	509	5.951536
	2242	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	504	11.094421
	2243	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	508	7.749829
	2244	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	507	8.050782
	2245	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	506	10.533496
	2246	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	422	3.6271
	2247	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	412	0.795768
	2248	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	423	3.046226
	2249	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.17804
	2250	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	411	0.12609
	2251	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	421	3.441944
	2252	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	422	0.062387
	2253	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.467362

	2254	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	424	3.445256
	2255	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	423	2.842152
	2256	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	425	2.266051
	2257	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	393	0.033676
	2258	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.37634
	2259	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	429	7.837805
	2260	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	397	0.05134
	2261	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	424	2.715573
	2262	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	390	5.851804
	2263	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	549	1.569455
	2264	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	550	1.307928
	2265	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	389	3.503737
	2266	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	410	4.088181
	2267	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.437677
	2268	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	425	3.234868
	2269	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.299718
	2270	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	420	5.044684
	2271	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	426	0.592081
	2272	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	428	8.194336
	2273	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	427	2.568913
	2274	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	392	3.347213
	2275	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	396	2.455963
	2276	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	409	1.130153
	2277	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	430	8.741778
	2278	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	398	6.091393
	2279	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	413	5.825676
	2280	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	415	5.307815
	2281	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	408	6.197979
	2282	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	417	6.363644
	2283	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	418	6.697805
	2284	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	431	7.780165
	2285	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	419	7.324349
	2286	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	401	9.238235
	2287	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	432	3.399947

	2288	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	551	0.024516
	2289	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	433	5.454735
	2290	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	434	4.941962
	2291	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	391	6.29502
	2292	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	438	8.893516
	2293	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	439	5.115186
	2294	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	399	4.086173
	2295	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	400	2.732933
	2296	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	406	8.047937
	2297	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	416	10.597668
	2298	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	435	4.889296
	2299	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	437	6.350384
	2300	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	436	6.08731
	2301	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	388	0.548164
	2302	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	388A	0.084384
	2303	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	505	8.204682
	2304	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	426	2.343982
	2305	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	441	10.019663
	2306	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	440	4.36851
	2307	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	ROAD	3.480605
	2308	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	414	5.819698
	2309	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	407	7.349165
	2310	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	405	6.879697
	2311	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	404	6.638065
	2312	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	403	7.581414
	2313	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	402	4.052184
	2314	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	ROAD	2.533987
	2315	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	387	0.918589
	2316	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	552	1.149921
	2317	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	1.215757
	2318	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	477	5.881403
	2319	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	478	8.04214
	2320	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	473	5.119095

	2321	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	476	6.863104
	2322	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	474	8.432707
	2323	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	TANK	0.048361
	2324	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	475	6.474694
	2325	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	479	7.902354
	2326	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	481	6.102479
	2327	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	482	6.650029
	2328	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	485	4.819287
	2329	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	484	7.77309
	2330	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	483	7.695398
	2331	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	480	7.396171
	2332	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.084242
	2333	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	447	0.659306
	2334	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.004357
	2335	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.209717
	2336	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	447	8.16319
	2337	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	464	8.692135
	2338	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	465	7.764697
	2339	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	505	1.706579
	2340	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	466	5.214243
	2341	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	446	5.070755
	2342	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.457411
	2343	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	446	2.251563
	2344	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	463	8.986766
	2345	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	468	8.748713
	2346	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	467	7.627696
	2347	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	448	8.263618
	2348	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	1.013799
	2349	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	444	4.471562
	2350	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	445	2.009491
	2351	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	443	6.349959
	2352	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0.065921
	2353	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	449	7.239938
	2354	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	469	7.53019

	2355	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	459	7.576474
	2356	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	470	5.442754
	2357	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	460	6.031546
	2358	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	450	6.174568
	2359	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	461	6.722787
	2360	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	451	6.22966
	2361	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	452	7.464865
	2362	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	458	6.872281
	2363	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	453	6.615427
	2364	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	457	3.868645
	2365	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	454	4.396496
	2366	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	455	3.536149
	2367	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	491	1.435603
	2368	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	488	3.49666
	2369	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	489	1.432345
	2370	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	426	1.862566
	2371	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	427	2.335171
	2372	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	441	0.196479
	2373	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	516	3.130606
	2374	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	490	12.330341
	2375	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	489	3.636613
	2376	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	58	6.916047
	2377	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	57	3.121597
	2378	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	56	9.206359
	2379	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	55	6.186474
	2380	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	51	5.180203
	2381	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	50	4.436609
	2382	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	49	3.857107
	2383	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	38	1.858754
	2384	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	1.679721
	2385	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	342	6.117074
	2386	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	321	6.668355
	2387	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	STREAM	0

	2388	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	442	0.000001
	2389	MUNDARGI	DAMBALA	HIREVADDATTI	442	0.000269
					TOTAL	1640.906945
22	2390	GADAGA	GADAGA	INAM VENKATAPURA	31	4.999064
	2391	GADAGA	GADAGA	INAM VENKATAPURA	32	4.656803
	2392	GADAGA	GADAGA	INAM VENKATAPURA	33	3.080339
	2393	GADAGA	GADAGA	INAM VENKATAPURA	341	1.500566
					TOTAL	14.236772
23	2394	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	140	5.849348
	2395	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	44	7.402249
	2396	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	47	13.433443
	2397	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	43	16.055763
	2398	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	37	10.028275
	2399	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	48	9.493124
	2400	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	51	9.350421
	2401	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	38	6.612508
	2402	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	52	11.43489
	2403	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	42	13.978205
	2404	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	53	11.037364
	2405	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	56	13.709902
	2406	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	34	0.001077
	2407	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	41	4.019377
	2408	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	59	9.196957
	2409	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	21	7.738961
	2410	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	54	6.391175
	2411	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	66	11.387317
	2412	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	55	7.095307
	2413	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	20	13.460339
	2414	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	22	4.349945
	2415	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	65	9.761052
	2416	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	60	3.960204
	2417	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	27	0.010715
	2418	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	23	6.816614
	2419	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	61	3.978338

	2420	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	25	2.507113
	2421	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	67	5.173508
	2422	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	64	8.052675
	2423	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	24	9.631148
	2424	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	26	5.619394
	2425	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	71	7.847995
	2426	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	70	8.250422
	2427	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	19	14.648261
	2428	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	63	5.275619
	2429	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	69	9.486017
	2430	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	18	4.055027
	2431	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	72	5.166874
	2432	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	15	12.429609
	2433	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	14	10.988591
	2434	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	78	5.945495
	2435	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	28	0.463913
	2436	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	76	12.755365
	2437	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	17	6.799537
	2438	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	75	7.881856
	2439	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	79	9.762172
	2440	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	16	14.640605
	2441	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	152	2.954743
	2442	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	73	4.957013
	2443	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	77	9.543797
	2444	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	13	12.88636
	2445	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	86	7.342705
	2446	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	12	7.723725
	2447	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	84	7.507217
	2448	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	74	11.168208
	2449	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	85	9.293234
	2450	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	11	14.761745
	2451	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	87	4.657383
	2452	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	3	9.316037

	2453	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	83	10.266154
	2454	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	TANK	0.016586
	2455	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	10	7.154737
	2456	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	90	4.895872
	2457	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	8	4.757409
	2458	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	1	8.502157
	2459	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	7	9.951007
	2460	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	88	4.618303
	2461	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	82	11.481875
	2462	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	89	5.842159
	2463	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	2/A	6.39701
	2464	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	91	8.821913
	2465	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	149	10.119502
	2466	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	92	6.422103
	2467	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	4	11.889411
	2468	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	114	6.835536
	2469	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	95	7.832868
	2470	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	5	10.143458
	2471	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	SETTLEMENT	3.948461
	2472	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	94	8.349135
	2473	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	2/B	0.031052
	2474	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	93	6.807049
	2475	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	151	3.754523
	2476	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	115	1.724881
	2477	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	142	11.754966
	2478	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	ROAD	1.019512
	2479	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	148	7.551713
	2480	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	141	11.018748
	2481	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	113	2.057541
	2482	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	116	4.98433
	2483	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	150/1	4.071811
	2484	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	143	9.049536
	2485	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	109	9.997999
	2486	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	117	1.151824

	2487	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	144	11.424428
	2488	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	145	10.217064
	2489	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	118	1.192928
	2490	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	112	6.974356
	2491	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	98	7.54703
	2492	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	111	7.755464
	2493	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	110	10.185082
	2494	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	108	5.90882
	2495	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	147	2.905488
	2496	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	150/2	6.36323
	2497	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	120	10.211496
	2498	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	146	6.404659
	2499	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	107	14.739959
	2500	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	106	10.789829
	2501	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	121	10.074206
	2502	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	105	6.513717
	2503	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	137	15.160811
	2504	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	99	8.447914
	2505	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	138	7.361252
	2506	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	122	13.557557
	2507	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	104	8.179472
	2508	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	139	9.783766
	2509	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	103	4.708101
	2510	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	102	10.399808
	2511	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	JALLIGERI	101	5.913973
					TOTAL	921.987784
24	2512	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	34	5.11304
	2513	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	33	5.772859
	2514	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	35	8.928795
	2515	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	36	8.785329
	2516	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	38	11.494689
	2517	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	58	5.880149
	2518	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	40	8.309219

	2519	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	10	7.308153
	2520	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	12	12.907686
	2521	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	57	12.952747
	2522	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	24	9.860999
	2523	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	39	9.86078
	2524	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	41	7.565705
	2525	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	ROAD	2.248518
	2526	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	STREAM	14.249797
	2527	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	9	8.049736
	2528	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	ROAD	3.93535
	2529	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	8	8.971893
	2530	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	13	9.688366
	2531	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	23	10.459486
	2532	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	22	7.120015
	2533	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	21	8.198854
	2534	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	48	8.497225
	2535	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	42	9.26645
	2536	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	47	6.281871
	2537	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	5	10.494943
	2538	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	46	10.294626
	2539	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	14	7.941963
	2540	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	7	6.030965
	2541	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	163	6.554727
	2542	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	15	7.733805
	2543	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	45	8.462123
	2544	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	44	5.554035
	2545	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	43	9.673022
	2546	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	161	7.023197
	2547	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	6	9.06525
	2548	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	16	7.19456
	2549	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	ROAD	3.8185
	2550	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	4	3.466245
	2551	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	68	12.533912
	2552	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	20	9.125453

	2553	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	17	6.438527
	2554	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	162	8.560308
	2555	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	160	7.622329
	2556	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	18	13.448133
	2557	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	69	12.766512
	2558	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	3	11.744336
	2559	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	71	14.243974
	2560	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	92	9.783602
	2561	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	159	10.657131
	2562	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	158	14.006505
	2563	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	164	6.461896
	2564	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	19	7.3809
	2565	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	166	37.657803
	2566	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	165	3.681848
	2567	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	93	10.775614
	2568	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	168	3.417911
	2569	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	70	12.246124
	2570	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	91	8.24921
	2571	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	173	1.55214
	2572	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	2	4.860354
	2573	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	94	9.147462
	2574	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	86	10.444196
	2575	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	167	4.960282
	2576	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	156	8.754004
	2577	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	90	8.705256
	2578	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	95	12.305327
	2579	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	89	10.204154
	2580	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	143	6.552556
	2581	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	144	9.356768
	2582	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	174	0.251275
	2583	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	171	0.500767
	2584	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	1	5.971219
	2585	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	87	8.649077

	2586	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	142	6.384444
	2587	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	96	8.808474
	2588	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	139	7.874222
	2589	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	155	9.891378
	2590	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	SETTLEMENT	3.253834
	2591	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	88	12.126663
	2592	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	97	10.1405
	2593	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	138	10.589363
	2594	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	137	10.142999
	2595	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	133	10.09405
	2596	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	132	6.352755
	2597	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	112	13.455962
	2598	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	129	5.977565
	2599	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	128	7.870404
	2600	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	98	9.65859
	2601	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	120	8.337505
	2602	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	121	7.001616
	2603	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	124	6.539669
	2604	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	111	6.235458
	2605	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	ROAD	1.094527
	2606	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	125	7.755139
	2607	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	145	6.645785
	2608	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	146	6.26406
	2609	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	154	4.680936
	2610	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	100	8.299083
	2611	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	170	1.359214
	2612	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	109	3.184743
	2613	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	172	1.906548
	2614	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	110	6.04662
	2615	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	99	11.415139
	2616	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	STREAM	1.314608
	2617	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	ROAD	0.441454
	2618	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	108	1.68183
	2619	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	108	7.138833

	2620	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	102	2.493907
	2621	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	113	12.807199
	2622	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	149	7.242384
	2623	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	150	7.52697
	2624	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	114	9.170998
	2625	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	119	7.079197
	2626	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	122	10.266917
	2627	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	123	9.350656
	2628	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	126	8.550111
	2629	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	127	9.437626
	2630	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	130	8.711591
	2631	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	118	14.609898
	2632	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	131	7.634725
	2633	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	136	8.207743
	2634	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	147	7.851088
	2635	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	134	4.163877
	2636	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	135	4.129613
	2637	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	140	3.675816
	2638	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	141	3.921492
	2639	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	151	7.554683
	2640	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	148	11.748484
	2641	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	157	7.602589
	2642	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	153	15.498245
	2643	MUNDARGI	MUNDARAGI	JYALAVADAGI	152	5.001379
					TOTAL	1062.233695
25	2644	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	ROAD	1.520813
	2645	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	51	8.577064
	2646	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	52	6.540909
	2647	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	53	6.348407
	2648	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	54	4.481698
	2649	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	57	6.240801
	2650	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	58	9.138892
	2651	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	59	6.883761

	2652	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	60	9.099744
	2653	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	61	11.160136
	2654	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	62	5.41177
	2655	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	63	8.210493
	2656	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	64	10.944263
	2657	MUNDARGI	MUNDARAGI	KADAMPUR	65	9.871378
					TOTAL	104.430129
26	2658	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	3	5.326136
	2659	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	1.399503
	2660	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	3	2.94277
	2661	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	71	0.426267
	2662	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	1	1.241228
	2663	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	54	6.139179
	2664	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	0.339766
	2665	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	1	3.885681
	2666	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	0.226779
	2667	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	1	0.364547
	2668	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	47	6.531612
	2669	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	46	0.803886
	2670	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	1/A	1.094625
	2671	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	56_FORT	0.879245
	2672	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	44	8.760957
	2673	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	45	9.0386
	2674	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	50	8.870175
	2675	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	49	5.973938
	2676	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	48	5.758152
	2677	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	53	8.05163
	2678	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	52	1.283616
	2679	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	ROAD	0.375967
	2680	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	51	0.223318
	2681	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	0.173683
	2682	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	0.385308
	2683	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	51	5.101762
	2684	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	52	5.283237

	2685	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	39/PAI	0.22649
	2686	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	0.114565
	2687	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	39/PAI	3.048383
	2688	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	40/PAI	0.112314
	2689	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	0.010866
	2690	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	0.087889
	2691	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	STREAM	0.012804
	2692	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	62	7.282602
	2693	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	ROAD	3.493581
	2694	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	40/PAI	2.824857
	2695	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	41 /PAI	0.951907
	2696	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	61	7.005055
	2697	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	27	6.462152
	2698	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	44 /PAI	1.432552
	2699	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	28	5.470968
	2700	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	45 /PAI	0.456875
	2701	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	10	8.103749
	2702	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	41	5.349676
	2703	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	42	4.085907
	2704	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	40	4.438014
	2705	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	29/PAI	0.793297
	2706	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	39	5.195309
	2707	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	26	3.977966
	2708	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	43	1.71236
	2709	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	29	7.339273
	2710	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	ROAD	1.982734
	2711	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	60	1.110857
	2712	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	28 /PAI	0.599577
	2713	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	25 /PAI	1.867215
	2714	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	30	11.495304
	2715	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	26/PAI	2.902597
	2716	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	25/1/PAI	0.152457
	2717	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	25	7.322661

	2718	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	11	4.484357
	2719	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	9	8.753668
	2720	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	24	6.284498
	2721	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	12	9.884712
	2722	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	8	8.491809
	2723	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	63	6.324534
	2724	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	65	6.175423
	2725	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	38À	1.954374
	2726	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	64	3.524245
	2727	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	23	6.212548
	2728	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	14	6.839835
	2729	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	38A	7.807216
	2730	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	31_TANK	0.823495
	2731	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	67	8.387596
	2732	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	13	10.982521
	2733	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	22	10.457407
	2734	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	59	0.318021
	2735	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	68	6.914746
	2736	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	37A	6.270875
	2737	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	21	8.796865
	2738	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	7	11.736599
	2739	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	15	7.559227
	2740	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	37À	3.076179
	2741	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	32A	3.497327
	2742	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	58	0.850661
	2743	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	18	9.077107
	2744	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	19	10.352998
	2745	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	57	5.609846
	2746	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	32/B2	0.013645
	2747	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	16	2.803685
	2748	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	17	8.977493
	2749	GADAG	GADAGA	KABALAYATAKATTI	20	1.548861
					TOTAL	393.096753
27	2750	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	50	7.698117

	2751	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	52	20.142153
	2752	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	73	9.58672
	2753	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	84	14.587892
	2754	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	85	9.766397
	2755	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	86	4.991039
	2756	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	88	13.793075
	2757	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	87	10.324495
	2758	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.208352
	2759	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	8	8.568477
	2760	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	90	12.814913
	2761	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.306012
	2762	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	8	0.54298
	2763	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	76	11.506058
	2764	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	89	11.298025
	2765	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.624669
	2766	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	9	0.743442
	2767	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	1.512707
	2768	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	91	11.756148
	2769	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	92	11.064353
	2770	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	75	11.388206
	2771	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	74	8.648868
	2772	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	39	20.518124
	2773	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	38	21.453763
	2774	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	36	18.433508
	2775	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	37	20.023792
	2776	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	35	17.85819
	2777	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.674397
	2778	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	35	3.254996
	2779	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	34	8.870167
	2780	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	25	8.592407
	2781	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	26	7.537014
	2782	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.25993
	2783	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	33	7.208123

	2784	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	26	0.209409
	2785	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	31	5.546508
	2786	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.708642
	2787	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	20	9.574849
	2788	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	31	1.612591
	2789	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	21	10.599178
	2790	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	22	8.443597
	2791	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	24	6.121783
	2792	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	27	10.419621
	2793	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	30	4.111026
	2794	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.694864
	2795	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	30	2.165936
	2796	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	9	5.784936
	2797	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	23	8.088649
	2798	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	19	9.969564
	2799	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	10	8.38602
	2800	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	28	6.131098
	2801	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	22	0.086056
	2802	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	29	7.135201
	2803	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.281935
	2804	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	18	13.742777
	2805	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.704532
	2806	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	29	1.075528
	2807	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	7	0.793416
	2808	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.06982
	2809	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	7	8.520664
	2810	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.325813
	2811	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	22	0.015829
	2812	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.0909
	2813	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	5	8.279462
	2814	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	23	0.000876
	2815	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.463662
	2816	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.029819
	2817	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.114705

	2818	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	18	0.0181
	2819	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	9	0.003865
	2820	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	10	0.082585
	2821	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	11	6.026825
	2822	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.10052
	2823	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.581173
	2824	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	11	1.232762
	2825	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	18	0.088584
	2826	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	1.835129
	2827	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	97/1	2.815843
	2828	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	97/2	3.560701
	2829	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	96	5.197343
	2830	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	95	6.993414
	2831	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	2.009141
	2832	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	12-JAN	2.003275
	2833	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	93	6.10725
	2834	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	06-JAN	5.47172
	2835	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	17	5.460909
	2836	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	16	8.657208
	2837	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	12-FEB	6.993393
	2838	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	16	0.331082
	2839	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.628993
	2840	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	06-FEB	1.860941
	2841	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	15	11.565506
	2842	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	STREAM	0.082201
	2843	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	16	0.024268
	2844	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	94	4.154596
	2845	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	4	3.261144
	2846	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	2.388238
	2847	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	03-FEB	3.257419
	2848	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	2	6.377822
	2849	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	13	6.001678
	2850	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	03-JAN	2.455445

	2851	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	98/1	1.728596
	2852	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	98/2	2.072653
	2853	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	99	3.31842
	2854	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	14	3.891604
	2855	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	100	11.395641
	2856	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	101	6.545761
	2857	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	2/A	0.398034
	2858	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	102	4.282198
	2859	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	3.654639
	2860	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	128	4.250794
	2861	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	143	8.501861
	2862	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	127	8.111343
	2863	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	130	10.114343
	2864	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	142	7.085225
	2865	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	151	7.937197
	2866	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	126	3.20874
	2867	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	154	9.026244
	2868	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	153	6.271579
	2869	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	123	5.761819
	2870	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	141	8.724645
	2871	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	150	8.820624
	2872	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	125	7.401562
	2873	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	140	10.052507
	2874	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	131	4.509775
	2875	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	124	4.860501
	2876	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	122	5.313257
	2877	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	155	8.820049
	2878	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	139	5.666671
	2879	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	148	6.983902
	2880	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	105/1	1.821508
	2881	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	132	7.692595
	2882	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	105/2	2.595493
	2883	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	137	8.165546
	2884	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	171	7.299615

	2885	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	121	4.069927
	2886	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	138	8.508289
	2887	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	170	6.992604
	2888	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	104	2.755736
	2889	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	156	12.304184
	2890	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	0.275275
	2891	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	103	3.864043
	2892	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	169	5.619648
	2893	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	166	6.537512
	2894	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	106	7.312372
	2895	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	165	13.05993
	2896	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	120	6.027368
	2897	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	0.981749
	2898	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	133	6.598522
	2899	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	134	6.518848
	2900	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	172	6.193893
	2901	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	119	5.586737
	2902	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	1.052354
	2903	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	107	2.915694
	2904	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	108	8.838006
	2905	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	CANAL	9.644569
	2906	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	118	4.825525
	2907	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	173	3.90601
	2908	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	116	11.370609
	2909	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	109	10.793465
	2910	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	115	8.534141
	2911	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	200	0.978348
	2912	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	174	3.554257
	2913	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	117	12.107485
	2914	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	158	5.208054
	2915	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	157	6.795621
	2916	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	111	11.052617
	2917	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	110	1.155714

	2918	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	114	6.210228
	2919	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	112	11.105574
	2920	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	113	8.02073
	2921	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	MAJARE_HOGAL LI	2.224288
	2922	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	0.769683
	2923	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	199	6.436645
	2924	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	198	11.687903
	2925	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	197	7.18589
	2926	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	196	7.429807
	2927	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	205	6.002262
	2928	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	163	12.158968
	2929	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	162	12.491684
	2930	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	161	11.138045
	2931	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	160	11.228306
	2932	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	173	3.193441
	2933	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	2.540849
	2934	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	172	4.672478
	2935	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	168	14.026008
	2936	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	167	7.775112
	2937	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	175	6.998417
	2938	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	164	6.90741
	2939	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	194	12.928093
	2940	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	CANAL	7.4578
	2941	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	193	8.361015
	2942	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	195	4.249659
	2943	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	176	3.946538
	2944	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	159	5.461307
	2945	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	2.763869
	2946	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	177	7.134628
	2947	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	192	11.495731
	2948	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	178/3	3.246181
	2949	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	178/2	2.837265
	2950	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	178/1	2.982007

	2951	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	179/1	6.644058
	2952	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	191/1	3.41663
	2953	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	191/2	4.516639
	2954	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	207	11.317916
	2955	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	179/2	2.645368
	2956	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	190	8.467072
	2957	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	180	9.629423
	2958	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	182	12.665532
	2959	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	189	10.932581
	2960	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	183	11.254007
	2961	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	181	8.737079
	2962	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	188	8.188282
	2963	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	184	11.927386
	2964	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	187	11.044085
	2965	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	230	5.378886
	2966	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	ROAD	3.282396
	2967	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	231	6.287727
	2968	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	232	5.657251
	2969	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	233	1.248644
	2970	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	234	4.693472
	2971	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	235	4.054164
	2972	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	1	1.238151
	2973	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	SETTLEMENT	8.707268
	2974	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	228	8.180697
	2975	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	227	5.692915
	2976	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	226	3.033785
	2977	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	224	8.437462
	2978	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	223	8.1441
	2979	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	201	4.029004
	2980	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	202	5.018674
	2981	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	215	13.404871
	2982	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	203	5.770365
	2983	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	225	3.768241

	2984	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	222	4.432926
	2985	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	204	5.961388
	2986	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	221	2.956956
	2987	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	219	8.507053
	2988	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	218	5.626185
	2989	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KADAKOLA	211	11.233327
					TOTAL	1475.909682
28	2990	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	93	1.88093
	2991	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	91	3.097177
	2992	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	88	9.895716
	2993	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	85	7.538161
	2994	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	89	11.526977
	2995	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	83	7.252718
	2996	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	82	101.549511
	2997	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	87	8.609751
	2998	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	90	9.858991
	2999	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	86	9.003164
	3000	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	84	8.398014
	3001	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	69	3.903189
	3002	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	70	4.429845
	3003	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	74	8.838535
	3004	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	73/A	2.484949
	3005	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	71	1.214123
	3006	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	73	2.341536
	3007	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	205	4.165885
	3008	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	72	4.370816
	3009	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	STREAM	0.17869
	3010	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	STREAM	0.371927
	3011	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	72	0.547828
	3012	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	75	93.767873
	3013	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	STREAM	0.612044
	3014	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	STREAM	0.000317
	3015	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	77	55.789646
	3016	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	81	12.190849

	3017	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	STREAM	0.000111
	3018	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	76	98.32294
	3019	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	80	8.417489
	3020	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	79	7.448735
	3021	MUNDARGI	MUNDARAGI	KALAKERI	78	8.793049
					TOTAL	496.801486
29	3022	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	60	8.34803
	3023	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	61	5.081699
	3024	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	64	12.347057
	3025	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	65	9.03903
	3026	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	66	8.95335
	3027	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	59	9.880685
	3028	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	67	6.063183
	3029	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	32	11.639747
	3030	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	31	7.203865
	3031	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	62	11.864905
	3032	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	30	1.385813
	3033	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	28	5.882112
	3034	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	29	11.358484
	3035	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	63	5.139091
	3036	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	27	12.00832
	3037	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	ROAD	0.3959
	3038	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	26	3.337472
	3039	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	73	2.283373
	3040	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	74	9.8878
	3041	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	24	6.648675
	3042	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	23	4.711748
	3043	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	25	4.403688
	3044	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	22	5.368441
	3045	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	21	6.608326
	3046	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	1	6.623456
	3047	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	SETTLEMENT	1.424209
	3048	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	20	6.372924

	3049	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	10	12.834217
	3050	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	18	2.729049
	3051	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	19	3.767264
	3052	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	STREAM	2.668905
	3053	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	7	5.995543
	3054	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	ROAD	1.466271
	3055	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	11	9.030686
	3056	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	17	2.569171
	3057	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	15	0.88941
	3058	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	16	2.746079
	3059	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	2	4.048428
	3060	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	3	3.635357
	3061	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	14	6.487021
	3062	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	4	9.179631
	3063	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	12	8.232384
	3064	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	8	7.294333
	3065	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	6	12.547553
	3066	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	9	8.068485
	3067	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	13	5.810887
	3068	MUNDARGI	DAMBALA	KELURA	5	11.520048
					TOTAL	305.782105
30	3069	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	12	2.666129
	3070	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	STREAM	4.99547
	3071	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	11	5.851307
	3072	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	13	3.27975
	3073	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	98	2.827095
	3074	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	14	10.425072
	3075	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	15	13.361693
	3076	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	16	5.259071
	3077	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	9	0.121368
	3078	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	24	10.803844
	3079	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	17	10.289478
	3080	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	23	8.357228
	3081	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	25	31.568799

	3082	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	22	6.874789
	3083	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	21	4.935882
	3084	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	26	1.101396
	3085	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	29	0.211022
	3086	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KERIHALLI	30	2.124494
					TOTAL	125.053887
31	3087	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.533744
	3088	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.220273
	3089	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.641258
	3090	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.889251
	3091	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.609128
	3092	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.147591
	3093	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.745868
	3094	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.651869
	3095	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.745238
	3096	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.832604
	3097	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.965263
	3098	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	STREAM	0.242384
	3099	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	98	5.434741
	3100	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	97	3.258827
	3101	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	96	6.525573
	3102	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	94	0.00945
	3103	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	99	7.980681
	3104	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	94 A	1.798601
	3105	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	109	5.098552
	3106	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	95	3.720224
	3107	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	100	6.041333
	3108	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	107	4.941997
	3109	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	106	4.146988
	3110	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	109	0.322158
	3111	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	108	0.122536
	3112	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	108	5.254261
	3113	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	101	4.47557

	3114	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	107	5.46576
	3115	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	105	5.013093
	3116	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	106	6.112644
	3117	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	102	7.682191
	3118	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	105	1.210425
	3119	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	116	0.066955
	3120	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	117	7.58603
	3121	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	118	10.478237
	3122	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	104	5.648151
	3123	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	104	0.037091
	3124	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	103	3.869494
	3125	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	103	4.354451
	3126	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	120	6.011751
	3127	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	119	6.307499
	3128	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	155	7.34392
	3129	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	121	7.382601
	3130	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	122	2.931726
	3131	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	154	12.118764
	3132	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	127 A	4.643553
	3133	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	157	0.003852
	3134	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	127 A	4.198021
	3135	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	156	1.297103
	3136	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	123	7.422941
	3137	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	156	7.22014
	3138	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	153	0.590288
	3139	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	153	8.495063
	3140	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	152	2.049459
	3141	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	151	9.395669
	3142	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	152	4.088748
	3143	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	151	0.426701
	3144	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	150	5.696401
	3145	MUNDARGI	MUNDARAGI	KORLAHALLI	150	0.040378
					TOTAL	221.545063
32	3146	LAXMESHVAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	38	8.881533

	3147	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	40	11.97685
	3148	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	34	9.471898
	3149	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	39	6.100513
	3150	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	42	10.320784
	3151	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	43	6.979679
	3152	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	59	6.313775
	3153	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	55	11.211588
	3154	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	45	8.839208
	3155	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	60	12.313593
	3156	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	61	10.490913
	3157	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	44	7.43622
	3158	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	63	10.102729
	3159	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	36	6.831821
	3160	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	64	13.494622
	3161	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	66	8.632662
	3162	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	67	5.100591
	3163	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	37	9.162072
	3164	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	30	10.814804
	3165	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	29	7.476435
	3166	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	58	7.760091
	3167	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	31	8.708539
	3168	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	35	8.297582
	3169	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	46	7.006231
	3170	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	51	7.619216
	3171	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	65	9.626084
	3172	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	141	0.496296
	3173	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	68	4.590082
	3174	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	28	6.93156
	3175	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	32	1.361331
	3176	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	50	7.146676
	3177	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	33	45.898433
	3178	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	47	7.606707
	3179	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	69	10.249497

	3180	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	53	9.804438
	3181	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	26	8.831152
	3182	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	62	4.980616
	3183	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	70	6.370241
	3184	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	75	8.232826
	3185	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	ROAD	2.358516
	3186	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	76	10.071625
	3187	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	48	4.101175
	3188	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	49	4.811389
	3189	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	25	7.678789
	3190	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	77	6.975381
	3191	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	78	8.940436
	3192	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	74	7.271576
	3193	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	73	4.77079
	3194	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	24	1.897537
	3195	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	78A	1.515633
	3196	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	79	3.388205
	3197	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	23	5.910781
	3198	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	80	9.772793
	3199	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	71	9.943478
	3200	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	18	9.951267
	3201	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	6	1.49249
	3202	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	72	5.092447
	3203	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	81	7.236384
	3204	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	94	6.279501
	3205	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	5	2.468132
	3206	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	22	4.678783
	3207	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	17	1.479587
	3208	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	7	1.177233
	3209	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	93	9.851384
	3210	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	97	12.127455
	3211	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	8	0.605037
	3212	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	92	8.754861
	3213	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	9	0.895845

	3214	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	21	6.944499
	3215	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	4	3.934121
	3216	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	16	1.247697
	3217	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	10	1.745912
	3218	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	1	7.199578
	3219	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	91	4.514664
	3220	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	20	0.277535
	3221	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	83	2.739316
	3222	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	ROAD	2.888819
	3223	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	11	2.344662
	3224	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	15	1.127034
	3225	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	95	9.040564
	3226	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	90	4.536004
	3227	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	96	1.943518
	3228	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	98	3.341191
	3229	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	19	4.82535
	3230	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	14	1.231518
	3231	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	89	4.383429
	3232	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	84	3.506333
	3233	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	88	3.730954
	3234	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	87	6.147889
	3235	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	13	1.18106
	3236	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	ROAD	0.062954
	3237	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	3	2.523106
	3238	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	101	3.787234
	3239	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	12	1.438305
	3240	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	137	1.816384
	3241	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	102	2.741962
	3242	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	138	2.544518
	3243	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	139	1.63282
	3244	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	140	2.382799
	3245	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	136	3.600572
	3246	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	103	4.009011

	3247	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	104	10.449139
	3248	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	85	1.45866
	3249	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	2	2.568618
	3250	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	ROAD	0.338336
	3251	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	126	2.039555
	3252	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	86	7.292693
	3253	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	140A	0.517146
	3254	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	125	3.948724
	3255	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	SETTLEMENT	4.631357
	3256	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	135	0.267412
	3257	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	127	2.298137
	3258	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	106	2.531841
	3259	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	107	6.360132
	3260	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	105	5.446562
	3261	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	128	0.87157
	3262	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	124	2.581362
	3263	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	123	3.400532
	3264	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	108	7.599839
	3265	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	KUNDRALLI	109	0.803385
					TOTAL	685.74471
33	3266	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	88	10.014786
	3267	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	82	5.205742
	3268	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	68	6.218033
	3269	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	83	5.346514
	3270	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	87	6.429055
	3271	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	93	7.536343
	3272	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	86	7.720707
	3273	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	94	8.460068
	3274	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	67	4.001158
	3275	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	85	5.709846
	3276	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	STREAM	11.303894
	3277	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	100	0.417741
	3278	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	66	13.042113
	3279	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	96	8.216994

	3280	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	97	4.548736
	3281	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	2	8.268077
	3282	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	71	8.746456
	3283	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	98	6.93862
	3284	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	99	6.674265
	3285	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	63	12.996321
	3286	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	65	8.350677
	3287	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	64	8.922808
	3288	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	6	12.112147
	3289	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	SETTLEMENT	1.275686
	3290	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	1	6.417696
	3291	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	ROAD	0.975801
	3292	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	44	5.942065
	3293	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	ROAD	3.551012
	3294	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	43	8.595324
	3295	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	42	3.729618
	3296	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	41	5.014983
	3297	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	32	4.785916
	3298	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	31	5.060907
	3299	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	23	13.598276
	3300	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	30	5.444797
	3301	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	59	12.155003
	3302	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	24	5.126643
	3303	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	25	12.981267
	3304	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	45	11.833696
	3305	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	22	13.599071
	3306	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	62	4.446111
	3307	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	57	6.408436
	3308	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	58	4.014205
	3309	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	60	4.090898
	3310	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	40	7.027134
	3311	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	21	13.259877
	3312	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	STREAM	10.652559

	3313	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	13	9.021779
	3314	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	61	6.838629
	3315	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	STREAM	0.398909
	3316	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	STREAM	0.784054
	3317	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	33	7.330749
	3318	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	55	6.740538
	3319	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	46	9.384779
	3320	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	31	0.267375
	3321	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	20	12.090053
	3322	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	39	10.423182
	3323	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	30	0.585624
	3324	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	29	8.488328
	3325	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	19	4.808262
	3326	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	54	4.573871
	3327	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	56	7.08225
	3328	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	26	6.29288
	3329	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	16	9.867169
	3330	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	15	8.92339
	3331	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	53	10.07456
	3332	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	34	6.322411
	3333	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	47	5.659873
	3334	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	28	8.790867
	3335	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	38	4.198852
	3336	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	27	5.791728
	3337	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	37	10.617981
	3338	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	49	9.171079
	3339	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	18	10.261129
	3340	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	36	12.53806
	3341	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	35	5.85418
	3342	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	52	4.400082
	3343	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	17	7.643529
	3344	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	48	4.572993
	3345	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	50	8.325068
	3346	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	KUSALAPURA	51	3.496354
					TOTAL	578.788649

34	3347	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	80	249.86318
	3348	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	86	14.507597
	3349	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	87	12.557581
	3350	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	88	8.160167
	3351	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	90	8.019048
	3352	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	94	9.152312
	3353	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	95	7.340438
	3354	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	96	3.668278
	3355	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	83	10.920127
	3356	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	89	8.892562
	3357	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	97	4.525942
	3358	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	98	7.5699
	3359	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	84	12.073651
	3360	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	82	12.375795
	3361	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	85	9.532816
	3362	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	91	9.839276
	3363	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	81	5.876277
	3364	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	81/A	1.44013
	3365	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	99	8.823951
	3366	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	81/B	1.4254
	3367	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	81/C	1.448163
	3368	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	92	3.183544
	3369	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	93	4.109957
	3370	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	100	6.557479
	3371	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	101	5.866872
	3372	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	78/2	3.264802
	3373	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	78/3	3.162434
	3374	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	78/1	5.910273
	3375	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	77	1.644495
	3376	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	79	6.172462
	3377	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	102	6.167852
	3378	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	76	5.36425
	3379	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	75	4.998986

	3380	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	74	6.396197
	3381	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	73	3.18149
	3382	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	9	3.383699
	3383	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	8	8.752814
	3384	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	103	7.697883
	3385	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	7	7.141143
	3386	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	104	0.78543
	3387	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	6	7.708619
	3388	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	2	1.81067
	3389	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	1	3.08911
	3390	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	103/A	0.31076
	3391	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	19/A	47.3895
	3392	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	SETTLEMENT	3.650941
	3393	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	03-MAR	1.815881
	3394	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	03-JAN	3.896587
	3395	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	71	6.641933
	3396	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	70	1.56408
	3397	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	19/B	0.059865
	3398	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	03-FEB	1.756782
	3399	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	69	7.810333
	3400	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	106	8.791525
	3401	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	68	2.643577
	3402	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	4	3.336209
	3403	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	5	3.977644
	3404	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	65	0.641899
	3405	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	66	5.664007
	3406	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	10	7.365234
	3407	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	11-JAN	4.028256
	3408	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	67	9.643711
	3409	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	11-FEB	3.071381
	3410	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	61	2.29897
	3411	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	12	8.070383
	3412	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	13	12.814252
	3413	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	60/1	1.021676

	3414	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	60/2	1.109111
	3415	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	59	2.201328
	3416	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	14	9.964219
	3417	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	58	1.384978
	3418	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	15	1.255004
	3419	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	57	0.815985
	3420	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	17	9.77615
	3421	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	16	0.347334
	3422	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	56	0.011701
	3423	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	18	13.225245
	3424	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	23	0.018138
	3425	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	20	6.534508
	3426	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	27	7.038915
	3427	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	21	10.715504
	3428	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	22	1.484811
	3429	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	28	7.837355
	3430	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	25	0.91325
	3431	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	30	7.064876
	3432	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	31	9.361051
	3433	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	26	0.093977
	3434	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	29	3.504182
	3435	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	32	4.29121
	3436	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	36	7.583254
	3437	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MACHENAHALLI	35	0.722259
					TOTAL	769.882783
35	3438	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	MAGADI	STREAM	0.993217
	3439	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	MAGADI	95	8.514367
	3440	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	MAGADI	96	8.126188
	3441	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	MAGADI	97	4.067095
	3442	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	MAGADI	98	9.639565
	3443	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	MAGADI	98	0.357391
	3444	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	MAGADI	99	6.803213
	3445	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	MAGADI	99	1.902469
					TOTAL	40.403505
36	3446	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	39	6.242239
	3447	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	35	6.614931

	3448	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	38	6.540045
	3449	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	61	7.510418
	3450	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	60	8.055911
	3451	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	57	7.112199
	3452	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	36	13.287971
	3453	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	37/1	9.216546
	3454	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	37/2	4.827878
	3455	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	64	6.582991
	3456	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	63	6.690603
	3457	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	74	6.88122
	3458	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	59	7.203414
	3459	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	75	3.963958
	3460	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	65	4.710337
	3461	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	70	8.608651
	3462	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	71	11.894148
	3463	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	82	12.214884
	3464	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	81	8.014755
	3465	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	ROAD	1.030172
	3466	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	86	12.967068
	3467	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	87	10.382109
	3468	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	12.630537
	3469	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	24	6.700351
	3470	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	26	8.841557
	3471	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	25	7.379049
	3472	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	27	3.892652
	3473	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	15	7.118844
	3474	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	16	8.913432
	3475	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	19	10.51371
	3476	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	17	9.305784
	3477	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	29	1.421663
	3478	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	28	6.012442
	3479	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	18	6.887104
	3480	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	12	20.543453
	3481	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	1	8.506956

	3482	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	11	19.306276
	3483	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	69	9.676202
	3484	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	14	8.261535
	3485	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	3	12.21074
	3486	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	ROAD	0.674365
	3487	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	2	5.202189
	3488	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	13	4.844534
	3489	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	7	5.351038
	3490	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	171	0.086119
	3491	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	170	6.379633
	3492	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	5	6.278442
	3493	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	8	8.80226
	3494	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	SETTLEMENT	3.765715
	3495	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	9	19.709306
	3496	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	6	6.818057
	3497	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	88	4.655883
	3498	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	10	8.020157
	3499	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	4	8.074131
	3500	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	169	4.180428
	3501	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	ROAD	2.148433
	3502	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	152	2.541011
	3503	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	168	6.168601
	3504	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	151	4.828397
	3505	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	89	6.468753
	3506	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	167	2.945576
	3507	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	153	5.806284
	3508	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	166	9.294351
	3509	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	165	18.61696
	3510	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	154	5.614024
	3511	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	156	3.967824
	3512	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	155	9.858987
	3513	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	158	7.901066
	3514	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	164	16.415344

	3515	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	157	6.19523
	3516	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	ROAD	0.316664
	3517	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	8.248091
	3518	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	95	7.1851
	3519	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	94	6.7685
	3520	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	96	7.742331
	3521	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	97	7.884477
	3522	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	93	8.368435
	3523	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	98	11.600954
	3524	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	101	11.726918
	3525	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	100	4.983102
	3526	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	99	8.258719
	3527	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	92	11.553037
	3528	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	90	4.431463
	3529	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	XX	0.445777
	3530	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	107	7.508866
	3531	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	102	10.402118
	3532	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	106	6.217139
	3533	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	105	8.47327
	3534	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	159	10.780712
	3535	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	147	4.981826
	3536	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	160	20.559049
	3537	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	146	4.787428
	3538	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	0.996119
	3539	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	113	10.015639
	3540	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	146	15.61087
	3541	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	104	7.789186
	3542	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	103	9.407456
	3543	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	145	13.914554
	3544	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	161	19.423735
	3545	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	127	12.648972
	3546	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	114	12.043423
	3547	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	116	1.601184
	3548	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	115	6.470282

	3549	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	0.655914
	3550	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	145	3.30326
	3551	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	144	20.384361
	3552	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	124	8.201047
	3553	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	125	0.002597
	3554	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	142	19.142585
	3555	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	126	9.684708
	3556	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	0.133358
	3557	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	142	0.107304
	3558	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	143	18.381581
	3559	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	129	7.959541
	3560	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	0.553645
	3561	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	143	0.62293
	3562	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	141	19.432002
	3563	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	140	0.506314
	3564	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	0.377732
	3565	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	140	18.173045
	3566	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	0.241997
	3567	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	138	16.340261
	3568	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	141	0.20507
	3569	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	0.548944
	3570	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	138	2.259943
	3571	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	137	20.223369
	3572	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	132	15.602535
	3573	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	139	15.602858
	3574	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	STREAM	0.409429
	3575	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	139	3.628118
	3576	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	136	16.801511
	3577	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	133	18.453631
	3578	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	134	11.793616
	3579	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	MAJJURA	135	16.612843
					TOTAL	1089.779278
37	3580	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	15	7.637368

	3581	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	13	6.314283
	3582	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	ROAD	0.835755
	3583	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	14	7.595928
	3584	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	12	9.307154
	3585	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	27	7.985175
	3586	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	11	5.077529
	3587	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	22	7.746169
	3588	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	23	4.951884
	3589	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	24	4.897904
	3590	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	9	7.971646
	3591	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	25	4.138986
	3592	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	26	4.459237
	3593	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	10	7.392298
	3594	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	28	7.501019
	3595	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	35	7.621266
	3596	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	STREAM	23.250458
	3597	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	7	1.562592
	3598	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	164	5.753088
	3599	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	8	0.494633
	3600	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	165	4.523405
	3601	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	34	5.178169
	3602	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	32	6.001466
	3603	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	33	6.848102
	3604	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	166	2.78507
	3605	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	2	4.91622
	3606	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	29	7.307182
	3607	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	3	7.406162
	3608	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	167	2.937539
	3609	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	168	4.806705
	3610	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	6	0.412231
	3611	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	169	4.879165
	3612	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	42	7.128741
	3613	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	5	1.021576
	3614	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	170	3.945468

	3615	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	ROAD	1.954389
	3616	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	50	2.731261
	3617	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	51	4.094992
	3618	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	49	3.435535
	3619	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	48	6.956722
	3620	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	47	4.915526
	3621	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	46	3.976832
	3622	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	4	2.641163
	3623	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	52	2.272268
	3624	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	53	8.650785
	3625	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	45	6.703027
	3626	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	1	3.056767
	3627	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	171	1.927839
	3628	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	174	0.15774
	3629	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	172	1.947719
	3630	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	62	7.755268
	3631	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	63	8.327166
	3632	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	68/A	1.832275
	3633	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	ROAD	0.591442
	3634	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	173	1.840586
	3635	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	68/B	1.326533
	3636	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	162	0.795873
	3637	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	68/C	1.789701
	3638	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	163	1.338234
	3639	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	68/D	1.941019
	3640	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	30	0.277439
	3641	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	31	1.957881
	3642	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	69	7.377445
	3643	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	120	1.302732
	3644	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	61	1.131336
	3645	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	119	1.316531
	3646	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	158	1.16683
	3647	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	116	1.185781

	3648	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	SETTLEMENT	6.654431
	3649	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	157	0.743316
	3650	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	115	1.606968
	3651	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	156	0.688554
	3652	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	55	0.372896
	3653	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	56	0.409781
	3654	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	70	6.362771
	3655	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	57	0.797347
	3656	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	58	0.434192
	3657	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	54	0.064413
	3658	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	155	0.633172
	3659	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	112	1.383558
	3660	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	60	0.969079
	3661	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	154	0.284227
	3662	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	129	0.154959
	3663	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	153	0.000884
	3664	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	59	0.240319
	3665	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	128	0.122519
	3666	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	111	1.042289
	3667	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	ROAD	0.723418
	3668	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	122	1.6522
	3669	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	108	1.091168
	3670	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	107	1.314239
	3671	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	103	1.67227
	3672	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	78	6.604198
	3673	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	71	9.351595
	3674	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	104	2.72777
	3675	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	65	0.291905
	3676	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	126	0.000218
	3677	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	64	0.108509
	3678	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	66	0.48308
	3679	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	100	1.80206
	3680	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	99	1.580637
	3681	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	96	1.625397

	3682	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	125	0.415933
	3683	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	95	1.76715
	3684	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	67	1.653206
	3685	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	86	1.050559
	3686	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	121	0.817584
	3687	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	85	2.509674
	3688	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	118	0.774481
	3689	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	117	0.625092
	3690	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	87	0.714274
	3691	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	114	0.801288
	3692	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	123	0.483651
	3693	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	88	1.563402
	3694	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	113	0.627809
	3695	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	83	0.853024
	3696	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	81	2.536828
	3697	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	110	0.561637
	3698	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	82	0.595671
	3699	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	89	0.494453
	3700	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	90	0.443565
	3701	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	109	0.336416
	3702	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	77	4.468318
	3703	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	79	1.280775
	3704	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	106	0.206812
	3705	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	105	0.124169
	3706	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	77	0.309951
	3707	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	77	0.091302
	3708	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	75	0.208542
	3709	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	ROAD	0.000032
	3710	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	44	4.044833
	3711	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	43	3.387571
	3712	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	72	0.882037
	3713	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	32	0.305924
	3714	MUNDARGI	MUNDARAGI	MALLIKARJUNAPURA	ROAD	0.764312
					TOTAL	390.962824
38	3715	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	173	5.581149
	3716	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	174	9.647856
	3717	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	175	7.476807
	3718	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	176	9.602318

	3719	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	177	4.84481
	3720	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	178	7.895831
	3721	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	179	8.435548
	3722	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	180	6.144541
	3723	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	181	6.739315
	3724	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	182	8.252213
	3725	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	183	6.612559
	3726	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	184	6.151643
	3727	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	185	7.447071
	3728	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	220	6.111403
	3729	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	221	2.982229
	3730	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	222	15.362492
	3731	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	223	7.787849
	3732	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	224	6.324506
	3733	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	225	6.718337
	3734	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	226	10.558935
	3735	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	227	6.419948
	3736	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	228	6.123857
	3737	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	229	8.748072
	3738	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	230	9.872888
	3739	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	231	9.819074
	3740	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	232	4.624917
	3741	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	219	1.046515
	3742	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	217	0.840255
	3743	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	ROAD	1.127568
	3744	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	164	1.535396
	3745	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	172	1.819849
	3746	MUNDARGI	DAMBALA	MEVUNDI	171	1.197392
					TOTAL	203.853143
39	3747	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	STREAM	23.674567
	3748	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	151	9.296484
	3749	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	149	2.911769
	3750	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	150	12.353246
	3751	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	155	7.591576

	3752	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	154	5.721056
	3753	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	8	5.306605
	3754	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	147	8.161225
	3755	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	10	11.776334
	3756	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	153	2.501502
	3757	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	11	9.30552
	3758	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	158	8.143642
	3759	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	139	11.440397
	3760	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	138	9.450936
	3761	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	12	5.046797
	3762	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	144	9.570492
	3763	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	13	5.399562
	3764	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	159	5.953012
	3765	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	137	13.009255
	3766	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	14	5.507058
	3767	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	145	1.679561
	3768	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	146	5.000736
	3769	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	15	9.740935
	3770	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	140	9.278372
	3771	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	ROAD	0.692177
	3772	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	165	7.235612
	3773	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	160	5.405819
	3774	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	16	3.392338
	3775	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	17	9.529192
	3776	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	136	8.268119
	3777	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	143	9.213524
	3778	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	3	2.344349
	3779	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	18	12.558512
	3780	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	161	12.059748
	3781	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	142	3.02671
	3782	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	135	12.719778
	3783	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	20	6.677822
	3784	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	21	11.304487

	3785	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	134	3.103537
	3786	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	2	8.588672
	3787	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	22	11.180655
	3788	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	141	4.840486
	3789	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	130	5.000164
	3790	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	131	7.242565
	3791	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	162	9.013387
	3792	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	129	0.525842
	3793	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	132	10.538831
	3794	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	23	4.705158
	3795	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	133	13.54974
	3796	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	120	8.18943
	3797	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	25	4.258168
	3798	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	ROAD	2.052677
	3799	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	24	12.430574
	3800	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	121	7.92933
	3801	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	26	6.147673
	3802	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	27	6.037872
	3803	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	163	8.800125
	3804	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	ROAD	0.606587
	3805	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	29	3.406578
	3806	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	28	9.398753
	3807	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	122	5.05601
	3808	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	126	4.85967
	3809	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	30	5.051339
	3810	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	125	4.6112
	3811	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	118	5.481093
	3812	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	119	0.865213
	3813	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	123	1.331004
	3814	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	31	4.735835
	3815	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	171	9.208955
	3816	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	127	0.001023
	3817	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	33	9.761963
	3818	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	32	9.03213

	3819	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	117	1.461064
	3820	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	SETTLEMENT	6.271676
	3821	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	1	0.978466
	3822	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	116	0.772741
	3823	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	34	6.479053
	3824	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	166	1.534619
	3825	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	114	0.077697
	3826	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	164	0.922911
	3827	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	35	2.968551
	3828	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	170	0.162254
	3829	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	167	1.45511
	3830	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	59	0.65692
	3831	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	ROAD	0.007752
	3832	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUNDAVADA	36	0.0808
					TOTAL	533.620679
40	3833	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	15	6.590605
	3834	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	17	11.907494
	3835	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	16	10.063123
	3836	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	12	4.642449
	3837	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	18	12.882637
	3838	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	28	5.06966
	3839	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	27	12.531439
	3840	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	26	13.33986
	3841	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	44977	7.948213
	3842	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	19	11.559052
	3843	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	9	11.522054
	3844	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	29	11.682539
	3845	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	30	0.823491
	3846	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	8	4.53006
	3847	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	7	4.237633
	3848	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	6	14.636918
	3849	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	44946	2.191899
	3850	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	31	1.874853

	3851	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	106	15.011991
	3852	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	25	8.691546
	3853	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	32	3.233748
	3854	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	33	3.821132
	3855	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	23	7.643563
	3856	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	24	3.522933
	3857	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	21	7.220713
	3858	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	STREAM	1.425461
	3859	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	104	0.016617
	3860	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	STREAM	3.950997
	3861	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	104	8.353838
	3862	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	103	12.012666
	3863	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	22	3.366068
	3864	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	3	3.197468
	3865	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	4	7.7653
	3866	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	34	7.413029
	3867	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	5	2.314187
	3868	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	102	12.359187
	3869	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	107	8.266071
	3870	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	35	8.660723
	3871	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	2/A	3.173695
	3872	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	40	11.802353
	3873	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	101	11.760171
	3874	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	39	4.630193
	3875	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	99	8.33611
	3876	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	2/B	2.157589
	3877	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	38	5.291726
	3878	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	36	2.494186
	3879	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	100	11.709669
	3880	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	1	10.295917
	3881	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	ROAD	0.634705
	3882	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	98	9.542934
	3883	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	37	7.151197
	3884	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	97	6.667482

	3885	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	96	10.7344
	3886	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	41	9.561195
	3887	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	108	0.143124
	3888	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	95	11.655366
	3889	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	109/A	0.172922
	3890	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	109/B	0.275583
	3891	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	65	9.34377
	3892	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	42	8.748217
	3893	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	SETTLEMENT	0.191523
	3894	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	44	7.929813
	3895	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	64	10.245112
	3896	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	45	10.649592
	3897	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	66	7.787659
	3898	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	63	2.831475
	3899	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	46	0.281994
	3900	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	43	3.484607
	3901	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	62	9.181414
	3902	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	67	8.957709
	3903	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	47	1.535227
	3904	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	ROAD	0.522793
	3905	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	52	10.791314
	3906	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	68	11.214092
	3907	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	48	8.928866
	3908	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	49	14.630033
	3909	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	61	11.357796
	3910	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	51	0.150236
	3911	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	53	3.414289
	3912	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	50	14.257995
	3913	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	60	10.524759
	3914	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	54	7.957181
	3915	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	55	7.17726
	3916	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	57	10.43552
	3917	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	58	5.365277
	3918	MUNDARGI	DAMBALA	MURADI	56	0.771371
					TOTAL	603.138628
41	3919	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	11	1.610392
	3920	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	12	2.229349
	3921	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	10	0.792601

	3922	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	18	0.48921
	3923	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	7	1.049824
	3924	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	6	0.895234
	3925	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	5	0.167792
	3926	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	23	9.309477
	3927	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	24	9.013282
	3928	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	25	11.396345
	3929	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	20	1.699101
	3930	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	22	8.174422
	3931	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	29	7.545596
	3932	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	30	9.552819
	3933	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	27	7.739889
	3934	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	14	7.544076
	3935	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	21	10.680102
	3936	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	8	2.032278
	3937	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	28	4.554967
	3938	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	ROAD	1.861901
	3939	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	31	7.030447
	3940	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	40	8.65225
	3941	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	13	3.906114
	3942	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	32	9.084932
	3943	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	ROAD	0.644416
	3944	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	STREAM	5.995426
	3945	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	39	5.87061
	3946	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	41	6.788725
	3947	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	34	6.615873
	3948	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	33	5.952266
	3949	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	43	1.559867
	3950	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	42	8.965355
	3951	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	38	7.39428
	3952	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	ROAD	0.36386
	3953	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	44	2.080984
	3954	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	35	9.692067
	3955	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	45	11.249374

	3956	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	47	2.55863
	3957	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	1	0.253885
	3958	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	46	8.427796
	3959	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	48	1.562236
	3960	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	37	8.857018
	3961	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	50	8.370255
	3962	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	49	11.231242
	3963	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	SETTLEMENT	0.774424
	3964	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	36	5.557579
	3965	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	51	5.429027
	3966	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	62	9.31571
	3967	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	ROAD	2.07801
	3968	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	68	3.348372
	3969	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	60	8.96967
	3970	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	61	6.32524
	3971	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	67	6.522959
	3972	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	63	8.404636
	3973	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	66	6.536326
	3974	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	58	4.067074
	3975	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	64	5.264172
	3976	MUNDARGI	MUNDARAGI	MUSHTIKOPPA	65	3.693451
					TOTAL	317.733215
42	3977	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	13N«1	41.633136
	3978	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	17	84.23172
	3979	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	14	2.868369
	3980	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	STREAM	4.36271
	3981	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	16	3.412988
	3982	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	24A	4.481233
	3983	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	24/B	3.26631
	3984	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	18	8.282692
	3985	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	15	5.17152
	3986	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	15A	57.638699
	3987	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	21A1	40.116068

	3988	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	28A	4.555862
	3989	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	27	52.236939
	3990	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	ROAD	0.694214
	3991	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	26	5.012968
	3992	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	28A	44.411254
	3993	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	23	6.872648
	3994	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34A/1A1A	18.847839
	3995	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	39	0.589439
	3996	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	28/A2	0.108417
	3997	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	21A2	11.419604
	3998	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	20	5.681432
	3999	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	22	1.839164
	4000	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	21A	6.079688
	4001	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	14A	12.094663
	4002	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	28/A3	0.561035
	4003	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	38	4.216178
	4004	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	29	4.320672
	4005	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34/A	0.603217
	4006	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34/A/2	1.254181
	4007	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	28/C4	0.241022
	4008	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	21/A2/A	4.442666
	4009	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	1/A1	0.961616
	4010	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	28/C	4.554305
	4011	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34/A/4B	0.614987
	4012	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	30	6.460888
	4013	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34/A/4B	1.463593
	4014	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	ROAD	0.091934
	4015	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34A/3	6.007877
	4016	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	30	0.055319
	4017	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	31	1.388306
	4018	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	ROAD	0.408044
	4019	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	31	6.776201
	4020	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	37	2.769039
	4021	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	21/A2/B	2.912167

	4022	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34/A1/A2	9.351507
	4023	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	32	0.852631
	4024	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	ROAD	0.399496
	4025	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	21/A2/C	1.497216
	4026	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	32	5.159202
	4027	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34/B	11.636136
	4028	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	33	6.199056
	4029	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	36	10.112178
	4030	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	ROAD	0.263608
	4031	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	34/A1/B	5.293553
	4032	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	28A	0.503213
	4033	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	35	5.015656
	4034	GADAG	GADAGA	NABHAPURA	94	0.146283
					TOTAL	532.442558
43	4035	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	NADIGATTI	53	3.709049
	4036	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	NADIGATTI	52	1.390037
					TOTAL	5.099086
44	4037	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	174	2.404328
	4038	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	175	2.379236
	4039	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	176	3.252869
	4040	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	177	2.898956
	4041	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	178	3.288259
	4042	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	182	0.719334
	4043	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	181	2.465902
	4044	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	180	2.474533
	4045	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	179	4.634069
	4046	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	183	1.469463
	4047	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	XX	0.032365
	4048	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	STREAM	0.124098
	4049	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	184	5.997699
	4050	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	STREAM	0.388325
	4051	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	184	0.061178
	4052	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	288	3.732696

	4053	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	186	0.865284
	4054	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	157	0.642682
	4055	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	STREAM	1.27321
	4056	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	157	0.01454
	4057	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	STREAM	3.241263
	4058	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	157	0.297254
	4059	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	186	0.608829
	4060	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	187	5.945122
	4061	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	185	0.853796
	4062	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	188	1.492764
	4063	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	182	6.627042
	4064	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	XX	0.541112
	4065	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	STREAM	0.019143
	4066	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	XX	0.083789
	4067	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	STREAM	0.308511
	4068	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	XX	0.009657
	4069	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	158	3.871048
	4070	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	RIVER	74.19282
	4071	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	195	4.667115
	4072	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	193	0.935273
	4073	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	191	2.189193
	4074	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	190	1.734893
	4075	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	194	5.775796
	4076	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	196	4.604552
	4077	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	201	3.491177
	4078	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	266	5.60281
	4079	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	267	0.156383
	4080	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	205	2.177714
	4081	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	206	1.625271
	4082	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	207 SETTLEMENT HONNURU	2.3632
	4083	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	STREAM	1.591889
	4084	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	210	1.472819
	4085	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	269	3.907023

	4086	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	209	6.121415
	4087	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	268	0.455767
	4088	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	213	1.996098
	4089	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	208	0.804041
	4090	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	270	3.08246
	4091	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	279	1.096714
	4092	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	STREAM	1.864448
	4093	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	279	1.023305
	4094	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	265	0.810081
	4095	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	264	2.713216
	4096	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	271	6.283521
	4097	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	263	2.694925
	4098	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	214	2.344464
	4099	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	262	4.901179
	4100	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	261	0.901177
	4101	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	259	2.465791
	4102	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	278	3.463661
	4103	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	260	2.526546
	4104	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	277	3.295192
	4105	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	272	1.762673
	4106	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	276	1.784601
	4107	HADAGALI	HOOVINA HADAGALI	NAVALI	197	0.058535
					TOTAL	231.956094
45	4108	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	6	3.18221
	4109	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	45	7.879433
	4110	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	46	6.056537
	4111	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	1	7.967763
	4112	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	STREAM	1.891268
	4113	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	44	7.942883
	4114	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	SETTLEMENT	1.272972
	4115	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	47	2.083579
	4116	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	10	4.576985
	4117	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	43	8.348657

	4118	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	50	2.880098
	4119	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	4	2.508335
	4120	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	48	0.255377
	4121	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	42	13.777371
	4122	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	11	8.641399
	4123	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	3	8.001997
	4124	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	49	6.863952
	4125	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	05-JAN	10.619663
	4126	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	37	6.398555
	4127	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	ROAD	0.454423
	4128	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	2	7.123021
	4129	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	05-FEB	4.391103
	4130	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	35	7.860865
	4131	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	14	4.030545
	4132	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	36	6.714645
	4133	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	40	9.974588
	4134	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	41	3.942733
	4135	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	38	3.877269
	4136	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	12	11.093944
	4137	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	13	9.87347
	4138	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	39	4.40403
	4139	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	17	13.490489
	4140	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	16	11.06334
	4141	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	15	10.777869
	4142	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	34	7.198691
	4143	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	33	6.30413
	4144	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	32	5.2106
	4145	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	29	9.461085
	4146	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	31	6.256929
	4147	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	30	4.416116
	4148	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	28	1.400735
	4149	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	18	5.474591
	4150	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	21	6.354199
	4151	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	22	7.452533

	4152	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	24	9.056238
	4153	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	23	9.106823
	4154	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	19	5.35134
	4155	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	20	11.39904
	4156	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	25	4.863877
	4157	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	NAVEBHAVANURA	26	6.943897
					TOTAL	326.472192
46	4158	GADAG	BETAGERI	PAPANASHI	37/A	1.646806
					TOTAL	1.646806
47	4159	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	66	7.267995
	4160	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	6	8.011295
	4161	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	89	3.361665
	4162	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	2	1.840207
	4163	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	7	11.161897
	4164	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	85	2.590631
	4165	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	9	5.158824
	4166	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	8	9.222191
	4167	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	1	3.006692
	4168	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	10	12.761114
	4169	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	84	2.728619
	4170	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	21	5.999726
	4171	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	20	7.701453
	4172	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	SETTLEMENT	1.893305
	4173	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	83	2.316556
	4174	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	11	7.901725
	4175	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	19	9.186564
	4176	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	82	3.883938
	4177	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	23	8.228073
	4178	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	90	0.4808
	4179	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	22	7.244879
	4180	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	81	3.878809
	4181	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	12	2.978727
	4182	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	80	6.026014

	4183	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	26	12.180114
	4184	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	17	9.773847
	4185	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	18	9.692989
	4186	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	24	6.639545
	4187	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	78	3.138604
	4188	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	75	5.361722
	4189	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	74	9.409293
	4190	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	13	11.500727
	4191	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	25	8.351233
	4192	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	77	10.366113
	4193	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	16	4.704729
	4194	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	15	12.039705
	4195	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	73	12.17264
	4196	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	76	9.131657
	4197	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	72	12.494631
	4198	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	14	12.561089
	4199	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	STREAM	3.993835
	4200	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	68	8.677189
	4201	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	59	0.000267
	4202	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	69	5.017484
	4203	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	70	7.056419
	4204	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	71	5.806521
	4205	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	67	9.075266
	4206	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	63	6.369399
	4207	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	61	7.78908
	4208	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	62	6.284839
	4209	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	66	7.39663
	4210	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	65	10.553407
	4211	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	64	11.402252
	4212	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	55	6.403973
	4213	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	53	7.082972
	4214	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	54	8.246549
	4215	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	PARASAPURA	52	8.114459
					TOTAL	403.620878

48	4216	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	56	12.159356
	4217	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	72	8.197941
	4218	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	48	9.631601
	4219	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	49	6.243439
	4220	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	73	8.281251
	4221	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	46	10.139976
	4222	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	74	5.026369
	4223	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	85	11.548672
	4224	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	47	9.200168
	4225	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	75	10.796997
	4226	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	45	5.283803
	4227	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	86	8.943045
	4228	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	76	6.214421
	4229	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	44	6.838913
	4230	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	77	8.519911
	4231	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	43	11.388463
	4232	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	78	5.822062
	4233	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	92	4.637343
	4234	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	36	9.453669
	4235	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	91	4.358168
	4236	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	79	5.846628
	4237	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	37	6.555082
	4238	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	87	9.579237
	4239	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	38	6.516548
	4240	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	80	5.535673
	4241	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	98	4.654072
	4242	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	93	7.633066
	4243	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	97	5.914953
	4244	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	39	9.475005
	4245	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	40	5.445945
	4246	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	96	5.492825
	4247	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	90	4.694243
	4248	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	42	0.422655

	4249	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	99	9.150139
	4250	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	100	7.623638
	4251	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	101	14.280076
	4252	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	35	7.218814
	4253	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	102	11.919434
	4254	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	103	11.181546
	4255	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	ROAD	1.247396
	4256	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	89	8.789572
	4257	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	88	8.620422
	4258	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	105	14.459555
	4259	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	104	7.906086
	4260	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	106	9.159352
	4261	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	34	9.137718
	4262	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	110	6.580842
	4263	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	33	0.070643
	4264	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	107	4.821565
	4265	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	109	10.047988
	4266	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	108	12.643475
	4267	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	111	1.133312
	4268	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	1	1.581087
	4269	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	2	0.579874
	4270	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	112	0.114639
	4271	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	113	5.880003
	4272	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	120	0.614037
	4273	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	114	5.656997
	4274	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	RANATURA	115	0.412701
					TOTAL	411.282411
49	4275	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHEERANAHALLI	20	7.119354
	4276	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHEERANAHALLI	21	7.606689
	4277	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHEERANAHALLI	22	7.584676
	4278	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHEERANAHALLI	24	59.380913
	4279	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHEERANAHALLI	25	4.263496
	4280	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHEERANAHALLI	26	7.321233
	4281	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHEERANAHALLI	27	9.657721
	4282	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHEERANAHALLI	28	4.771185
					TOTAL	107.705267

50	4283	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	39 TANK	94.875482
	4284	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	23	1.616259
	4285	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	19	1.97005
	4286	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	24	1.501584
	4287	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	18	0.345783
	4288	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	25	5.84303
	4289	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	22	1.483185
	4290	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	20	0.39025
	4291	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	17	4.656725
	4292	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	21	1.722887
	4293	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	26	1.327158
	4294	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	16	4.105518
	4295	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	14	1.435702
	4296	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	13	2.375628
	4297	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	28	12.048243
	4298	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	15	1.803223
	4299	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	27	6.747727
	4300	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	12	1.950575
	4301	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	83	2.861771
	4302	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	ROAD	2.367051
	4303	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	8	1.246719
	4304	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	41	1.58164
	4305	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	9	1.379477
	4306	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	ROAD	1.857512
	4307	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	7	1.489739
	4308	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	10	0.704978
	4309	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	11	2.308066
	4310	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	80	11.288082
	4311	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	42	9.261292
	4312	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	81	6.01789
	4313	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	82	11.621777
	4314	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	84	2.20832
	4315	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	6	1.721835

	4316	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	1	3.451465
	4317	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	2	4.653616
	4318	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	4	1.533518
	4319	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	5	1.301176
	4320	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	3	0.899037
	4321	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	43	5.33622
	4322	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	74	7.82631
	4323	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	47	4.964319
	4324	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	44	7.969923
	4325	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	48	2.091021
	4326	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	SETTLEMENT	2.538
	4327	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	49	4.232622
	4328	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	79	9.113637
	4329	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	75	3.894557
	4330	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	73	3.422104
	4331	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	72	2.793042
	4332	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	76	3.78298
	4333	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	50	4.598961
	4334	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	71	3.819206
	4335	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	45	11.50605
	4336	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	46	12.329565
	4337	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	78	6.4487
	4338	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	77	9.83672
	4339	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	51	0.156629
	4340	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	69	1.558379
	4341	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	70	0.164385
	4342	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	52	1.248881
	4343	LAXMESHWAR	LAKSHMESHVARA	SHETTIKERI	53	0.134601
					TOTAL	325.720782
51	4344	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	ROAD	2.525149
	4345	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	204	7.422067
	4346	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	206	1.501892
	4347	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	203	6.297511
	4348	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	207	1.505144

	4349	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	205	3.438124
	4350	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	202	7.282789
	4351	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	208	3.146981
	4352	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	STREAM	0.542982
	4353	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	209	7.041105
	4354	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	210	7.322445
	4355	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	201	10.096924
	4356	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	217	7.699652
	4357	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	218	2.707273
	4358	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	190	4.84793
	4359	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	191	9.329039
	4360	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	188	7.026113
	4361	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	220	4.096641
	4362	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	189	2.870537
	4363	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	221	10.938984
	4364	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	187	3.145462
	4365	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	227	6.384075
	4366	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	228	0.000886
	4367	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	229	0.12468
	4368	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	222	4.387355
	4369	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	226	7.509477
	4370	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	186	2.804598
	4371	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	223	6.247474
	4372	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	185	4.451819
	4373	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	230	3.604225
	4374	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	184	6.590072
	4375	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	225	2.632756
	4376	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	224	2.558409
	4377	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	231	3.14858
	4378	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	180	9.532616
	4379	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	181	3.651128
	4380	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	182	2.295055
	4381	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	175	4.572883

	4382	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	232	2.07126
	4383	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	174	7.918124
	4384	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	177	2.803317
	4385	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	179	3.82647
	4386	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	176	1.90782
	4387	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	233	1.414981
	4388	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	178	2.838285
	4389	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	158	9.171805
	4390	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	172	2.16519
	4391	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	173	1.777844
	4392	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	168	1.924133
	4393	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	167	1.999528
	4394	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	159	0.98781
	4395	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	171	1.869233
	4396	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	170	2.389732
	4397	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	STREAM	0.190181
	4398	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	160	4.613802
	4399	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	169	1.316841
	4400	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	156	0.945909
	4401	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	161	2.932285
	4402	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	157	3.774064
	4403	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	166	2.296765
	4404	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	STREAM	3.929107
	4405	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	165	2.989227
	4406	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	163	2.297893
	4407	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	164	4.239689
	4408	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	162	1.498433
	4409	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	155	5.003603
	4410	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	154	4.305098
	4411	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	152	3.019944
	4412	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	ROAD	0.91418
	4413	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	153	2.6214
	4414	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	151	1.859861
	4415	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	150	1.541908

	4416	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	149	1.651819
	4417	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	148	3.220722
	4418	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	119	3.12234
	4419	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	120	2.568761
	4420	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	RIVER_THUGAB HADRA	57.92568
	4421	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	145	4.389161
	4422	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	147	2.293733
	4423	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	146	9.860743
	4424	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	123	0.106969
	4425	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	144	3.139392
	4426	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	124	5.199371
	4427	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	143	1.568482
	4428	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	125	3.242555
	4429	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	141	5.965101
	4430	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	142	4.598707
	4431	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	140	4.77452
	4432	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	139	2.804105
	4433	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	XX	0.162422
	4434	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	ROAD	1.255336
	4435	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	127	3.489562
	4436	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	126	2.263372
	4437	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	138	3.154691
	4438	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	136	1.877994
	4439	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	137	2.792128
	4440	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	128	6.488694
	4441	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	135	4.799403
	4442	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	129	3.440961
	4443	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	130	4.686341
	4444	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	131	4.390423
	4445	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	STREAM	0.652692
	4446	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	132	8.228692
	4447	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	132	0.148959
	4448	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	133	2.356734
	4449	MUNDARGI	MUNDARAGI	SHINGATALURA	134/B	0.15843
					TOTAL	443.415549
52	4450	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	ROAD	0.298236
	4451	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	156	0.682815

	4452	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	155	0.571267
	4453	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	SETTLEMENT	0.072852
	4454	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	7	0.021782
	4455	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	6	0.000014
	4456	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	150	3.439685
	4457	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	8	0.069182
	4458	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	151	3.089815
	4459	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	152	0.204641
	4460	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	10	0.691261
	4461	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	149	3.007007
	4462	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	ROAD	1.981735
	4463	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	136	7.208068
	4464	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	137	0.686558
	4465	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	48	0.04212
	4466	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	148	2.898298
	4467	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	138	9.073879
	4468	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	133	5.602674
	4469	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	146	4.616245
	4470	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	124	2.088528
	4471	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	147	2.133215
	4472	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	123	4.295161
	4473	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	145	4.365646
	4474	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	134	5.424942
	4475	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	71	0.698802
	4476	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	113	2.046448
	4477	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	72	4.275091
	4478	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	108	0.004808
	4479	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	125	1.958044
	4480	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	144	7.432224
	4481	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	122	6.083962
	4482	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	109	0.37565
	4483	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	112	1.915885
	4484	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	139	6.060753
	4485	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	126	7.094212

	4486	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	132	5.766013
	4487	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	143	3.537209
	4488	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	142	5.236053
	4489	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	140	6.124832
	4490	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	127	4.945664
	4491	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	161	8.23033
	4492	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	114	3.441781
	4493	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	141	16.898993
	4494	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	102	1.984015
	4495	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	103	1.860086
	4496	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	115	8.92149
	4497	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	130	8.779566
	4498	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	104/B	0.248562
	4499	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	104/A	3.526045
	4500	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	128	8.074252
	4501	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	135	5.451528
	4502	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	101	2.767815
	4503	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	131	15.248678
	4504	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	121	54.658865
	4505	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	120	2.210197
	4506	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	119	4.256881
	4507	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	116	4.540707
	4508	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	100	3.780211
	4509	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	129	4.922564
	4510	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	118	3.217473
	4511	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	99	5.239781
	4512	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	117	3.866857
	4513	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	98	4.212639
	4514	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	97	4.820287
	4515	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	96/A	13.780972
	4516	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	96/C	11.800333
	4517	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	96/B	11.562439
	4518	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	90	67.085845

	4519	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	162	8.152574
	4520	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	94	18.2678
	4521	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	163	5.516071
	4522	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	95	4.784235
	4523	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	93	7.278417
	4524	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	92	4.70039
	4525	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	ROAD	0.808404
	4526	MUNDARGI	DAMBALA	SHINGATARAYANAKERI	91	165.011892
					TOTAL	626.030251
53	4527	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	ROAD	3.650842
	4528	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	89	6.492249
	4529	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	91	5.598077
	4530	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	92	7.898715
	4531	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	93	5.917488
	4532	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	94	5.902793
	4533	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	95	4.74517
	4534	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	97	1.794772
	4535	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	98	2.058059
	4536	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	99	3.720398
	4537	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	100	4.978612
	4538	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	101	12.148673
	4539	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	102	12.331335
	4540	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	103	2.944326
	4541	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	104	1.081631
	4542	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	183	12.051053
	4543	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	184	8.675491
	4544	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	185	6.919942
	4545	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	186	12.078091
	4546	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	187	9.706978
	4547	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	188	9.007965
	4548	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	189	8.255713
	4549	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	190	8.350866
	4550	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	191	9.756309
	4551	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	192	10.707538

	4552	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	193	7.302759
	4553	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	194	10.220629
	4554	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	195	11.241732
	4555	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	196	11.310215
	4556	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	197	7.387865
	4557	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	198	7.520339
	4558	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	199	5.586836
	4559	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	202	12.250128
	4560	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	203	12.943044
	4561	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	204	14.810715
	4562	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	205	11.961401
	4563	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	207	8.59154
	4564	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	208	10.902743
	4565	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	210	11.636713
	4566	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	211	12.771353
	4567	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	212	12.868752
	4568	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	213	12.850594
	4569	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	214	8.783771
	4570	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	215	7.769813
	4571	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	216	11.584543
	4572	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	217	6.327917
	4573	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	218	10.272955
	4574	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	219	6.087821
	4575	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	209	4.088662
	4576	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	171	0.475445
	4577	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	220	3.161616
	4578	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	206	1.27285
	4579	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	201	0.3843
	4580	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	200	1.840506
	4581	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	182_TANK	1.967374
	4582	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	181	1.315115
	4583	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	106	0.063651
	4584	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	107	0.569543
					TOTAL	424.896326
54	4585	GADAG	GADAGA	SHIRUNJA	ROAD	0.091328
	4586	GADAG	GADAGA	SHIRUNJA	71	1.097609
	4587	GADAG	GADAGA	SHIRUNJA	70	1.186991
	4588	GADAG	GADAGA	SHIRUNJA	69	1.842787
	4589	GADAG	GADAGA	SHIRUNJA	54	1.297074
	4590	GADAG	GADAGA	SHIRUNJA	53	1.194162

	4591	GADAG	GADAGA	SHIRUNJA	52	0.06916
	4592	GADAG	GADAGA	SHIRUNJA	52	0.298301
					TOTAL	7.077412
55	4593	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	14	12.474758
	4594	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	13	12.093409
	4595	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	12	7.358071
	4596	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	15	15.873033
	4597	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	11	15.523052
	4598	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	10	7.302196
	4599	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	16	10.38121
	4600	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	17	9.262638
	4601	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	ROAD	1.470103
	4602	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	18	6.988649
	4603	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	9	10.93744
	4604	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	19	0.59583
	4605	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	SUGNALLI	8	0.220205
					TOTAL	110.480594
56	4606	GADAG	GADAGA	SORATUR	42	4.0156
	4607	GADAG	GADAGA	SORATUR	136	109.754043
	4608	GADAG	GADAGA	SORATUR	140	57.062688
	4609	GADAG	GADAGA	SORATUR	138	11.177275
	4610	GADAG	GADAGA	SORATUR	139	7.826561
	4611	GADAG	GADAGA	SORATUR	ROAD	1.785462
	4612	GADAG	GADAGA	SORATUR	139	1.493955
	4613	GADAG	GADAGA	SORATUR	140/PAI	77.288821
	4614	GADAG	GADAGA	SORATUR	137	8.117856
	4615	GADAG	GADAGA	SORATUR	133	6.254801
	4616	GADAG	GADAGA	SORATUR	161	1.197486
	4617	GADAG	GADAGA	SORATUR	142/A	121.016599
	4618	GADAG	GADAGA	SORATUR	141	0.007614
	4619	GADAG	GADAGA	SORATUR	142 À	3.107288
	4620	GADAG	GADAGA	SORATUR	142 À	12.276989
	4621	GADAG	GADAGA	SORATUR	159	0.798844
	4622	GADAG	GADAGA	SORATUR	164	35.191278

	4623	GADAG	GADAGA	SORATUR	144	6.826425
	4624	GADAG	GADAGA	SORATUR	ROAD	0.535871
	4625	GADAG	GADAGA	SORATUR	144	1.339053
	4626	GADAG	GADAGA	SORATUR	157	4.068837
	4627	GADAG	GADAGA	SORATUR	158	1.468584
	4628	GADAG	GADAGA	SORATUR	143/PAI	4.579533
	4629	GADAG	GADAGA	SORATUR	168	9.251982
	4630	GADAG	GADAGA	SORATUR	145	8.626794
	4631	GADAG	GADAGA	SORATUR	143	8.021329
	4632	GADAG	GADAGA	SORATUR	147	2.319241
	4633	GADAG	GADAGA	SORATUR	154	1.770961
	4634	GADAG	GADAGA	SORATUR	155	1.860447
	4635	GADAG	GADAGA	SORATUR	156	1.566551
	4636	GADAG	GADAGA	SORATUR	148	1.732867
	4637	GADAG	GADAGA	SORATUR	167	12.687573
	4638	GADAG	GADAGA	SORATUR	146	2.00922
	4639	GADAG	GADAGA	SORATUR	149	1.451009
	4640	GADAG	GADAGA	SORATUR	150	1.718559
	4641	GADAG	GADAGA	SORATUR	151	1.775819
	4642	GADAG	GADAGA	SORATUR	152	1.055465
	4643	GADAG	GADAGA	SORATUR	165	12.269823
	4644	GADAG	GADAGA	SORATUR	166	0.913399
	4645	GADAG	GADAGA	SORATUR	129	0.287642
	4646	GADAG	GADAGA	SORATUR	130	13.270923
	4647	GADAG	GADAGA	SORATUR	170	82.386271
	4648	GADAG	GADAGA	SORATUR	ROAD	0.06917
	4649	GADAG	GADAGA	SORATUR	169	7.881981
	4650	GADAG	GADAGA	SORATUR	189A	4.54344
	4651	GADAG	GADAGA	SORATUR	189B	0.345133
	4652	GADAG	GADAGA	SORATUR	188	4.156678
	4653	GADAG	GADAGA	SORATUR	187	7.55045
	4654	GADAG	GADAGA	SORATUR	186	7.973593
	4655	GADAG	GADAGA	SORATUR	183	5.792688

	4656	GADAG	GADAGA	SORATUR	184	5.856919
	4657	GADAG	GADAGA	SORATUR	185	1.282408
	4658	GADAG	GADAGA	SORATUR	182	3.162934
	4659	GADAG	GADAGA	SORATUR	181	3.549378
	4660	GADAG	GADAGA	SORATUR	171	26.275537
	4661	GADAG	GADAGA	SORATUR	180	4.418518
	4662	GADAG	GADAGA	SORATUR	179	5.378583
	4663	GADAG	GADAGA	SORATUR	175	0.339615
	4664	GADAG	GADAGA	SORATUR	174B	1.185789
	4665	GADAG	GADAGA	SORATUR	172	6.85198
	4666	GADAG	GADAGA	SORATUR	174A	4.766196
	4667	GADAG	GADAGA	SORATUR	173	10.218128
	4668	GADAG	GADAGA	SORATUR	ROAD	1.099011
	4669	GADAG	GADAGA	SORATUR	33	0.000011
	4670	GADAG	GADAGA	SORATUR	ROAD	1.836396
	4671	GADAG	GADAGA	SORATUR	36	4.141561
	4672	GADAG	GADAGA	SORATUR	37	6.316886
	4673	GADAG	GADAGA	SORATUR	38	2.949088
	4674	GADAG	GADAGA	SORATUR	39	5.072763
	4675	GADAG	GADAGA	SORATUR	44	6.811222
	4676	GADAG	GADAGA	SORATUR	49	1.565645
	4677	GADAG	GADAGA	SORATUR	43	8.597753
	4678	GADAG	GADAGA	SORATUR	48	0.236546
	4679	GADAG	GADAGA	SORATUR	45	4.413154
	4680	GADAG	GADAGA	SORATUR	46	4.959723
	4681	GADAG	GADAGA	SORATUR	47	0.313362
	4682	GADAG	GADAGA	SORATUR	41	5.755572
	4683	GADAG	GADAGA	SORATUR	40	6.240087
	4684	GADAG	GADAGA	SORATUR	42	2.525214
	4685	GADAG	GADAGA	SORATUR	ROAD	0.522693
	4686	GADAG	GADAGA	SORATUR	ROAD	0.49212
					TOTAL	817.615263
57	4687	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	39	0.284524
	4688	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	XX	0.050693

	4689	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	STREAM	0.095005
	4690	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	XX	3.628988
	4691	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	39	0.977717
	4692	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	38	0.25358
	4693	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	STREAM	0.280294
	4694	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	38	1.424645
	4695	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	37	3.941083
	4696	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	27	3.674904
	4697	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	25	2.553075
	4698	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	36	3.748041
	4699	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	26	6.357873
	4700	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	24	1.3832
	4701	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	23	3.963507
	4702	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	22	6.898167
	4703	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	20	7.840115
	4704	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	21	3.122403
	4705	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	18	4.5424
	4706	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	1	6.50861
	4707	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	17	3.153485
	4708	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	16	3.022237
	4709	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	15	8.40962
	4710	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	19	4.59172
	4711	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	2	0.97804
	4712	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	3	9.226025
	4713	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	12	1.437603
	4714	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	13	1.634914
	4715	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	14	1.100064
	4716	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	11	1.204846
	4717	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	XX	0.244464
	4718	HADAGALI	HADAGALI	THIMLAPUR	288_RIVER TUNGABHDRA	32.725324
					TOTAL	129.257166
58	4719	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	65	4.732339
	4720	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	53	6.082853

	4721	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	54	8.540202
	4722	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	64	4.662118
	4723	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	50	9.444826
	4724	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	63	4.445552
	4725	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	59	9.072696
	4726	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	72	7.564565
	4727	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	62	5.838219
	4728	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	61	5.479118
	4729	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	55	6.514642
	4730	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	48	6.086035
	4731	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	47	7.48919
	4732	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	STREAM	11.72561
	4733	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	60	7.874501
	4734	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	40/1	5.210816
	4735	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	41	8.063679
	4736	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	21	5.323457
	4737	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	79	7.567571
	4738	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	34	3.319462
	4739	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	73	7.800641
	4740	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	42	5.812355
	4741	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	102	2.652373
	4742	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	103	5.112306
	4743	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	46	9.039412
	4744	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	22	9.059024
	4745	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	20	7.588276
	4746	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	33/2	6.457333
	4747	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	33/1	5.838099
	4748	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	56	5.757891
	4749	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	31	10.537016
	4750	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	18	11.044138
	4751	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	30	12.141456
	4752	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	19	6.180242
	4753	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	13	7.006201
	4754	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	29	15.634741

	4755	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	28	8.544115
	4756	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	78	7.28389
	4757	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	74	5.84893
	4758	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	58	10.422147
	4759	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	40/2	6.737709
	4760	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	83	7.69742
	4761	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	77	7.400389
	4762	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	57	4.542014
	4763	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	24	9.354391
	4764	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	45	7.417422
	4765	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	16	5.251842
	4766	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	75	7.433589
	4767	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	43	2.724908
	4768	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	17	7.557336
	4769	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	39	9.426069
	4770	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	14	9.833453
	4771	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	23	5.722057
	4772	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	44	2.749633
	4773	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	76	5.313789
	4774	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	STREAM	0.233467
	4775	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	32/1	7.63457
	4776	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	STREAM	0.009174
	4777	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	91	0.852554
	4778	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	32/2	2.814762
	4779	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	STREAM	0.86895
	4780	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	15	7.006965
	4781	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	91	10.592634
	4782	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	92	12.219876
	4783	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	38	7.498201
	4784	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	26	8.834049
	4785	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	93	12.277475
	4786	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	88	1.104177
	4787	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	STREAM	0.864313

	4788	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	ROAD	0.113954
	4789	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	88	9.09698
	4790	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	95/2	5.031584
	4791	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	ROAD	0.103398
	4792	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	95/1	5.944775
	4793	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	ROAD	2.602159
	4794	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	27	13.317909
	4795	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	96	13.786721
	4796	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	94	8.112883
	4797	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	7	13.497213
	4798	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	9	11.758013
	4799	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	87	3.213343
	4800	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	8	13.405373
	4801	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	89	6.974142
	4802	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	STREAM	0.502228
	4803	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	89	0.52044
	4804	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	44927	2.287831
	4805	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	44958	3.663189
	4806	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	ROAD	0.355549
	4807	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	5	10.932669
	4808	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	6	10.515848
	4809	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	ROAD	0.360641
	4810	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	97/A	4.893982
	4811	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	2	4.266234
	4812	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	90	0.000229
	4813	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	SETTLEMENT	2.065798
	4814	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	97/B	0.013234
	4815	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	100	4.096678
	4816	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	3	9.935756
	4817	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	4	5.877981
	4818	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	98	0.524648
	4819	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	STREAM	1.633441
	4820	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	98	3.424229
	4821	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	STREAM	0.387618

	4822	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	97/A	0.689146
	4823	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	100	3.984857
	4824	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	TEGGINABHAVANUR	99	0.266809
					TOTAL	644.928707
59	4825	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	ROAD	2.833284
	4826	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	28	2.071708
	4827	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	29	10.081645
	4828	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	30	14.497735
	4829	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	45	12.081106
	4830	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	46	12.008896
	4831	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	32	14.685382
	4832	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	27	3.233464
	4833	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	31	7.486003
	4834	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	44	13.795357
	4835	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	34	5.403771
	4836	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	33	13.223897
	4837	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	43	4.082431
	4838	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	57	5.770649
	4839	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	49	11.582426
	4840	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	50	12.660191
	4841	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	42	10.10527
	4842	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	41	5.252493
	4843	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	35	2.58789
	4844	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	56	14.904229
	4845	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	39	5.366065
	4846	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	51	15.12534
	4847	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	40	7.21447
	4848	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	60	9.630264
	4849	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	STREAM	20.308493
	4850	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	66	4.164463
	4851	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	52	11.992121
	4852	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	55	9.010709
	4853	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	38	0.039976

	4854	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	120	0.873224
	4855	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	53	8.954671
	4856	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	128	0.037907
	4857	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	54	8.302972
	4858	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	74	10.617949
	4859	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	113	3.524649
	4860	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	119	7.513066
	4861	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	114	10.484083
	4862	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	112	2.167343
	4863	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	121	0.054374
	4864	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	127	0.590856
	4865	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	111	3.632105
	4866	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	103	5.457931
	4867	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	123	0.777593
	4868	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	102	13.451451
	4869	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	77	7.908386
	4870	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	STREAM	0.810321
	4871	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	126	0.708578
	4872	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	118	8.431747
	4873	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	121	5.808213
	4874	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	135	0.7832
	4875	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	122	2.308702
	4876	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	76	12.638911
	4877	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	75	2.028993
	4878	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	115	12.100544
	4879	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	82	11.647394
	4880	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	110	2.287796
	4881	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	104	7.210797
	4882	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	109	3.330023
	4883	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	117	3.96252
	4884	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	136	1.017795
	4885	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	108	5.162233
	4886	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	106	6.293407
	4887	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	105	6.223962

	4888	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	100	14.115496
	4889	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	133	0.868788
	4890	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	116	12.449471
	4891	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	78	7.039582
	4892	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	101	15.709393
	4893	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	79	7.202714
	4894	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	80	11.875726
	4895	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	81	8.253334
	4896	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	99	4.702029
	4897	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	85	8.088639
	4898	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	107	7.216541
	4899	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	91	11.87085
	4900	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	92	3.556455
	4901	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	98	8.276988
	4902	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	89	10.654537
	4903	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	97	10.9146
	4904	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	86	13.557418
	4905	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	96	7.189997
	4906	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	88	10.96616
	4907	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	VARAVI	87	11.097658
					TOTAL	623.9098
60	4908	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	20	1.743772
	4909	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	19	0.258951
	4910	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	STREAM	0.131842
	4911	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	25	2.974533
	4912	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	26	5.414946
	4913	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	37	1.180557
	4914	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	33	8.207549
	4915	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	32	3.213335
	4916	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	28	6.797468
	4917	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	32/A	4.341749
	4918	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	36	11.429108
	4919	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	ROAD	0.544662

	4920	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	29	7.642258
	4921	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	35	6.165499
	4922	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	39	2.034207
	4923	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	34	6.861837
	4924	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	31	8.324778
	4925	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	30	9.209541
	4926	MUNDARGI	MUNDARAGI	VEERUPAPURA	27	5.084713
					TOTAL	91.561305
		TOTAL ESZ AREA IN Ha.				29889.01606

Survey number wise buffer forest area falling in ESZ

	SURVEY NUMBER	VILLAGE	HOBLI	TALUK	DISTRICT	AREA IN HECTARE
1	105	ADAVI SOMAPUR	BETAGERI	GADAG	GADAG	22.331953
2	105/A	ADAVI SOMAPUR	BETAGERI	GADAG	GADAG	3.053199
3	105/B	ADAVI SOMAPUR	BETAGERI	GADAG	GADAG	9.040396
4	105/C	ADAVI SOMAPUR	BETAGERI	GADAG	GADAG	3.364679
5	106	ADAVI SOMAPUR	BETAGERI	GADAG	GADAG	99.353903
6	107	ADAVI SOMAPUR	BETAGERI	GADAG	GADAG	105.760497
						242.904627
7	13	ADHARAHALLI	LAKSHMESHVAR	LAXMESHWAR	GADAG	4.329656
8	14	ADHARAHALLI	LAKSHMESHVAR	LAXMESHWAR	GADAG	6.32577
						10.655426
9	23	BELADHADI	GADAG	GADAG	GADAG	13.444577
10	32	BELADHADI	GADAG	GADAG	GADAG	31.595215
11	38	BELADHADI	GADAG	GADAG	GADAG	36.1392
12	44	BELADHADI	GADAG	GADAG	GADAG	41.333088
						122.51208
13	378	CHABBI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.119804
						0.119804
14	353	DAMBAL	DAMBALA	MUNDARGI	GADAG	7.31955
						7.31955
15	155	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	9.250205
16	156	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	6.068816
17	157	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	6.317283
18	158	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.010398
19	159	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.115295
20	160	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	3.974915
21	161	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	7.211084
22	162	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	10.249833
23	163	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	8.926217
24	164	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	3.551016
25	168	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	122.372421
26	32	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	6.969254
27	33	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.951916
28	34	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	4.388723
29	35	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	7.701593
30	36	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	8.49481

31	37	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	4.615965
32	38	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	6.969355
33	39	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.608868
34	40	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	6.82501
35	41	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	8.312747
36	42	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.283291
37	43	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	6.145622
38	44	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	4.687454
39	45	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.252034
40	46	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.8654
41	47	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	7.701518
42	48	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.511984
43	49	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	4.132339
44	50	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	8.587986
45	52	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	6.298068
46	53	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	1.47352
47	70	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.000261
48	71	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.046466
49	86	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.000264
50	87	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.020749
51	88	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.143822
52	89	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.012555
53	90	DEVIHAL	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.003256
						315.052313
54	27	GUDDADHAPUR(VARAVI)	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.226478
						0.226478
55	83	KADHAMPURA	DAMBALA	MUNDARGI	GADAG	28.545999
						28.545999
56	XX_OLD_17	KEREHALLI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	5.488915
57	XX_OLD_20/1	KEREHALLI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	3.342649
58	XX_OLD_20/2	KEREHALLI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	2.717891
59	XX_OLD_25	KEREHALLI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.396209
						11.945664
60	50	KUSALAPURA	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.358517
61	51	KUSALAPURA	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.207265
						0.565782
62	75	KALAKERI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	18.08679
63	76	KALAKERI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.02264
64	77	KALAKERI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.548743
65	81	KALAKERI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.289118
66	82	KALAKERI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	13.298073
67	85	KALAKERI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.573395
						32.818759
68	123	KORLAHALLI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.630945
69	150	KORLAHALLI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.586542
70	150	KORLAHALLI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.038645
71	151	KORLAHALLI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.996803
72	STREAM	KORLAHALLI	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.113231
						2.366166
73	19/A	MACHENAHALLI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	2.412168
74	80	MACHENAHALLI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	25.794601
						28.206769
75	10	MAJJUR	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	1.710409

76	11	MAJJUR	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	1.491553
						3.201962
77	139	MUNDAWAD	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.154718
78	147	MUNDAWAD	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.000001
						0.154719
79	222	MEVUNDI	DAMBALA	MUNDARGI	GADAG	0.010753
						0.010753
80	1	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.7575
81	13/A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	4.464903
82	13/B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	1.776781
83	13/B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	7.834412
84	13/C1	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	34.937634
85	17	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	1.662942
86	2	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	6.079098
87	21/A1	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	1.414654
88	21/A2/C	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.169404
89	21A2	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.175493
90	24/A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	16.739875
91	24/B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	16.577712
92	24/C	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	2.015563
93	24/C1	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	10.248856
94	27	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	8.662862
95	28/A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	12.151527
96	28/A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	9.332834
97	28/A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.026104
98	28/A2	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.350786
99	28/B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	2.338579
100	28/B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.17238
101	34/A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	10.285877
102	34/A/1A/1A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	15.570922
103	34/A/2	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	5.79361
104	34/A/4B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	7.381083
105	34/A/4B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	6.541695
106	34/A1/B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.000471
107	8/A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	65.563005
108	8/A	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	8.200802
109	8/A1/B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	2.049553
110	8/A1/C	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	2.942873
111	8/A1/D	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	2.545139
112	8/A1/E	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	3.214925
113	8/A2	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	5.513367
114	8/B	NABAPUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.334716
						273.827937
115	19	NADHIGHATTI	LAXMESHWAR	LAXMESHWAR	GADAG	5.78074
116	20	NADHIGHATTI	LAXMESHWAR	LAXMESHWAR	GADAG	4.240006
117	29	NADHIGHATTI	LAXMESHWAR	LAXMESHWAR	GADAG	8.610866
118	3	NADHIGHATTI	LAXMESHWAR	LAXMESHWAR	GADAG	10.58191
119	30	NADHIGHATTI	LAXMESHWAR	LAXMESHWAR	GADAG	8.944811
120	31	NADHIGHATTI	LAXMESHWAR	LAXMESHWAR	GADAG	68.045731
						106.204064
121	3/D	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	2.65476
122	34/A	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	33.865036
123	34/H	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	6.830725
124	35/A	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	78.758593
125	35/B	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.131647

126	35/C	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.488209
127	35/D	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.243759
128	35/E	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.999045
129	35/F	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.370015
130	35/G	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.442243
131	35/H	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	0.75852
132	35/I	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	2.669564
133	37/A	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	117.281382
134	37/B	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	3.191655
135	37/C	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	5.432455
136	37/E	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	2.163801
137	37/F	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	3.270062
138	38/A1	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	78.097127
139	38/A10	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.061685
140	38/A11	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.038816
141	38/A12	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	0.899918
142	38/A13	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	0.785035
143	38/A14	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	0.845681
144	38/A2	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	2.243304
145	38/A3	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.779604
146	38/A4	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	2.761027
147	38/A5	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	2.134116
148	38/A6	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	0.988238
149	38/A7	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	2.372476
150	38/A8	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	1.317532
151	38/A9	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	0.913878
152	38/B	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	11.36285
153	39	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	9.286396
154	48	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	5.552426
155	49	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	8.046111
156	50	PAPANASI	BETAGERI	GADAG	GADAG	8.158138
						405.195829
157	72	SHIRUNJ	GADAG	GADAG	GADAG	8.958688
158	77	SHIRUNJ	GADAG	GADAG	GADAG	24.428104
						33.386792
159	130	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	3.830488
160	133	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	122.437778
161	136	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	31.163299
162	139	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.045252
163	140	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	47.059254
164	140/PAI	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.020371
165	141	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	7.430051
166	142/A	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	13.22136
167	142/A	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	7.517483
168	142/B	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	1.458102
169	143/PAI	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.102908
170	159	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	7.220777
171	160	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	8.89017
172	161	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	4.997079
173	162	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	5.735181
174	164	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	89.480117
175	168	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.369826
176	170	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.42065

177	174/A	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.28757
178	174/B	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.228026
179	175	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	7.655521
180	176	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	7.139944
181	177	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	2.992855
182	199	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	8.873211
183	ROAD	SORATUR	GADAG	GADAG	GADAG	0.004894
						378.582167
184	65	SOGIWAL	LAKSHMESHVAR	LAXMESHWAR	GADAG	166.500819
185	66	SOGIWAL	LAKSHMESHVAR	LAXMESHWAR	GADAG	6.089292
186	67	SOGIWAL	LAKSHMESHVAR	LAXMESHWAR	GADAG	7.886601
187	68	SOGIWAL	LAKSHMESHVAR	LAXMESHWAR	GADAG	8.494399
						188.971111
188	121	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	0.222578
189	131	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	0.279241
190	141	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	0.704788
191	80/A/1	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	90.68251
192	80/A/2	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	0.845621
193	80/B	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	4.100286
194	90	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	52.790671
195	91	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	25.991635
196	94	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	0.184244
197	XX	SHINGATRAYANAKERI	DAMBAL	MUNDARGI	GADAG	9.239562
						185.041136
198	11	SUGANAHALLI	SHIRAHATTI	SHIRAHATTI	GADAG	0.366855
						0.366855
199	27	VIRUPAPUR	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	2.278665
200	30	VIRUPAPUR	MUNDARAGI	MUNDARGI	GADAG	0.002446
						2.281111
			TOTAL FOREST AREA IN Ha.			2380.463853

Annexure- VIII

FLORA FOUND IN THE KAPPATHAGUDDA WILD LIFE SANCTUARY:

Kappathagudda hill ranges are home to rare and endemic medicinal plants. The sanctuary has certain valleys and depressions where there is a good mix of dry deciduous and thorn scrubforests. The wildlife sanctuary is rich in various medicinal plant species.

A. LIST OF SOME IMPORTANT MEDICINAL PLANTS FOUND IN KAPPATHAGUDDA WILD LIFE SANCUTARY

Sl. No.	Name of the species	Family
1.	<i>Abelmoschus ficulneus</i> (L.)Wight& Arn.*	Malvaceae
2.	<i>Abrusprecatorius</i> L.*	Fabaceae
3.	<i>Abutilon hirtum</i> (Lam.) Sweet	Malvaceae
4.	<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet.*	Malvaceae
5.	<i>Acacia chundra</i> (Rottler) Willd.*	Mimosaceae
6.	<i>Acacia ibbose</i> (L.f.) Willd.	Mimosaceae
7.	<i>Acacia horrida</i> (L.) Willd.*	Mimosaceae
8.	<i>Acacia leucophloea</i> (Roxb.) Willd.*	Mimosaceae
9.	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd.	Mimosaceae
10.	<i>Acalypha ibbosee</i> Forsskal	Euphorbiaceae
11.	<i>Acalypha indica</i> L.*	Euphorbiaceae
12.	<i>Acalypha lanceolata</i> Willd.*	Euphorbiaceae
13.	<i>Acalypha malabarica</i> Muell.*	Euphorbiaceae
14.	<i>Acanthospermumhispidum</i> DC.*	Asteraceae

Sl. No.	Name of the species	Family
15.	<i>Achyranthes aspera</i> L.*	Amaranthaceae
16.	<i>Actiniopteris radiata</i> (Sw.) Link.*	Actiniopteridaceae
17.	<i>Adhatodavasica</i> Nees.*	Acanthaceae
18.	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Correa*	Rutaceae
19.	<i>Aervalanata</i> (L.) Juss. Ex Schultes.*	Amaranthaceae
20.	<i>Aervamonsoniae</i> (Retz.) Mart.*	Amaranthaceae
21.	<i>Aervasanguinolenta</i> (L.) Blume	Amaranthaceae
22.	<i>Aeschynomene americana</i> L.	Fabaceae
23.	<i>Ageratum conyzoides</i> L.*	Asteraceae
24.	<i>Aglaia elaeagnoidea</i> (A.Juss) Benth	Meliaceae
25.	<i>Ailanthus excelsa</i> Roxb.*	Simaroubaceae
26.	<i>Alangiumsalvifolium</i> (L.f.) Wangerin*	Alangiaceae
27.	<i>Albizia amara</i> (Roxb.) B.Boivin*	Mimosaceae

Sl. No.	Name of the species	Family
28.	<i>Allamanianodiflora</i> (L.) R.Br. *	Amaranthaceae
29.	<i>Aloe vera</i> (L.) N. Burman.*	Liliaceae
30.	<i>Alternanthera pungens</i> Kunth	Amaranthaceae
31.	<i>Alternanthera sessilis</i> L.	Amaranthaceae
32.	<i>Alysicarpusbupleurifolius</i> (L.) DC.	Fabaceae
33.	<i>Alysicarpus heterophyllus</i> (Benth ex Baker) Jaffri& Ali	Fabaceae
34.	<i>Alysicarpusmonilifer</i> (L.) DC.	Fabaceae
35.	<i>Amaranthus polygonoides</i> L.	Amaranthaceae
36.	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	Amaranthaceae
37.	<i>Amaranthus viridis</i> L.*	Amaranthaceae
38.	<i>Andrographis echioides</i> (L.) Nees.*	Acanthaceae
39.	<i>Andrographis ibbosei</i> (N. Burman) Wall. Ex Nees.*	Acanthaceae
40.	<i>Anisochilus carnosus</i> (L.f.) Wall.*	Lamiaceae
41.	<i>Anisomeles indica</i> (L.) Kuntze*	Lamiaceae
42.	<i>Anisomelesmalabarica</i> (L.) R.Br. ex Sims*	Lamiaceae
43.	<i>Annona squamosa</i> L.*	Annonaceae

Sl. No.	Name of the species	Family
44.	<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. Ex DC.)*	Combretaceae
45.	<i>Argemone ibbose</i> L.*	Papavaraceae
46.	<i>Aristolochiaibbosei</i> Lam.*	Aristolochiaceae
47.	<i>Aristolochia indica</i> L.*	Aristolochiaceae
48.	<i>Asclepias curassavica</i> L.*	Apocynaceae
49.	<i>Asparagus asiaticus</i> L.*	Liliaceae
50.	<i>Asparagus racemosus</i> Willd.*	Liliaceae
51.	<i>Aspidopterys cordata</i> (B. Heyne ex Wall.) A.Juss.*	Liliaceae
52.	<i>Asystasiadalzelliana</i> Sant.	Acanthaceae
53.	<i>Atylosia albicans</i> (Wt. &Arn.) Benth.*	Fabaceae
54.	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss.*	Meliaceae
55.	<i>Azimatetracantha</i> Lam.	Salvadoraceae
56.	<i>Balanites aegyptica</i> Planchon*	Balanitaceae
57.	<i>Bambusaarundinacea</i> (Retz.) Roxb.	Poaceae
58.	<i>Barleriabuxifolia</i> L.*	Acanthaceae
59.	<i>Barlerianoctiflora</i> L.f.*	Acanthaceae
60.	<i>Barleriaprionitis</i> L.*	Acanthaceae

B. Trees:

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
1	Matthi	<i>Terminalia tomentosa</i>
2	Tugli	<i>Albizia amara</i>
3	Kavalekai	<i>Carissa carandus</i>
4	Muttaga	<i>Butea monosperma</i>
5	Sombi mara	<i>Soymida febrifuga</i>
6	Kakke	<i>Cassia fistula</i>
7	Tupra	<i>Diospyros</i>
8	Ficus sps.	<i>Ficus sps.</i>
9	Karijaali	<i>Acacia nilotica</i>
10	Kamara	<i>Hardwickia binata</i>
11	Kharasing	<i>Stereospermum xylocarpum</i>
12	Atti	<i>Ficus Glomeratus</i>
13	Aladmara	<i>Ficus Bangalensis</i>
14	Aralimara	<i>Ficus Religiosa</i>
15	Banni	<i>Prosopis Cineraria</i>
16	Bevu	<i>Azadiracta Indica</i>
17	Billpathra	<i>Eagle Marmelesa</i>
18	Bikkimara	<i>Gardenia Gummeifera</i>
19	Kakki	<i>Cassia Fistula</i>
20	Lakki	<i>Vitex Negunda</i>
21	Tumbi	<i>Leucous Cephalotus</i>

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
22	Turabi	<i>Sida cardifolia</i>
23	Madugunki	<i>Dhattuara Metal</i>
24	Golagolaki	<i>Argonone Mexicana</i>
25	Antawal	<i>Sepindus Triphollatus</i>
26	Gorati (Madarangi)	<i>Lawsonia Inermis</i>
27	Kavali	<i>Carisa Carandious</i>
28	Kolikutak	<i>Glorioso Superba</i>
29	Tegu	<i>Tectona Grandis</i>
30	Devdaru	<i>Cerdus Deodara</i>
31	Alali	<i>Terminelia Chebula</i>
32	Tarikai	<i>Terminelia bellirica</i>
33	Nellikai	<i>Embica officinalis</i>
34	Honavari	<i>Cassiaquiculata</i>
35	Tulsi	<i>Occimum Sanctum</i>
36	Nelabevu	<i>Swertia chloyain</i>
37	Mangari	<i>Randia spinosa</i>
38	Bharangi	<i>Clerodendrum serrectum</i>
39	Matti	<i>Terminelia arjuna</i>
40	Nelagull	<i>Solanum surattense</i>
41	Hegull	<i>Solanum indicum</i>
42	Mavu	<i>Mangliete indica</i>
43	Mayurshika	<i>Adiantum caudatum</i>

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
44	Ramban	<i>Thephrocia Purporea</i>
45	Basavanpad	<i>Bauhaniaveriagain</i>
46	Keeru	<i>Semicarpas Anacardium</i>
47	Shivani	<i>Gmelina Arboria</i>

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
48	Yadamuragi	<i>Hellcterus isora</i>
49	Teri (Tugli)	<i>Acasia catechu</i>
50	Shrigand	<i>Santulum album</i>
51	Lolesar	<i>Aloe vera</i>

There are grasslands comprising of grasses of many species which includes the wild variety of important legumes and millets which are important fodder for the ungulates found in the area.

C. Fauna:

Kappathagudda is rich in wildlife due to its unique habitat ranging from grassland to deciduous forest and presence of natural caves, tunnels, and valleys. The following species of wild animals and birds are found in the Kappathagudda Wildlife Sanctuary:

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
1	Stripped Hyaena	<i>Hyaenahyaena</i>
2	Wolf	<i>Canis lupus pallipes</i>
3	Indian porcupine	<i>Hystrixindica</i>
4	Jackal	<i>Canisaureus</i>
5	Jungle cat	<i>Felischaus</i>
6	Common mongoose	<i>Herpestessps</i>
7	Common langur	<i>Presbytis entellus</i>
8	Bonnet macaque	<i>Macaca radiate</i>
9	Common Indian hare	<i>Lepusnigricollis</i>
10	Wild pig	<i>Susscrofa</i>
11	Four horned antelope	<i>Tetracerusquadricornis</i>
12	Pangolin	<i>Maniscrassicaudata</i>

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
13	Fresh water crocodile	<i>Crocodilussps</i>
14	Monitor lizard	<i>Varanusbengalensis</i>
15	Indian Cobra	<i>Najanaja</i>
16	Rat snake or Dhaman	<i>Ptyasmucosus</i>
17	Indian Rock Python	<i>Python molurus</i>
18	Viper	<i>Viperarusselli</i>
19	Blackbuck	<i>Antelope cervicarpa</i>
20	Leopard	<i>Panthera pardus</i>
21	Wild boar	<i>Sus scrofa</i>
22	Indian grey wolf	<i>Canis lupus pallipes</i>
23	Taddy Cat	<i>Felis catus</i>
24	Small Indian civet	<i>Viverricula indica</i>

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
25	Indian Pangolian	<i>Manis crassicaudata</i>
26	Five stripped palm squirrel	<i>Funambulus pennantii</i>
27	Bonnet macaque	<i>Macaca radiata</i>
28	Flying fox	<i>Pteropus</i>
29	Short nosed fruit bat	<i>Cynopterus sphinx</i>
30	Indian false vampire	<i>Megaderma lyra</i>
31	Common house rat	<i>Rattus rattus</i>
32	Brown rat	<i>Rattus norvegicus</i>
33	Bindicoat Rat	<i>Bandicota</i>
34	House mouse	<i>Mus musculus</i>
35	Common wolf	<i>Canis lupus lupus</i>
36	Common mangoose	<i>Herpestidae</i>
37	Back napped hare	<i>Lepus nigricollis</i>
38	Rock Python	<i>Python molurus</i>
39	Grey Wolf	<i>Canis lupus pallipes</i>
40	Golden jackal	<i>Canis aureus</i>
41	Striped hyena	<i>Hyaena hyaena</i>
42	Sloth bear	<i>Melursus ursinus</i>
43	Jungle cat	<i>Felis chaus</i>
44	Rusty-spotted cat	<i>Prionailurus rubiginosus</i>
45	Honey badger	<i>Mellivora capensis</i>

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
46	Indian Porcupine	<i>Hystrix indica</i>
47	Indian Pangolin	<i>Manis crassicaudata</i>
48	Small Indian Civet	<i>Viverricula indica</i>
49	Common Palm Civet	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>
50	Ruddy Mongoose	<i>Herpestes smithii</i>
51	Grey Mongoose	<i>Herpestes edwardsii</i>
52	Grey Hornbill	<i>Ocyceros birostris</i>
53	Malabar Pied Hornbill	<i>Anthracosceros coronatus</i>
54	Indian Cobra	<i>Naja naja</i>
55	Demoiselle Crane	<i>Grus virgo</i>
56	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>
57	Indian muntjac	<i>Muntiacus muntjak</i>
58	Grey langur	<i>Semnopithecus dussumieri</i>
59	Bonnet Macaque	<i>Macaca radiata</i>
60	Smooth Coated Otter	<i>Lutrogale perspicillata</i>
61	Indian Star Tortoise	<i>Geochelone elegans</i>
62	Marsh crocodile	<i>Crocodylus palustris</i>
63	Indian monitor lizard	<i>Varanus bengalensis</i>
64	Brown Mongoose	<i>Herpestes fuscus</i>
65	Slender Loris	<i>Loris lydekerianus</i>

Birds:

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
1	India peafowl	<i>Pavo cristatus</i>
2	Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>
3	Ruddy Shelduck	<i>Tadornaferruginea</i>
4	Comb duck	<i>Sarkidiornissylvicola</i>
5	Spot-billed duck	<i>Anas poecilorhyncha</i>
6	Common teal	<i>Anas crecca</i>
7	Eurasian Wigeon	<i>Marecapenelope</i>
8	Northern Shoveler	<i>Spatula clypeata</i>
9	Coppersmith Barbet	<i>Psilopogonhaemacephalus</i>
10	Indian Grey Hornbill	<i>Ocyerosbirostris</i>
11	Common Kingfisher	<i>Alcedoatthis</i>
12	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>
13	Pied Kingfisher	<i>Cerylerudis</i>
14	Demoiselle Crane (Hovering)	<i>Anthropoidesvirgo</i>
15	White breasted waterhen	<i>Amauornisphoenicurus</i>
16	Green sandpiper	<i>Tringaochropus</i>
17	Wood sandpiper	<i>Tringaglareola</i>
18	Common sandpiper	<i>Actitishypoleucos</i>
19	Little stint	<i>Calidris minuta</i>
20	Temminck's stint	<i>Calidris temminckii</i>
21	Curlew sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>
22	Black-winged stilt	<i>Himantopus himantopus</i>
23	Small pratincole	<i>Glareolalactea</i>
24	Pheasant tailed jacana	<i>Hydrophasianuschirurgus</i>
25	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>
26	Kintish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>

Sl. No.	Common Name	Scientific Name
27	Yellow watted lapwing	<i>Vanellusmalabaricus</i>
28	Red watted lapwing	<i>Vanellus indicus</i>
29	Brown Headed Gull	<i>Chroicocephalusbrunnicephalus</i>
30	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>
31	Black Bellied tern	<i>Sterna acuticauda</i>
32	Black shoulder Kite	<i>Elanusaxillaris</i>
33	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>
34	Brahminy Kite	<i>Haliasturindus</i>
35	Little Grebe	<i>achybaptus ruficollis</i>
36	Little Cormorant	<i>Microcarboniger</i>
37	Little egret	<i>Egretta garzetta</i>
38	Intermediate egret	<i>Ardea intermedia</i>
39	Indian Pond Heron	<i>Ardeola</i>
40	Greater flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>
41	Black headed Ibis	<i>Threskiornismelanocephalus</i>
42	Eurasian spoonbills	<i>Platalealeucorodia</i>
43	Painted stork	<i>Mycteria leucocephala</i>
44	Asian Openbill	<i>Anastomusoscitans</i>
45	Wooly necked stork	<i>Ciconia episcopus</i>
46	Black Ibis	<i>Threskiornismelanocephalus</i>
47	Borwn shrike	<i>Laniuscristatus</i>
48	Bay-backed Shrike	<i>Laniusvittatus</i>
49	Long-tailed Shrike	<i>Laniusschach</i>
50	Rufous tree pie	<i>Dendrocittavagabunda</i>
51	Large billed crow	<i>Corvus macrorhynchos</i>

Annexure- IX**PROFORMA OF THE ACTION TAKEN REPORT:**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged Under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986
8. Any other matter of importance.